



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2240]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 8, 2012/कार्तिक 17, 1934

No. 2240]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 2012/KARTIKA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2012

**का.आ. 2692(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का-48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2562(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 360.000 कि.मी. से 410.750 कि.मी. (जलगांव-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 23 जनवरी, 2012 को "लोकमत" (मराठी) समाचार पत्र और "लोकमत टाइम्स" (अंग्रेजी) समाचार पत्र दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुरोध कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में कृषि उपकरण संख्या 8 के कि.मी. 380.000 से कि.मी. 410.700 (किसानों - किसान / मुख्यतः जीमा सेवान) तक के प्रस्तावित मापनिकार में दर्ज की जाने वाली संरचना संबंधित संरचना संबंधित कृषि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	गट संख्या/संरचना संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	मूल्यांकन/विस्तार व्यक्तियों के नाम
				3 (4) राजपत्र अधिसूचना के अनुसार	ज.ए.व. और 7/12 खंडों के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	जलगांव	1. मुस्ताईनगर	1) पिछली	1	1	सरकारी	फॉरेस्ट	150	सरकार
				2. 2/1/2अ. 2/1/2ब. 2/1/2बपे. 2/1/1. 2/1/2	2	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1100	1. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.8 2. समधान नामदेव मुंभार 3. गृप राम पद्मावत पिछली 4. दामा रामा पारवी 5. गुलाबराव कृष्ण पारवी 6. नारायण महिपत कोळी 7. घोडसगांव वि.का.सह.सो. 8. न.अ.श.
				4	4	निजी	कृषि	450	1. विष्णू सुकदेव बाबरकर 2. दिपक निवृत्ती खचटे 3. पुंडलीक किसान टुटटे
				8	8	निजी	कृषि	650	1. गणेश सोनु कोळी 2. न.अ.श.
				64/1. 64/2. 64/3.	64/1. 64/2. 64/3.	निजी	कृषि	1500	1. सी. धुमताज सी. अहमद. 2. सी. इस्फान सी. अहमद. 3. विठ्ठल ज्ञानदेव धनगर 4. समाधान ज्ञानदेव धनगर
				58 पै. 58 पै.	58	निजी	कृषि	1200	1. अर्जुन यादव खोंदले 2. धनराज यादव खोंदले 3. अशोक माधव खोंदले 4. प्रकाश माधव खोंदले 5. शोभाबाई एकनाथ जुंडळे 6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुस्ताईनगर 7. घोडसगांव वि.का.सह.सो.
				61	61	निजी	कृषि	700	1. जानु बक्सू 2. शेनु बक्सू 3. पुजाबाई बाप जानु 4. जनाबाई व. जानु 5. विलास माना वानखेडे 6. युवराज माना वानखेडे 7. सुनिल माना वानखेडे 8. सिताबाई माना वानखेडे 9. न.अ.श.
				62	62	निजी	कृषि	200	1. एकुल तुकाराम सुपडू वानखेडे 2. घोडसगांव वि. का. सह. सो. 3. न.अ.श.
				88 पै. 88 पै.	88 पै.	निजी व सरकारी	कृषि	2500	1. गिताबाई भैरवसिंह ठाकूर 2. संजय भैरवसिंह ठाकूर 3. चक्रपूर भैरवसिंह ठाकूर 4. धनुषीर भैरवसिंह ठाकूर 5. सरीता दिपेंद्रसिंह ठाकूर 6. सुर्या संतोषसिंह ठाकूर 7. रेखा अभिमन्युसिंह ठाकूर 8. कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग, जलगांव
				87/1. 87/2	87/1. 87/2	निजी	कृषि	159	1. भूपेश भास्करराव पाटील 2. घोडसगांव वि. का. सह. सो.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				88	88	निजी	कृषि	200	1. विजय लक्ष्मण वानखेडे. 2. संजय लक्ष्मण वानखेडे. 3. भिमराव शामराव महाले 4. सुमन नारायण पालवे 5. कौशल्या रामदास पालवे 6. सुशिला बबन इंगळे 7. बेबी भगवान म्हासने 8. घोडसगांव वि. का. स. सो.
				90/1. 88/2. 90/3. 90/4	88/1. 90/2. 88/3. 90/4	निजी	कृषि	150	1. देवाजी नारायण पाटील. 2. शिवाजी नारायण पाटील. 3. गजानन नारायण पाटील. 4. सदानंद नारायण पाटील 5. मधुकर नारायण पाटील 6. घोडसगांव वि. का. सो. सह. सो. 7. स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर 8. न.अ.श. 9. नि.स.प्र.
				81	81	निजी	कृषि	150	तुळशीराम ओंकार शिरसागर
				92	92	निजी	कृषि	132	1. तुळशीराम ओंकार शिरसागर 2. काशिराम ओंकार शिरसागर 3. विश्वनाथ ओंकार शिरसागर 4. सुमनबाई व भावण उमाळे
				93	93	निजी	कृषि	178	1. नारायण भगवानददीन परदेशी 2. घोडसगांव वि.का.सह.सो.
				162	162	निजी	कृषि	750	प्रकाश दामोदर महाले
				180	180	निजी	कृषि	957	1. गुरुदास चरणकमल गुरुगोविंद सिंग सेवक जख्खा, चिखली तर्फे अध्यक्ष हरबन्तसिंग साधुसिंग बाबाजी. 2. सुलोचना गणपत कांडेलकर 3. सुनिल प्रल्हाद वाघ. 4. घोडसगांव वि.का.सह. सो.
				158	158	निजी	कृषि	300	1. शेवताबाई बाबुराव बायस्कर. 2. सेवक जख्खा गुरुदास चरणकमल, चिखली तर्फे संचालक हरबन्तसिंग साधु सिंग. 3. घोडसगांव वि.का.सह.सो.
				157	157	निजी	कृषि	176	1. गुरुदास चरणकमल चिखली तर्फे, अध्यक्ष हरबन्त सिंग, साधुसिंग बाबाजी. 2. घोडसगांव वि.का.सह.सो.
				156	156	निजी	कृषि	250	1. हरबन्त सिंग साधुसिंग, 2. सरबजीत कौर इंदरसिंग चाहेल. 3. गुरुगिंदर सिंग इंदरसिंग चाहेल. 4. भजनप्रितसिंग इंदरसिंग चाहेल
				155/1/1. 155/1/2. 155/2/1. 155/2/2/1. 155/2/2/2. 155/2 पै. 155/2पै	155/1/1. 155/1/2. 155/2/1. 155/2/2/1. 155/2/2/2. 155/2 पै. 155/2पै.	निजी	कृषि व अकृषिक	2019	1. सुरेश नारायण मांडवेकर. 2. पार्वतीबेन छेतसिमाई पटेल. 3. चंदना नाना बोरसे. 4. विजया प्रकाश चौधरी. 5. जियराज बळीराम महाजन 6. दि. अर्बन को.ऑ.बँक. लि. धरणगाव शाखा जळगाव 7. आशाबाई भागवत चौधरी. 8. न.अ.श. 9. नि.स.प्र.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				154/1/1. 154/1/2. 154/2	154/1/1. 154/1/2. 154/2	निजी	कृषि	1365	1. सज्जितकीर इंदरसिंग चाहेल. 2. सरवर्जितकीर इंदरसिंग चाहेल. 3. गुरुनंदनसिंग इंदरसिंग चाहेल. 4. भजनप्रतापसिंग इंदरसिंग चाहेल 5. राजकुमारसिंह शम्भूदाससिंह 6. बजरंग बहादुरसिंह 7. अमर बहादुरसिंह 8. घोडसगांव विकास.सो. 9. न.अ.श. 10. नि.स.प.
				153/1. 153/2	153/1. 153/2	निजी	कृषि	700	1. विजय मोतीरामजी चौधरी 2. न. अ. श.
				159	159	निजी	कृषि	152	तुकाराम शिवाजी अहिरे
		(2)	घोडसगांव	251	251	निजी	कृषि	1600	1. शंकर गणपत इंगळे 2. घोडसगांव विकास.सो. 3. न.अ.श.
				130	130	निजी	कृषि	1250	1. मोहनलाल किशनदास गुजरथी 2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुक्ताईनगर
				245/1/1. 245/1/2. 245/1/3. 245/1/4/1. 245/1/4/2. 245/1/5	245/1/1. 245/1/2. 245/1/3. 245/1/4/1. 245/1/4/2. 245/1/5	निजी	कृषि	2790	1. केशवबाई-केशव दुट्टे. 2. राजेंद्र श्रीराम दुट्टे. 3. रविंद्र श्रीराम दुट्टे. 4. नरेंद्र श्रीराम दुट्टे. 5. विनोद श्रीराम दुट्टे 6. तुळसाबाई श्रीराम दुट्टे. 7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा-मुक्ताईनगर 8. दि. युनायटेड वेस्टर्न बैंक शाखा मुक्ताईनगर 9. आय. डी. बी. आय. बैंक मुक्ताईनगर 10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुक्ताईनगर 11. न.अ.श. 12. विकास.सो.सो. घोडसगांव
				246/1/1. 246/1/2	246/1/1. 246/1/2	निजी	कृषि	178	1. लाडकाबाई काशिनाथ दुट्टे. 2. पादुरंग शामा दुट्टे 3. घोडसगांव विकास.सो.
				244	244	निजी	कृषि	350	बनाबाई सिताराम घास्कर
				226/1/1/13. 226/1/1/13 /1. 226/1/1/13. 2/1/1/1. 226/1/1/34/ 2/1/2. 226/1/1/13 /2/2/2. 226/1/1/13 /2/1/1/2. 226/1/1/2. 226/1/2	226/1/1/13. 226/1/1/13/1. 226/1/1/13 2/1/1/1. 226/1/1/34/2/1/2. 226/1/1/13/2/2. 226/1/1/13/2/1/1 /2. 226/1/1/2. 226/1/2	निजी	कृषि	3472	1. सुरेश तुकाराम तळेले 2. लताबाई सुरेश खेवलकर. 3. रविंद्र तुकाराम तळेले. 4. राजेंद्र तुकाराम तळेले. 5. रूपचंद दगडू पाटील. 6. रमाकांत वासुदेव चौधरी 7. तुकाराम शंकर आगे 8. घोडसगांव विकास.सो. 9. दि. युनायटेड वेस्टर्न बैंक शाखा मुक्ताईनगर 10. आय. डी. बी. आय. बैंक शाखा-मुक्ताईनगर 11. मुक्ताई बि. शे. सह. प. सं. मया, मुक्ताईनगर 12. विकास.सो.सो. मुक्ताईनगर
				225/1/1. 225/1/23. 225/1/24. 225/1/33. 225/1/2/34. 225/3/1. 225/3/2/2	225/1/1. 225/1/23. 225/1/24. 225/1/33. 225/1/2/34. 225/3/1. 225/3/2/2	निजी	कृषि	500	1. मदाकिनी रमाकांत चौधरी 2. संजय नारायण पाटील. 3. दिनेश नारायण पाटील. 4. पुडलीक नारायण पाटील. 5. राजेश विरचंद जैन. 6. रमेश विरचंद जैन. 7. जोशीला नितीश कुमार गेपडा 8. रमलाबाई विरचंद जैन. 9. सुपडाबाई ज्ञानदेव आगे 10. गिताबाई तुकाराम आगे 11. घोडसगांव विकास.सो. 12. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुक्ताईनगर 13. मुक्ताई ग्रामीण बि.शे.स.प.सं. मया, मुक्ताईनगर
				222/1	222/1	निजी	कृषि	187	1. काशिनाथ रूपचंद जाधवे 2. न.अ.श.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				221/1	221/1	निजी	कृषि	4100	1. बाणाबाई किसन धनगर 2. जयकृष्णबाई संतोष इंदरे 3. कौशल्याबाई रघुनाथ बोरसे 4. लिलाबाई सुपडा धनगर 5. सुमनबाई काशिनाथ बांजोळे 6. पुरुषोत्तम जगदेव लोणागरे 7. बारसू जगदेव लोणागरे 8. कमल लक्ष्मण लोणागरे 9. गजानन लक्ष्मण लोणागरे 10. अनिता संजय जुमडे 11. गिताबाई लक्ष्मण लोणागरे 12. पुरुषोत्तम रघुनाथ फडणीस 13. न.अ.श. (नियंतीत सत्ता प्रकार)
				223/1	223/1	निजी	कृषि	100	1. लक्ष्मण रूपचंद जवरे 2. घोडसगांव वि.का.स.सो. 3. न.अ.श.
				210/1, 210/2	210/1, 210/2	निजी	कृषि	1179	1. चंद्रकांत गोविंदा दुदटे 2. कुणाल भगवान दुदटे, अ.पा.क.आई.ज्योती दुदटे 3. योगेश ज्ञानदेव आगळे 4. रामभाऊ काशिनाथ जवरे 5. घोडसगांव वि.का.स.सो. 6. स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर
				212/1/1/1, 212/1/1/2, 212/1/2	212/1/1/1, 212/1/1/2, 212/1/2	निजी	कृषि	2874	1. जाफरखान हुसनाईल खान, 2. सुनंदा अभिमन्यु पाटील, 3. घोडसगांव वि.का.स.सो. 4. अरुणकुमार प्रेमचंद बोधरा 5. वि.का.स.सो.सो. मुक्ताईनगर
				174/131.1, 174/131.2, 174/1ब, 174/1क, 174/2/131, 174/2/1ब, 174/2/1क, 174/2/1ड 174/2/2	174/131.1, 174/131.2, 174/1ब, 174/1क, 174/2/131, 174/2/1ब, 174/2/1क, 174/2/1ड 174/2/2	निजी	कृषि	3668	1. धनु नारायण गव्हाळ 2. नामदेव जनार्दन बावस्कर 3. एकनाथ जनार्दन बावस्कर 4. विनोद नारायण धायडे 5. नारायण बळीराम धायडे 6. कामिनाबाई रमेश दुदटे 7. गोविंदा तुकाराम धायडे 8. लहु लक्ष्मण महाजन 9. दयाराम तुकाराम धायडे 10. आनंदा तुकाराम धायडे 11. सुपडाबाई वसंतराव मुन्हे 12. विकास-रामदास बोधरे 13. प्रकाश रामदास बोधरे 14. घोडसगांव वि.का.स.सो. 15. वर्णाबाई बाप शंकर कोळी 16. वि.का.स.सो.सो. सालवडी 17. स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर
				271/1/1/1, 271/1/1/2, 271/1/2/1, 271/1/2/2	271/1/1/1, 271/1/1/2, 271/1/2/1, 271/1/2/2	निजी	कृषि	3452	1. प्रकाश उत्तम धायडे 2. प्रदिप उत्तम धायडे 3. आशाबाई अशोक बोराखडे 4. उषाबाई ज्ञानकीराम धायडे 5. जानकीराम फडू धायडे 6. घोडसगांव वि.का.स.सो. 7. स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर 8. वि.का.स.सो.सो. मुक्ताईनगर
				287/1/2अ, 287/1/1/अ, 287/1/1/ब, 287/1/1/क, 287/1/2/ब, 201/2	287/1/2अ, 287/1/1/अ, 287/1/1/ब, 287/1/1/क, 287/1/2/ब, 287/2	निजी	कृषि	886	1. गुफाबाई गोविंदा धायडे 2. आनंदा तुकाराम धायडे 3. कस्तुराबाई दयाराम धायडे 4. राजेश दयाराम धायडे 5. कल्पना सुरेश गावडे 6. साधना रमेश पाटील 7. आश्वीनी अरुण पाटील 8. गोपाळ तुकाराम पाटील 9. मनिषा बळीराम महाजन 10. ईश्वर सदाशिव बिरारी 11. घोडसगांव वि.का.स.सो. 12. स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर 13. अरुणकुमार प्रेमचंद बोधरा 14. वि.का.स.सो.सो. मुक्ताईनगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				311	311	निजी	कृषि	2635	1. श्रीसंत मुक्ताबाई सह. साखर कारखाना लि. एदलाबाद 2. स्टेट बँक ऑफ इंडिया सी जळगांव 3. सहायक विक्रीकर आयुक्त, जळगांव 4. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाख जळगांव 5. जळगांव जि.म.सह. बँक जळगांव 6. बिगर सिंचन पाणीपट्टी बोजा 7. तहसिलदार मुक्ताईनगर यांचा जप्ती आदेश 8. दि. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 9. तेजस कंस्ट्रक्शन
				312 पै. 312 पै. 312 पै.	312 पै. 312 पै. 312 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	255	1. सरकार 2. कार्यकारी अभियंता - नॅशनल हायवे डिव्हिजन जळगांव 3. श्रीसंत मुक्ताबाई सह. साखर कारखाना लि. एदलाबाद, 4. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मुख्यशाखा जळगांव 5. सहायक विक्रीकर आयुक्त जळगांव 6. दि. ज.जि.मध्य. सह. बँक लि. जळगांव
				310/1	310/1	निजी	कृषि	1400	1. श्रीसंत मुक्ताबाई सह. साखर कारखाना लि. एदलाबाद 2. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा जळगांव 3. दि. महाराष्ट्र राज्य सह. बँक लि. मुंबई 4. सहा. विक्रीकर आयुक्त जळगांव 5. बिगर सिंचन पाणीपट्टी बोजा 6. तहसिलदार मुक्ताईनगर यांचा बोजा 7. जळगांव जि.म.सह.बँक जळगांव 8. तेजस कंस्ट्रक्शन
				309/1	309/1	निजी	कृषि	1150	1. श्रीसंत मुक्ताबाई सह. साखर कारखाना लि. एदलाबाद 2. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा जळगांव 3. दि. महाराष्ट्र राज्य सह. बँक लि. मुंबई 4. सहा. विक्रीकर आयुक्त जळगांव 5. जळगांव जि.म.सह.बँक जळगांव 6. तहसिलदार मुक्ताईनगर यांचा बोजा 7. तेजस कंस्ट्रक्शन
				308/1	308/1	निजी	कृषि	2446	1. श्रीसंत मुक्ताबाई सह. साखर कारखाना लि. एदलाबाद 2. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा जळगांव 3. दि. महाराष्ट्र राज्य सह. बँक लि. मुंबई 4. सहा. विक्रीकर आयुक्त जळगांव 5. बिगर सिंचन पाणीपट्टी बोजा 6. तहसिलदार मुक्ताईनगर यांचा बोजा 7. जळगांव जि.म.सह.बँक जळगांव 8. तेजस कंस्ट्रक्शन
				352/1/1/1. 352/1/1/3. 352/1/1/2. 352/1/2/1. 352/1/2/2	352/1/1/1. 352/1/1/3. 352/1/1/2. 352/1/2/1. 352/1/2/2	निजी	कृषि	2900	1. सुभाष राजाराम नारखेडे 2. नत्तीनी सुभाष नारखेडे 3. तुकाराम सखाराम नावरकर, 4. ज्ञानेश्वर सखाराम नावरकर, 5. दि.का.स.से.सो. मुक्ताईनगर 6. दि.का.स.से.सो. सोंगोळा ता. जामनेर
				351/1/1 पै. 351/1/2. 351/1/3.	351/1/1 पै. 351/1/2. 351/1/3.	निजी	कृषि एवं अकृषिक	988	1. श्रीसंत मुक्ताबाई सह. साखर कारखाना लि. मुक्ताईनगर, 2. पुष्पा सुभाष साफवरे 3. प्रविण सुभाष साफवरे 4. दिपाली सुभाष साफवरे 5. रुपाली सुभाष साफवरे 6. वैशाली सुभाष साफवरे अपाक पुष्पा सुभाष 7. जगदीशसिंह गुरुदेवसिंह लाली 8. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मुख्यशाखा जळगांव 9. दि. महाराष्ट्र राज्य सह. बँक लि. मुंबई 10. सहा. विक्रीकर आयुक्त जळगांव 11. बिगर सिंचन पाणीपट्टी बोजा 12. तहसिलदार मुक्ताईनगर यांचा बोजा 13. जळगांव जि.म.सह. बँक जळगांव 14. तेजस कंस्ट्रक्शन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				353 पै. 353 पै. 353 पै.	353 पै. 353 पै. 353 पै.	निजी व सरकारी	कृषि एवं अकृषिक	2487 1. सरकार 2. हामीदमीर हाजी समीर 3. अजय विजय बहादुर यादव, अ.पा.क. विजय बहादुर दुबशी यादव 4. पार्वती विजय बहादुर यादव 5. विजय बहादुर यादव 6. रमेश रामकुंभ महाजन, 7. सी. अमीर सी.जहीर 8. सी. हैदर सी. फरीद 9. निवाज अहमद उर्फ अशाफाक अहमद 10. मुरलीधर नामदेव खोसे, 11. विजय केवलकिशन शर्मा, 12. अजय केवलकिशन शर्मा, 13. कुंदन केवल किशन शर्मा, 14. परमविर केवलकिशन शर्मा, 15. सी. मंगिता रतन शर्मा, 16. शालाबाई केवलकिशन शर्मा 17. मिराबाई केवलकिशन शर्मा 18. कुंदन व परमविर अ.पा.क आई मिराबाई शर्मा 19. प्रल्हाद चांगो हिरोडे 20. रविंद नामदेव झनके  21. देवानंद नामदेव झनके 22. अ. गनी अ. रंशिद 23. पुर्णामाई ग्रा.वि.शे.सह.व. सं. मर्या. मुक्ताईनगर 24. किरण रामचंद्र पाटील
				355/1/अ, 355/1/ब	355/1/अ, 355/1/ब	निजी	अकृषिक	63 1. यमुनाबाई सुभाष ठाकुर, 2. पार्वती विजय बहादुर यादव 3. अजय विजय बहादुर यादव
				356/1/ प्लॉट नं.1	356 प्लॉट नं. 1	निजी	अकृषिक	80 श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद
				356/1/ प्लॉट नं.2	356 प्लॉट नं. 2	निजी	अकृषिक	80 श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद
				356/1/ प्लॉट नं.3	356 प्लॉट नं. 3	निजी	अकृषिक	80 1. श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर
				356/1/ प्लॉट नं.4	356 प्लॉट नं. 4	निजी	अकृषिक	72 सुनेश प्रल्हाद बानखेडे
				356/1/ प्लॉट नं.5	356 प्लॉट नं. 5	निजी	अकृषिक	72 1. श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर
				356/1/ प्लॉट नं.6	356 प्लॉट नं. 6	निजी	अकृषिक	72 1. श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर
				356/1/ प्लॉट नं.7	356 प्लॉट नं. 7	निजी	अकृषिक	80 1. श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर
				356/1/ प्लॉट नं. 8	356 प्लॉट नं. 8	निजी	अकृषिक	80 1. श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद, 2. कै.पी. राजन नारायण नायर 3. वि. युनायटेड वेस्टर्न बैंक शाखा मुक्ताईनगर
				356/1/ प्लॉट नं. 9	356 प्लॉट नं. 9	निजी	अकृषिक	96 1. श्री. मोहम्मद जावेद श्री. दाउद 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर
		(9) विपरी आकारांतर		200	200	निजी	कृषि	756 1. गंगुबाई गणपत माळी, 2. पुंजाराम गणपत माळी 3. मंजुराबाई एकनाथ टिळे 4. मंगलाबाई युवराज महाजन 5. जसुबाई संतोष मोपारी 6. संगिताबाई किशोर महाजन 7. सरस्वतीबाई रविंद महाजन 8. घोडसगांव वि.का.स.सी. 9. नि.स.प्र.
				201	201	निजी	कृषि	2750 1. सुखदेव ओंकार भंवर, 2. कडु दलपत भंवर, 3. मधुकर दलपत, 4. सुधाकर दलपत 5. कैशरबाई तुकाराम म्हस्के 6. घोडसगांव वि.का.स.सी. 7. नि.स.प्र. 8. न.अ.श.
				72 72 पै.	72 72 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2600 1. कल्पना सुधीर भालेराव 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा मुक्ताईनगर 3. एक्झिक्यूटिव्ह इंजीनियर नेशनल हायवे नं.6 जळगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				45. 45 पै	45. 45 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	100	1. केशव दत्तात्रय वदवेकर 2. घोडसगाव वि.का.स.सो. 3. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव
				40. 40 पै	40. 40 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	400	1. जिननेश चंद्रकांत पाटील 2. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव
				44. 44 पै	44. 44 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	700	1. दीपदाबाई अंबादास धनगर. 2. रघुनाथ नारायण धनगर 3. घोडसगाव वि.का.स.सो. 4. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव
				42. 42 पै	42. 42 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	350	1. सर्वजीतकौर इंदरजित 2. गुरुमिंदरसिंग इंदरसिंग चाहेल. 3. भजनप्रीतसिंग इंदरसिंग चाहेल. 4. सरबजीतकौर इंदरसिंग चाहेल 5. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव
				41	41	निजी	कृषि	500	1. गिताबाई बाबुराव भाळी 2. घोडसगाव वि.का.स.सो.
				46	46	निजी	कृषि	700	1. पादुरंग धनजी खोसे 2. पदमाबाई वसंतराव पाटील 3. प्रमिला जिवराज महाजन. 4. शांताबाई तुकाराम पटेल. 5. सुमनबाई धनंजय बोले. 6. सुगनबाई धनंजय आहिर 7. सुभाष श्रीराम खोसे. 8. रविंद्र श्रीराम खोसे. 9. प्रकाश श्रीराम खोसे. 10. कुसुमबाई संतोष महाजन. 11. मिराबाई विठ्ठल विचये. 12. उषाबाई जगन्नाथ लाडे. 13. उर्मिला सोपान दुट्टे. 14. अंजनाबाई श्रीराम खोसे 15. नथ्यु श्रीपत खोसे
				47	47	निजी	कृषि	700	1. अ. रहमान अ. करीम मन्वार 2. सखाराम दत्तपत सोनवणे
				56, 56 पै	56. 56 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1200	1. सुरेश पुंजाजी पाटील. 2. सुरेश पुंजाजी पाटील. 3. अरुण पुंजाराम पाटील. 4. वामन पुंजाराम पाटील. 5. इंदुबाई सुकलाल पाटील. 6. अनुसुमाबाई पुंजाराम पाटील. 7. पुरुषोत्तम समाधान पाटील. 8. मंगला चिंतामण पाटील. 9. कुसुमबाई समाधान पाटील 10. घोडसगाव वि.का.स.सो. 11. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव
				56/1, 56/2अ, 56 पै.	56/1, 56/2अ, 56 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2550	1. सरकार 2. भास्कर ओंकार भाळी. ● 3. घोडसगाव वि.का.स.सो. 4. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव
				57/1/अ, 57/1/ब, 57 पै.	57/1/अ, 57/1/ब, 57 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	450	1. छाया डिंगंबर खर्वे 2. आय.डी.बी.आय. बँक शाखा मुक्ताईनगर 3. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव
				61/1.	61/1	निजी	कृषि	358	1. चिडाबाई रामदास 2. घोडसगाव वि.का.स.सो. 3. न.अ.श.
				62. 62 पै	62. 62 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1200	1. एकुल समाधान देवराज कोळी 2. एक्झीक्यूटिव्ह इंजीनियर नॅशनल हायवे नं.6 जळगाव 3. न.अ.श.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				63	63	निजी	कृषि	1086 1. कडू फन्तू कोळी 2. अरुण फन्तू कोळी 3. साराबाई फन्तू कोळी 4. मिराबाई देविदास कोळी 5. आशाबाई भगन कोळी 6. घोडसगाव विकास सो. 7. सेंटल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुक्ताईनगर 8. न.अ.श.
			(4) मुक्ताई नगर	429/1	429/1	निजी	कृषि	400 1. एकुल इंदायणी सोपान पाटील 2. विकास सो. सो. मुक्ताईनगर
				431/1	431/1	निजी	कृषि	600 1. अरुण विठ्ठल नाईक 2. विकास सो. सो. मुक्ताईनगर
				432/1	432/1	निजी	कृषि	750 1. अरुण विठ्ठल नाईक 2. एदलाबाद विकास सो. 3. पुर्णमाई तापी सह प.स. मर्या. मुक्ताईनगर
				421/1	421/1	निजी	कृषि	650 1. मधुकर शंकर पाटील, 2. विश्वनाथ शंकर पाटील, 3. पांडुरंग शंकर पाटील, 4. अरुण शंकर पाटील, 5. पार्वतीबाई शंकर पाटील 6. निर्मलाबाई शंकर वाघोदे
				435/1	435/1	निजी	कृषि	246 1. वासुदेव रघुनाथ पाटील, 2. दामोदर रघुनाथ पाटील 3. न. अ.श.
				436/1	436/1	निजी	कृषि	250 1. पुंडलीक शंकर पाटील 2. एदलाबाद विकास सो. 3. न. अ. श.
				437/1	437/1	सरकारी	कृषि	250 सरकारी
				438/1	438/1	निजी	कृषि	250 1. वासुदेव रघुनाथ पाटील, 2. दामोदर रघुनाथ पाटील 3. न.अ.श.
				439/1/अ, 439/1/ब	439/1/अ, 439/1/ब	निजी	कृषि	638 1. अणिल प्रल्हाद पाटील, 2. प्रफुलकुमार शातीलाल जैन
				440/1	440/1	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1800 1. वसंत बापू वाणी, 2. रत्नाबाई सुधाकर निघ्यात 3. पवन सुभाष सदावर्त अपाक आशाबाई सदावर्त 4. गंगा आशाबाई सुभाष सदावर्त 5. एदलाबाद विकास सो. 6. अशोक विठ्ठल नाईक 7. न.अ.श. 8. नेशनल हायवे नं. 6 कडे
				445/1अ, 445/2	445/1अ, 445/2	निजी	कृषि	2200 1. भास्कर गोविदा झोपे 2. भागवत गोविदा झोपे 3. सौ. सुनिता तुकाराम बडे 4. सौ. शशिकला रमेश भारंबे 5. प्रभाकर सोपान झोपे, 6. सालबडी विकास सो. 7. नेशनल हायवे नं. 6 कडे
				446/1	446/1	निजी	कृषि	1000 1. हरी नारायण झोपे, 2. अविनाश पुरुषोत्तम सुपे 3. मुक्ताईनगर विकास सो.
				447/2, 447/1/अ	447/2, 447/1/अ	निजी	कृषि	1100 1. जयप्रकाश निनू चौधरी, 2. विकास निनू चौधरी, 3. कुंदाबाई प्र. अरुण माळी 4. मुक्ताईनगर विकास सो.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				453	453	निजी	कृषि	2000	1. बाळकृष्ण काशिसम चौधरी
				450 / 1 / अ	450 / 1 / अ	निजी	कृषि	100	1. मुरलीधर विश्वनाथ पाटील, 2. मनोहर विश्वनाथ पाटील 3. एदलाबाद वि. का.स.सो. 4. मुक्ताईनगर वि.का.स.सो.
				480 / 1	480 / 1	निजी	कृषि	800	1. मुरलीधर विश्वनाथ पाटील, 2. मनोहर विश्वनाथ पाटील 3. निनू एकनाथ पाटील, 4. प्रभाकर एकनाथ पाटील, 5. गिखर एकनाथ पाटील, 6. हरी विठोबा पाटील.
				483 / 1	483 / 1	निजी	कृषि	2750	1. मंदाकिनी एकनाथराव खडसे 2. कोथळी वि.का.स.सो.
				484 / 1	484 / 1	निजी	कृषि	2065	1. एकनाथराव गणपतराव खडसे 2. कोथळी वि.का.स.सो.
				500 / 1	500 / 1	निजी	कृषि	2750	1. पुरुषोत्तम रमेश पाटील 2. स्वाती संजय राणे 3. आशा अर्जुन बोरोले 4. लता सुरेश करांडे 5. मंदाकिनी प्रभाकर पाटील 6. चंदमाया एकनाथ सरोदे 7. लिलाबाई निनू सरोदे, 8. अविनाश रामचंद्र सरोदे, 9. सिताराम तौताराम सरोदे एकुल 10. प्रकाश निवृत्ती सरोदे, 11. मोहन निवृत्ती सरोदे, 12. भूषण निळकंठ सरोदे, 13. पुनम निळकंठ सरोदे, 14. सविता निळकंठ सरोदे, 15. मुक्ताईनगर वि.का.स.सो. 16. दि. युनायटेड वेस्टर्न बँक शाखा मुक्ताईनगर 17. नि.स.प्र.
				501	501	निजी	कृषि	200	1. दामोदर ओंकार महाजन, 2. वसंत नामदेव, 3. सदाशिव नामदेव, 4. जानकीबाई नामदेव, 5. ज्ञानदेव मुकुंदा महाजन 6. एदलाबाद वि.का.स.सो. 7. मुक्ताईनगर वि.का.स.सो. 8. दि. युनायटेड वेस्टर्न बँक शाखा मुक्ताईनगर
				502	502	निजी	कृषि	250	1. भास्कर काशिनाथ महाजन, 2. बाळकृष्ण काशिनाथ महाजन, 3. इंदुबाई बाप काशिनाथ, 4. ज्ञानदेव मुकुंदा महाजन, 5. विष्णू मुकुंदा महाजन, 6. कमलबाई मुकुंदा महाजन 7. उषाबाई नारायण पाटील 8. शोभा अशोक चौधरी 9. लता पादुरंग सरोदे 10. एदलाबाद वि.का.स.सो. 11. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा एदलाबाद
				499 / 2	499 / 2	निजी	कृषि	234	1. रमणलाल रंगलाल जैन, 2. सुगनचंद रंगलाल जैन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				505/1	505/1	निजी	कृषि	708	1. वासुदेव रघुनाथ पाटील, 2. दामोदर रघुनाथ पाटील 3. महेश विश्वनाथ इंगळे 4. न.अ.श. 5. मुक्ताई प्रा.वि.शे. सह. पं. मर्या.
				544/1	544/1	निजी	कृषि	300	1. राजेंद्र अंबादास राणे 2. मुक्ताईनगर विकास.सो.
				559 प्लॉट नं. 1,2,3,4,5/1, 6,7, 8,8,18,11/1,12	559, प्लॉट नं. 1	निजी	अकृषिक	45	1. वासुदेव रामा भंगाळे 2. रत्नाकृष्ण नागरी सह. प.सं. मर्या. मलकापूर
					559, प्लॉट नं. 2	निजी	अकृषिक	45	त्र्यंबक आनंदा पाटील
					559, प्लॉट नं. 3	निजी	अकृषिक	45	राजेश विरचंद जैन
					559, प्लॉट नं. 4	निजी	अकृषिक	45	रविंद्र रामचंद्र चौधरी
					559, प्लॉट नं. 5/1, 5/2	निजी	अकृषिक	45	1. दशरथ अच्युत खरवडकर, 2. सौ. रजनी दशरथ खरवडकर, 3. मुकेश मधुकर महल्ले
					559, प्लॉट नं. 6	निजी	अकृषिक	45	रामचंद्र काशिनाथ वराडे
					559, प्लॉट नं. 7	निजी	अकृषिक	45	1. शामसुंदर द्वारकादास चौधरी 2. रमेश विरचंद जैन
					559, प्लॉट नं. 8	निजी	अकृषिक	45	1. वासुदेव शंकर कोल्हे, 2. वासुदेव देवबा नारछेडे
					559, प्लॉट नं. 9	निजी	अकृषिक	45	रामचंद्र काशिनाथ वराडे
				560/1 प्लॉट नं. 22,23,30, 31	560, प्लॉट नं. 30	निजी	अकृषिक	108	शैलेश कालीदास पाटील
					560, प्लॉट नं. 31	निजी	अकृषिक	100	1. शैलेश कालीदास पाटील 2. अधिकांक राज्य उत्पादन शुल्क जलगाव अदकारी विभाग
					560, प्लॉट नं. 23	निजी	अकृषिक	108	शैलेश कालीदास पाटील
					560, प्लॉट नं. 22	निजी	अकृषिक	75	1. शैलेश कालीदास पाटील, 2. निलेश कालीदास पाटील
				582/1 प्लॉट नं. 84, 85, 86, 87, 88/2,88/2, 88/1, 89/1, 90	582, प्लॉट नं. 84	निजी	अकृषिक	68	गोपाळ तुकाराम पाटील
					582, प्लॉट नं. 85	निजी	अकृषिक	68	किरणबाई रंगनाथ बागरेवा
					582, प्लॉट नं. 86	निजी	अकृषिक	68	1. वसंत बळीराम तळेले, 2. दिलीप बळीराम तळेले
					582, प्लॉट नं. 87	निजी	अकृषिक	72	1. इंदुबाई भगवान खाचणे 2. योगिता बाळकृष्ण राणे
					582, प्लॉट नं. 88/1, 88/2	निजी	अकृषिक	68	1. शे. नशिर शे. बशीर, 2. शे. मुशीर शे. बशीर, 3. कृष्णकुमार प्रकाश माळी, 4. रविंद्र प्रकाश माळी, 5. सौ. जयश्री संतोष महाजन 6. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा मुक्ताईनगर
					582, प्लॉट नं. 89/1, 89/2	निजी	अकृषिक	89	1. शोभा विश्वनाथ खडसे, 2. अरविंद हरी झोपे
					582, प्लॉट नं. 90	निजी	अकृषिक	68	वासुदेव रघुनाथ पाटील
				588/1 प्लॉट नं. 21,22,23,24,25,30	588/1 प्लॉट नं.21	निजी	अकृषिक	56	प्रल्हाद पुजाजी चौधरी (नाफडे)
					588/1 प्लॉट नं.22	निजी	अकृषिक	60	1. ज्योती चंद्रशेखर बडे, 2. मंगला वासुदेव बडे
					588/1 प्लॉट नं.23	निजी	अकृषिक	60	रणछोड नारायण सोनार
					588/1 प्लॉट नं.24	निजी	अकृषिक	60	1. मनोज पुरुषोत्तम पाटील 2. रमेश पुरुषोत्तम पाटील
					588/1 प्लॉट नं.25	निजी	अकृषिक	72	संदिप रमेश खाचणे
				674/1	674/1	निजी	कृषि	2650	1. नामदेव त्र्यंबक बडे, 2. प्रकाश त्र्यंबक बडे 3. विकास सो. सालबर्डी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				875/1, 875/2	875/1, 875/2	निजी	कृषि	62	1. वासुदेव लक्ष्मण बडे 2. ज्ञानदेव लक्ष्मण बडे 3. उषा रामभाउ कोलते 4. आशा धनराज तळेले 5. सरला वासुदेव पाटील 6. वासुदेव रघुनाथ पाटील 7. वि.का.स.से.सो. सालबडी 8. मुक्ताई ग्रामीण को.ऑ. सो. मुक्ताईनगर
				673/1	673/1	निजी	कृषि	1700	1. निनु रामकृष्ण बडे 2. भारतीय स्टेट बँक मुक्ताईनगर
				670/1	676/1	निजी	कृषि	2450	1. नलीनी वासुदेव बडे, 2. निळकंठ रामचंद्र चौधरी 3. सालबडी वि.का.स.सो.
				668/1	668/1	निजी	कृषि	1100	1. गोपाळ नारायण खाचणे 2. सालबडी वि.का.स.सो. 3. मुक्ताई ग्रा. बि. शे. सह. पत. संस्था मर्या. मुक्ताईनगर
				666/1, 665/1	668/1, 665/1	निजी	कृषि	350	1. निलीमा सतिश इगळे
				665/1	665/1	निजी	कृषि	700	1. रघुनाथ विश्वनाथ खाचणे 2. सालबडी वि.का.स.सो
				664	664	निजी	कृषि	1146	1. मधुकर महादू खाचणे 2. रघुनाथ विश्वनाथ खाचणे
				663/1	663/1	निजी	कृषि	2000	1. गजानन बाळकृष्ण पाटील, 2. विजया जगदीश पाटील, 3. प्रदिप बारसु बडे, 4. संदिप बारसु बडे, 5. नरेंद्र विजयचंद जैन, 6. हितेंद्र विजयचंद जैन
				662/1 फ्लॉट नं. 25,26,27,8,38,48, 41,42,43,44	662 फ्लॉट नं. 27	निजी	अकृषिक	45	राजाराम जयराम फालक
					662 फ्लॉट नं. 26	निजी	अकृषिक	80	रविंद्र वामनराव पाटील
					662 फ्लॉट नं. 25	निजी	अकृषिक	80	रविंद्र वामनराव पाटील
			(5) सालबडी	14	14	निजी	कृषि	18	1. धोंडू गोविंदा झोपे व इतर 5 2. नारायण तोताराम बऱ्हाटे, 3. निवृत्ती किसान बऱ्हाटे, 4. महादू तोताराम बऱ्हाटे, 5. मालती, सिधू, इंदू कावेंरी, रूखमीनी अपाक तुळसाबाई
				13	13	निजी	गांवठाण	51	कौतीक नारायण
				15/1, 15/2	15/1, 15/2	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1532	1. ज्ञानदेव निवृत्ती बऱ्हाटे 2. सुभाष निवृत्ती बऱ्हाटे 3. एक्झीक्युटिव्ह इंजिनियर नॅशनल हायवे जळगांव
				150/2	150/2	निजी	कृषि	723	1. पांडूरंग निवृत्ती बडे, 2. वासुदेव निवृत्ती बडे 3. विशेष वसूली अधिकारी जळगांव
				151	151	सरकारी	कृषि	500	ग्रामपंचायत सालबडी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				153/2	153/2	निजी	कृषि	887 1. निवृत्ती हरी झोपे. 2. चेअरमन राजश्री बाबु मोरे मुक्ताई भागलवणीय औद्योगिक उत्पादक सह. संस्था मुक्ताईनगर. 3. सालबडी वि.का.स.सो.
				154/1/1	154/1/1	निजी	कृषि	1850 1. सोपान ओंकार बडे. 2. रामचंद्र ओंकार बडे. 3. प्रकाश ओंकार बडे. 4. सुभाष ओंकार बडे. अ.नं. 3 व 4 चे अपाक आइ लक्ष्मीबाई 5. लक्ष्मीबाई भ्र ओंकार बडे
				155/1	155/1	निजी	कृषि	700 1. तुकाराम रामकृष्ण बडे. 2. नामदेव त्र्यंबक बडे. 3. शंकर त्र्यंबक बडे. 4. प्रकाश त्र्यंबक बडे. 5. जितेंद्र वामन बडे 6. सालबडी वि.का.स.सो. 7. मुक्ताई अर्बन को.ऑ. सोसा. एदलाबाद
			(6) सातोड	245 पै. 245 पै. 1	245 245/1 245/2	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	3300 1. अशोक पाडूरंग खोसे 2. घोडसगांव वि.का.स.सो. 3. एक्झीक्यूटिव्ह इजिनिअर नेशनल हायवे नं. 6 जळगाव 4. भास्कर पाडूरंग खोसे 5. सेंटल बँक ऑफ इंडिया शाखा मुक्ताईनगर
				242, 242 पै.	242, 242 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2900 1. रमणलाल रंगलाल जैन 2. सुगन रंगलाल जैन 3. भारतीय स्टेट बँक मुक्ताईनगर 4. एक्झीक्यूटिव्ह इजिनिअर नेशनल हायवे नं. 6 जळगाव
				236, 236 पै.1	236, 236 पै.1	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2600 1. राजेंद्र सुरेश ठाकूर. 2. विष्णु तुकाराम पाटील. 3. राजु तुकाराम पाटील 4. एक्झीक्यूटिव्ह इजिनिअर नेशनल हायवे नं. 6 जळगाव 5. न.अ.श. 6. आय. डी. बी. आय बँक
			(7) कोथली	118/1/अ	118/1/अ	निजी	कृषि	2450 1. सुधाकर मधुकर जगले. 2. प्रकाश मधुकर जगले
				117/1/अ	117/1/अ	निजी	कृषि	1118 1. विणा चंद्रशेखर वराडे. 2. विमल निवृत्ती वराडे 3. गणेश निवृत्ती वराडे. 4. लताबाई पुजाजी झाबरे 5. राधा श्रीकृष्ण बोडे. 6. यनिता रत्नाकर बोडे. 7. विमलबाई निवृत्ती वराडे 8. कोथली वि.का.स.सो. 9. मुक्ताई ग्रा. सोसा. मुक्ताईनगर
				115/1,	115/1.	निजी	कृषि	768 1. नलिनी प्रबिलदारा वराडे
				114/1,	114/1.	निजी	कृषि	900 1. नागो शंकर झाबरे 2. कोथली वि.का.स.सो.
				113/1	113/1	निजी	कृषि	600 1. पदमाकर नागो झाबरे 2. कोथली वि.का.स.सो.
				112/1	112/1	निजी	कृषि	600 1. सुधाकर नागो झाबरे 2. कोथली वि.का.स.सो. 3. मुक्ताई ग्रा. वि. शे. सह. पत. मर्या. मुक्ताईनगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				111 / 1.	111 / 1.	निजी	कृषि	900	1. एकुल नलिनी मधुकर झांबरे 2. भास्कर निनू झांबरे 3. रामचंद्र भास्कर झांबरे
				108 / 1	108 / 1	निजी	कृषि	413	1. मनोहर हरी पाटील, 2. दिनकर हरी पाटील 3. कोथळी वि.का.स.सो. 4. मुक्ताई ग्रा. बि. शे. सह. सोसा. एदलाबाद
				107 / 1	107 / 1	निजी	कृषि	439	1. नारायण नामदेव पाटील, 2. रामचंद्र नामदेव पाटील, 3. लक्ष्मण नामदेव पाटील, 4. दामोदर नामदेव, 5. शामराव नामदेव पाटील, 6. सरस्वती नामदेव पाटील 7. कोथळी वि.का.स.सो.
				109 / 1	109 / 1	निजी	कृषि	500	1. रेखा मधुकर नेमाडे
				110 / 1	110 / 1	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1768	1. संगिता सुनिल पाटील, 2. निलीमा दामोदर वराडे, 3. अनिल नारायण जंगले, 4. लक्ष्मण नामदेव पाटील 5. वि. का.स.से.सो. कोथळी
				94 / 1	94 / 1	निजी	कृषि	2500	1. वासुदेव लक्ष्मण नेमाडे 2. कोथळी वि.का.स.सो.
				80 / 1	80 / 1	निजी	कृषि	536	1. निनू भिकू चौधरी 2. कोथळी वि.का.स.सो.
				79 / 1	79 / 1	निजी	कृषि	2900	1. भिकू मारुती, 2. एकनाथ सिताराम 3. त्र्यंबक सिताराम 4. नामदेव सिताराम चौधरी, 5. फिटकूल सखाराम चौधरी, 6. सद्दू सखाराम चौधरी 7. कोथळी वि.का.स.सो. 8. शंकर विष्णू चौधरी 9. कमलबाई जनार्दन ढाके 10. पुजाबाई विजय राणे 11. बेबी सुधाकर पाटील
				93 पै.	93 पै.	निजी	कृषि	2750	1. रविंद्र निनू झांबरे
			(8) हरताले	493 / 1. 493 / 2 493 / 2 पै	493	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	3100	1. स्वाती प्रशांत फिरके, 2. रविंद्र रतनलाल कोटेचा 3. हरताळे ग्रुप वि.का.स.सो. 4. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6 5. न.अ.श.
				537, 537 पै	537	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	100	1. चमेलीबाई भ्र. पुरुषोत्तम बोडे 2. तळयेल दर्गापूर ग्रुप वि.का.स.सो. 3. राष्ट्रीय महामार्ग क. 8
				536 / 1, 536 / 2, 536 / 1 पै.	536	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	350	1. मकसुद अली सिकंदर अली, 2. कमलजीतकोर इंदुजीतसिंग गिल 3. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				534/ब	534/ब/1	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	350	1. विकास सोपानराय थिरमाडे
				532/1, 532/पै	532/1, 532/पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	700	1. जयतीलाल बाबुलाल परदेशी 2. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				526, 526 पै.	526, 526 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	100	1. शंताराम शेनफडू सुरवाडे, 2. बळीराम श्रीपत माळी 3. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				526, 525 पै.	525, 525 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	250	1. शंकर रघुनाथ दांडगे, 2. श्रावण रघुनाथ दांडगे, 3. ज्ञानेश्वर रघुनाथ दांडगे, 4. सिधुबाई तुकाराम खोदले, 5. मंगला हरचंद बाजोई 6. हरताळे गृप विकास सो. 7. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				523/1, 523/2, 523/1 पै.	523/1, 523/2, 523/1 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	200	1. गणा गणपत दामोदरे, 2. सुकदेव देवाजी बायस्कर 3. काहूरखेडे विकास सो. 4. पिपळगाव बु. विकास सो. 5. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				522, 522 पै.	522, 522 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	150	1. दगडू हरी पाटील, 2. ज्ञानेश्वर हरी पाटील, 3. सोपान हरी पाटील, 4. मुक्ताबाई भ. प्रकाश पाटील, 5. राहीबाई हरी पाटील 6. काहूरखेडे विकास सो. 7. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				608, 608 पै.	608, 608 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	628	1. एकनाथ मोतीराम बन्हाटे, 2. सालबडी विकास सो. 3. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				607, 607 पै.	607, 607 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	579	1. अविनाश रामचंद बन्हाटे, 2. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				619, 619 पै.	619, 619 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	263	1. दिनकर मारुती बन्हाटे, 2. निना मारुती बन्हाटे, 3. अशोक मधुकर बन्हाटे, 4. अरुण मधुकर बन्हाटे, 5. विष्णू मधुकर बन्हाटे, 6. अनुसयाबाई मधुकर बन्हाटे, 7. सालबडी विकास सो. 8. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				606, 606 पै.	606, 606 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	80	1. रमेश नामदेव बन्हाटे, 2. हरताळे गृप विकास सो. 3. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				593/2, 593/1 593/2	593/2, 593/1 593/2, 593/2 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	870	1. बारसू दयाराम पाटील 2. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6 3. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाख वरणाव
				521/1, 521/2, 521/2 पै.	521/1, 521/2, 521/2 पै.	निजी व सरकारी	कृषि महामार्ग व अकृषिक	2000	1. अमरजीतसिंग नरेंद्रसिंग चाहेल, 2. रविंद्रसिंग कुलदीपसिंग चाहेल, 3. प्रदिपसिंग बलदेवसिंग चाहेल, 4. सुखविंदरकोर रसपालसिंग चाहेल, 5. गगनप्रतीकोर रसपालसिंग चाहेल, 6. अस्सविपसिंग रसपालसिंग चाहेल, 7. सुरजीतकोर भगतसिंग चाहेल, अ. न. 5 व 6 अ.पा.क. आई सुखविंदरकोर रसपालसिंग चाहेल 8. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				513/2/1, 513/1.	513/2/1, 513/1.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2450	1. विलास लखीचंद मंगळे 2. लखीचंद दिनकर मंगळे 3. कैलास लखीचंद मंगळे 4. प्रतिभा देविदास जावळे 5. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				505/1ब, 505/2/1, 505/2/2, 505/13अ, 505/1/अ पै.	505/1ब, 505/2/1, 505/2/2, 505/13अ, 505/1/अ पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2650	1. शे. शम्बीर शे. वजीर, 2. हमीद शे. वशीर, 3. शे. महमूद शे. हमीद, 4. शे. मेहबूब शे. हमीद, 5. शे. शरीफ शे. हमीद, 6. शे. अजिज शे. हमीद, 7. शे. शमीर शे. हमीद 8. हरताळे ग्रुप विका.स.सो. 9. आय. डी. बी. आय बँक शाखा मुक्ताईनगर 10. राष्ट्रीय महामार्ग क. 8
				503, 503 पै.	503, 503 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	5000	1. इस्माईल इब्नाहीम घाडीवाल 2. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				502/1, 502/2, 502/2 पै.	502/1, 502/2, 502/2 पै.	निजी सरकारी	कृषि महामार्ग व अकृषिक	2000	1. पदमाकर सोपान चौधरी, 2. नारायण राजाराम पाचपांडे, 3. हरी राजाराम पाचपांडे, 4. तुकाराम राजाराम पाचपांडे, 5. रामा राजाराम पाचपांडे 6. तळवेस दर्यापूर ग्रुप विका.स.सो. 7. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				500, 500 पै.	500, 500 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1800	1. पदमाकर सोपान चौधरी 2. सुनिल पांडुरंग चौधरी 3. दिपक सुभाष चौधरी 4. जयेश रणछोड चौधरी 5. जगदीश सोमा चौधरी 6. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				497/1/1, 497/1/2, 497/2/1, 497/2/2, 497/2/1 पै.	497/1/1, 497/1/2, 497/2/1, 497/2/2, 497/2/1 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	5850	1. प्रतिभा राजन चौपडे, 2. जयंत लिलाधर चौपडे, 3. लिलाधर नादर चौपडे, 4. राजन लिलाधर चौपडे 5. सातपुडा अ.को.ऑ.सो. लि. फेजपूर 6. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				496, 496 पै.	496, 496 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1500	1. हरी किसन पाटील, 2. सुधाकर किसन पाटील, 3. रामचंद्र किसन पाटील, 4. लक्ष्मण किसन पाटील, 5. लक्ष्मीबाई आत्माराम सरोदे 6. सातबडी विका.स.सो. 7. मुक्ताई अ.को.ऑ. के. सोसा. लि.एदलाबाद 8. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6
				442, 442 पै.	442, 442 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	1000	1. सुरेश दयाराम पाटील, 2. अनिल विश्वनाथ पाटील, 3. सुनिल विश्वनाथ पाटील, 4. दिपक विश्वनाथ पाटील 5. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा वरणगाव 6. राष्ट्रीय महामार्ग क. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				443, 443 पै.	443, 443 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	645
								1. सुरेश दयाराम पाटील, 2. अनिल विश्वनाथ पाटील, 3. सुनिल विश्वनाथ पाटील, 4. दिपक विश्वनाथ पाटील 5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा वरणागांव 6. राष्ट्रीय महामार्ग क. 9
				491 अ, 491 ब.	491 अ, 491 ब.	निजी	कृषि	3411
								1. सुमन वसंतराव गुरव 2. प्रविण वसंतराव गुरव 3. सारीका सुनिल शेतार 4. भावना निनीन उपासने 5. आशासना प्रभाकर हरताळकर 6. अरुण शंकर गुरव 7. सुरेश शंकर गुरव 8. जयश्री शंकर गुरव 9. नितेश रमेश धडे, 10. वैशाली नितेश बडे 11. हरताळे गृप वि.का.स.सो. 12. दि. युनायटेड वेस्टर्न बैंक शाखा मुक्ताईनगर 13. आय.डी.बी.आय. बैंक शाखा मुक्ताईनगर 14. न.अ.श. 15. सविन प्रभाकर हरताळकर 16. पल्लवी प्रभाकर हरताळकर 17. वैशाली प्रभाकर हरताळकर
				497	497	निजी	कृषि	500
								1. वसंती शामा चांदेलकर (घोबी), 2. प्रल्हाद शामा चांदेलकर (घोबी) 3. मोहन शामा चांदेलकर (घोबी) 4. कुसुमबाई नारायण खंडाळे 5. हरताळे गृप वि.का.स.सो. 6. नि.स.प्र.
				498, 498 पै.	498, 498 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2086
								1. पुनमचंद सिताराम सपकाळ, 2. ज्ञानेश्वर सिताराम सपकाळ, 3. श्रीकृष्ण सिताराम सपकाळ 4. हरताळे गृप वि.का.स.सो. 5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुक्ताईनगर 6. राष्ट्रीय महामार्ग क. 8
				494, 494 पै.	494, 494 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	700
								1. कोमलजितसिंग हरजितसिंग आनंद 2. निशोत्तरसिंग ब्रम्हासिंग 3. राष्ट्रीय महामार्ग क. 8
	2) मुसाबल	(1)	काहुरखेडे	118	118	निजी	कृषि	100
								1. तुकाराम श्रावण नेहेते 2. प्रमोद सोपान नेहेते 3. विनोद सोपान नेहेते 4. पुष्पाबाई रविंद बेंडाळे 5. केशरबाई सोपान नेहेते
				119	119	निजी	कृषि	100
								1. वासुदेव मुकदेव नेहेते, 2. फय्युमोदीन शेख अल्ताउद्दीन
				120	120	निजी	कृषि	300
								1. मुस्ताफाजरी सैय्यद लाल
				121	121	निजी	कृषि	1200
								1. प्रभाकर क्षिप्रु नेहेते 2. रघुमाबाई क्षिप्रु नेहेते 3. गिताबाई बोरसू पाटील 4. विमलबाई मुरलीधर पाटील 5. काहुरखेडे वि.का.स.सो.
				122 / 1, 122 / 2	122	निजी	कृषि	262
								1. ज्ञानदेव कीर्तिक नेहेते 2. भागवत कीर्तिक नेहेते 3. अशोक कीर्तिक नेहेते 4. कमलबाई ध्र पुंडलिक नेहेते 5. सुनंदाबाई ध्र तुळशिराम पाटील 6. काहुरखेडा वि. का.स.सो. 7. तुकाराम श्रावण नेहेते

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				123	123	निजी	कृषि	729
								1. ज्ञानदेव कौस्तिक नेहते 2. भागवत कौस्तिक नेहते 3. अशोक कौस्तिक नेहते 4. कमलबाई व पुस्तिक नेहते 5. सुनंदबाई व सुनंदराज पाटील 6. काठुरखेडे वि. का.स.सो. 7. आदर्श प्रा.वि.सो. पत.स. मर्या. वरगमांव
				124	124	निजी	कृषि	300
								1. वासुदेव सुकदेव नेहते 2. बहिणाबाई बाप सुकदेव नेहते
				125	125	निजी	कृषि	300
								1. प्रल्हाद महास नेहते 2. काठुरखेडे वि.का.स.सो.
				126	126	निजी	कृषि	400
								1. राजेंद्र जनार्दन भारवे 2. प्रमोद सोपान नेहते 3. विनोद सोपान नेहते 4. पुष्पाबाई रविंद्र बेंडाळे 5. केसरबाई सोपान नेहते 6. भगवान रामजी पाटील अबाई बीजा 7. काठुरखेडे वि.का.स.सो.
				128/1, 128/2	128	निजी	कृषि	600
								1. गजमल तिताराम पाटील. 2. इस्माईलखान मजिदखान. 3. इच्छाराम तिताराम पाटील 4. काठुरखेडे वि.का.स.सो. 5. समाजसेवक संतोष भाऊ चौधरी अ.को.जी. के.सो. मर्या. साबदा
				129	129	निजी	कृषि	500
								1. समालान सोनू पाटील 2. शांताराम सोनू पाटील 3. मधुकर सोनू पाटील
				133	133	निजी	कृषि	50
								1. जगतारसिंग बिकरसिंग बडिंग 2. मुटासिंग बिकरसिंग बडिंग 3. न.अ.स.
			(2) बांदाही खु.	103/3/2, 103/2/1, 103/1 (1+2+3), 103/4/3, 103/5/4	103/3/2	निजी	कृषि	2900
								1. निर्मला प्रकाश पाटील 2. तळवेल दर्यापूर ग्रुप वि.का.स.सो.
					103/2/1	निजी	कृषि	2700
								1. दत्तात्रय बांगो पाटील 2. भारत सरकार
					103/1 (1+2+3), 103/4/3, 103/5/4	निजी	अकृषिक	1300
								ज्ञानदेव दत्तात्रय पाटील
					103/4/3	निजी	कृषि	1100
								1. सुरेश सोपानदेव पाटील 2. तळवेल दर्यापूर ग्रुप वि.का.स.सो.
					103/5/4	निजी	कृषि	9000
								1. भास्कर बांगो पाटील 2. सौ. मुमताज सौ. अहमद 3. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा वरगमांव
				104	104	निजी	कृषि	100
								सुनिल नारायण पाटील
				121	121	निजी	कृषि	600
								निखिल दत्तनारायण खडसे
				122	122	निजी	कृषि	900
								1. समाजीराव नारायणराव देशमुख 2. इर्षा संजीवकुमार झोपे 3. कटोरा ग्रुप वि.का.स.सो.
				125	125	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	3300
								1. पिलांबर बळीराम पाटील 2. श्रीधर बळीराम पाटील 3. गिरधर बळीराम पाटील 4. धनराज बळीराम पाटील 5. शांताबाई धदिवाकर भांडे 6. गोकुळ दिगंबर पाटील 7. ज्योती व अमृत पाटील 8. गं.भा. सिधूबाई दिगंबर पाटील 9. सरकार
				98	98	निजी	कृषि	1800
								भांताराम दयाराम पाटील
				123	123	निजी	कृषि	3100
								समाजीराव नारायणराव देशमुख

भाग II--खण्ड 3(II)								9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2.	2	सरकारी	कृषि	4900	1. सरपंच ग्रामपंचायत बोहडी खु 2. सरकार
				14/1. 14/2/2. 14/2/1	14/1. 14/2/2. 14/2/1	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	5400	1. एक्विपमेंट्स इंजिनियर नेशनल हायवे नं. 6 2. सरकार 3. विमल गणपत माडी 4. निगारबानो मो. इकबाल कच्छी 5. हसिनाबानो मो. फारुख कच्छी 6. मुरलीधर ओंकार पार्टील 7. काहुरखेडे वि. का.स.सो. 8. लोककल्याण अ.को.के.सो.वरणगांव
				15/1/2. 15/1.	15/1/2. 15/1.	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	600	1. श्रीमती निगारबानो मो. इकबाल कच्छी 2. हसिनाबानो मो. फारुख कच्छी 3. संतोष प्रभाकर वजारी 4. गजानन प्रभाकर वजारी 5. सुनिल संतोष वराडे 6. अनिता दगडू कापरी 7. सरला सुनिल दहातोडे 8. कमलेश शरद खुरपडे 9. ज्योती अरुण पार्टील 10. कमलेशाई प्रभाकर वजारी 11. विलास यशवंतराव पार्टील 12. किरण यशवंतराव पार्टील 13. लोककल्याण अ.को.के.सो. वरणगांव 14. ए.मि. श्री. ब.ह. बटेश्वर अ.को.के.सो. वरणगांव 15. एक्विपमेंट्स इंजिनियर नेशनल हायवे नं.6
				13/1 13/2/1	13	निजी एवं सरकारी	कृषि व अकृषिक	4200	1. एक्विपमेंट्स इंजिनियर नेशनल हायवे नं. 6 2. रेखा विलास पार्टील 3. सुलभा किरण पार्टील
				16/1. 16/2	16/1. 16/2	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	2595	1. एक्विपमेंट्स इंजिनियर नेशनल हायवे नं. 6 2. मोहन जगन्नाथ सोनार 3. चंदूलाल जगन्नाथ सोनार 4. अनिल जगन्नाथ सोनार 5. विलास जगन्नाथ सोनार 6. शाम जगन्नाथ सोनार 7. सुहास जगन्नाथ सोनार 8. सुशिलाबाई जगन्नाथ सोनार 9. काहुरखेडे वि.का.स.सो.
				16/1/1. 16/2. 16/2/2	16	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	4400	1. एक्विपमेंट्स इंजिनियर नेशनल हायवे नं. 6 2. हरी भगवान चौधरी 3. सखाराम भगवान चौधरी 4. जाईबाई व मनोहर पार्टील 5. राहुबाई व दासु पार्टील 6. काहुरखेडे वि.का.स.सो.
				28	28	निजी	कृषि	1472	सतिश्वरसिंग गुरुरानसिंग
				27	27	निजी	कृषि	3735	1. सविंदसिंग कुलदीपसिंग चाहेल 2. अमरजितसिंग नरेंद्रसिंग चाहेल 3. प्रदिपसिंग बलदेवसिंग चाहेल 4. अमरविपसिंग रसपालसिंग चाहेल 5. गमनप्रितसिंग रसपालसिंग चाहेल 6. सुखविंदरकौर रसपालसिंग चाहेल 7. सुरजितकौर भगतसिंग चाहेल 8. अ.नं. 4 व 5 थे अपाक सुखविंदकौर 9. लोककल्याण अ.को.के.सो. वरणगांव शाखा फेकरी
				28/1 28/2	28/1अ 28/1ब 28/2	निजी	कृषि	2772	1. राजेंद्र जनार्दन भारवे 2. शितल मनोज पटेल 3. सुरेश रामजी पटेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				23	23	निजी	कृषि	100	1. परशुराम संतोष पाटील 2. काहूरखेडे वि.का.स.सो.
			(3) बोहाडी बु.	168/1	168/1	निजी	कृषि	1000	1. श्री जयपाल मरुनामल नागराणी
				168/5	168/5	निजी	कृषि	700	अमित अशोक नागराणी
				173	173	निजी	कृषि	1400	1. इंदरसिंग गुलाबसिंग पाटील 2. प्रा. कृ. स.पत. संस्था मर्या. काहूरखेडे
				169	169	निजी	कृषि	900	1. इंदरसिंग गुलाबसिंग पाटील 2. प्रा. कृ. स.पत. संस्था मर्या. काहूरखेडे 3. प्रतिभा महिला स.बैंक लि. जळगांव
				107	107	निजी	कृषि	1877	1. सरकारी आकारी पडीत 2. प्रभाकर शंकर पाटील 3. सुधाकर शंकर पाटील 4. वसंत शंकर पाटील 5. कृष्ण शंकर पाटील 6. विनोद शंकर पाटील 7. भदाकिनी शंकर पाटील 8. मंगला विष्णू नारखेडे 9. प्रतिभा प्रभाकर पाटील 10. सुमन प्रभाकर चौधरी 11. विमल जगन्नाथ नारखेडे 12. सरता रमेश नेमाडे 13. विजय भास्कर पाटील 14. अनिल भास्कर पाटील 15. अर्चना प्र. प्रभूष गाजरे 16. नलिनी भास्कर पाटील 17. तळवेल दर्यापूर वि.का.स.सो.
				109	109	निजी व सरकारी	कृषि	2100	1. शिंपरु शेनू राणे 2. सरकारी आकारी पडीत
				163/1, 163/2	163/1, 163/2	निजी	कृषि	50	1. पांडुरंग भास्कर पाटील 2. अशोक भास्कर पाटील 3. तळवेल दर्यापूर ग्रुप वि. का.स.सो.
				141	141	निजी व सरकारी	कृषि	1200	1. सरकारी आकारी पडीत 2. सुधाकर दगडू झोपे 3. कसूम वासुदेव झोपे
				162/1	162/1	निजी	कृषि	100	1. भास्कर जनार्दन झोपे
				142	142	निजी	कृषि	800	1. एकुल अशोक एकनाथ पाटील 2. तळवेल दर्यापूर ग्रुप वि. का.स.सो.
				159/1, 159/2	159/1, 159/2	निजी	कृषि	100	1. भास्कर जनार्दन झोपे 2. धनसिंग रामसिंग पाटील
				143	143	निजी	कृषि	1292	1. विश्वनाथ भागवत पाटील 2. सुरेश भागवत पाटील 3. चंद्रभागा भागवत पाटील 4. तळवेल दर्यापूर ग्रुप वि. का.स.सो.
				158	158	सरकारी	कृषि	94	भारत सरकार
				157	157	निजी	कृषि	66	1. नरेंद्र उत्तमराव अहिरे 2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा
			144	144	निजी व सरकारी	कृषि	1000	1. भारत सरकार 2. वासुदेव राजाराम वायकोळे 3. विजया प्र. मधुकर राणे 4. महेश ज्ञानदेव वायकोळे 5. साधना प्र. संतोष चौधरी 6. मनिषा प्र. गोकुळ बऱ्हाटे 7. सुमदाबाई ज्ञानदेव वायकोळे 8. तळवेल दर्यापूर ग्रुप वि. का.स.सो. 9. न.अ.श. 10. नि. स. प्र.	
			145	145	निजी	कृषि	588	1. जनार्दन पुंजी देवडा 2. महेश ज्ञानदेव वायकोळे	
			146/1, 146/2	146/1, 146/2	निजी	कृषि	400	1. ज्ञानदेव विठोबा फेंगडे 2. रामकृष्ण विठोबा फेंगडे 3. महेश ज्ञानदेव वायकोळे 4. तळवेल दर्यापूर ग्रुप वि. का.स.सो.	
			147	147	निजी	कृषि	600	1. शिवराम खंडू फेंगडे 2. रामा खंडू फेंगडे	
			(4) तलवेल	151	151	सरकारी	कृषि	345	भारत सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				152	152	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	4152
				152 पै				1. दगडू देवचंद पाटील 2. दिलीप देवचंद पाटील 3. विश्वनाथ देवचंद पाटील 4. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो. 5. एक्झीक्यूटिव्ह इंजिनिअर नेशनल हायवे
				148	148	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	317
				148 पै				1. बाळकृष्ण शिवराम राणे 2. अशोक शिवराम राणे 3. विलास शिवराम राणे 4. शालीग्राम शिवराम राणे 5. एमोद शिवराम राणे 6. किरसन जयराम राणे 7. रामा जयराम राणे 8. सुभाष जयराम राणे 9. गजानन जयराम राणे 10. माधुरी किरसन झोपे 11. शांतिबाई शिवराम राणे 12. एक्झीक्यूटिव्ह इंजिनिअर नेशनल हायवे
				158	158	निजी	कृषि	346
								1. लीलाबाई उर्फ सुनंदी हानदेव फेंगडे 2. मोहिनी सुहास पाटील
				157	157	सरकारी	कृषि	225
				153	153 / 1 153 / 2 153 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	2062
								1. अन्नपूर्णा भू रघुनाथ राणे 2. भालचंद पुरुषोत्तम राणे 3. इंद्रावणी भू पुरुषोत्तम राणे 4. चंद्रकांत लक्ष्मण राणे 5. दिलीप लक्ष्मण राणे 6. सुनिल रघुनाथ राणे 7. मिलींद रमेश राणे 8. अनिल रमेश राणे 9. परिक्षित रमेश राणे अपाक आई कुसूम 10. कुसूम रमेश राणे 11. पदमाबाई पुरुषोत्तम राणे 12. प्रतिभा दिलीप खडसे 13. नलू शरद महाजन 14. सुषमा रवि मेडे 15. एक्झीक्यूटिव्ह इंजिनिअर नेशनल हायवे 16. सुलोचना लक्ष्मण राणे
				160	160	सरकारी	कृषि	381
								भारत सरकार
				156	156	सरकारी	कृषि	309
								भारत सरकार
				154	154 154 पै	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	1206
								1. ज्ञानदेव पंढरी राणे 2. प्रकाश पंढरी राणे 3. शोभा प्रभाकर राणे 4. आशिषकुमार प्रभाकर राणे 5. शुभांगी मिलींद फेंगडे 6. तळवेल दर्यापूर प्रा. कृ. प्रा.प. मर्या. 7. एक्झीक्यूटिव्ह इंजिनिअर नेशनल हायवे
				155	155	सरकारी	कृषि	388
								भारत सरकार
				110	118	निजी	कृषि	2177
								1. धनराज काशीनाथ वायकोळे 2. भारती राजेंद्र वायकोळे 3. सतिश राजेंद्र वायकोळे 4. विनोद राजेंद्र वायकोळे 5. प्रकाश बाबुराव वायकोळे 6. यशवंत बाबुराव वायकोळे 7. बाबुराव तोताराम वायकोळे 8. सेंटल बैंक ऑफ इंडिया शाखा वरणागांव 9. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो.
				117	117	सरकारी	कृषि	800
								भारत सरकार
				115	115 115 पै	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	100
								1. डिगंबर बळीराम पवार 2. प्रकाश बळीराम पवार 3. मुरलीधर बळीराम पवार 4. राजेंद्र बळीराम पवार 5. अनिता शिवाजी मराठे 6. ललीता यशवंत महाडीक 7. एक्झीक्यूटिव्ह इंजिनिअर नेशनल हायवे
				109 / 1	109 / 1	निजी	कृषि	900
				108	108	निजी	कृषि	900
								1. गोपाळ काशीराम लडे 2. महात्मा ज्योतिबा फुले अ.को.ऑ.के.सो. वि. वरणागांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				103	सरकारी	कृषि	700	नरसिंह शर्मा
				102	सरकारी	कृषि	572	नरसिंह शर्मा
				105	निजी	कृषि	100	1. एकलु सजायस वितायण पार्टील 2. जगन्नाथ लक्ष्मण पार्टील 3. एकलु हरी शंकर पार्टील 4. विजया न्न ज्ञानदेव पार्टील 5. गणेश ज्ञानदेव पार्टील अपाक आई विजय
				104	निजी	कृषि	1600	1. रामदास नन्धु पार्टील 2. अमर भागवत वायकोडे 3. निरज भागवत वायकोडे 4. रत्नमाला न्न भागवत वायकोडे अनं. 2 व 3 चे अपाक आई रत्नमाला 5. समेलीबाई गोविंदा वायकोडे 6. तळवेल दर्यापुर गृप विकास सो.
				101/1	निजी	कृषि	2782	1. विजया ज्ञानदेव पार्टील 2. गणेश ज्ञानदेव पार्टील अपाक आई विजया
				101/2	निजी	कृषि	2111	हरी शंकर पार्टील
				56	निजी	कृषि	100	1. ज्ञानदेव अंकल पार्टील 2. यशंत अंकल पार्टील 3. रविंद अंकल पार्टील 4. प्रदीप शशिकंत पार्टील
				44	निजी	कृषि	100	1. रामकृष्ण नारायण पार्टील 2. रामा नारायण पार्टील 3. पुंजलिक नारायण पार्टील 4. दीपदाबाई न्न बारसू मंगळे 5. सरस्वतीबाई न्न नामदेव पार्टील 6. अनुसयाबाई न्न इच्छाराम पार्टील 7. द्वारकाबाई न्न ज्ञानदेव पार्टील 8. भास्कर ओंकार पार्टील 9. वत्सलाबाई नामदेव चौधरी 10. पुण्याबाई सुधाकर पार्टील
				55	निजी	कृषि	3384	1. गोविंदा रामू पार्टील 2. उपेंद्र रामू पार्टील 3. भास्कर रामू पार्टील 4. सुरेश रामू पार्टील 5. मालताबाई न्न प्रल्हाद बन्हाटे 6. गिताबाई शंकर पार्टील 7. सुशिलाबाई नारायण कोलते 8. जयवन्ताबाई शंकर पार्टील 9. मधुकर दामु पार्टील 10. रमेश दामु पार्टील 11. प्रकाश दामु पार्टील 12. इंदुबाई शांताराम नेपाडे 13. मंगलाबाई ज्ञानदेव डाके 14. रंभाबाई पोपट चौधरी
				54/1, 54/2, 54/3, 54/4	निजी	कृषि	2800	1. सुधाकर ओंकार बन्हाटे 2. अनिल ओंकार बन्हाटे 3. भानुदास ओंकार बन्हाटे 4. खेमचंद गोपाळ बन्हाटे 5. रूपेश रविंद बन्हाटे 6. प्रविण रविंद बन्हाटे 7. पियुष सुहास बन्हाटे 8. भागवत बारसू बन्हाटे 9. रमेश बारसू बन्हाटे 10. हेमराज सिताराम बन्हाटे
				53	निजी	कृषि	3200	1. सुधाकर काशिनाथ सुरवाडे 2. पदरीनाथ शंकर पार्टील
				47	निजी	कृषि	800	निवृत्ति चांगो पार्टील
				48	निजी	कृषि	1900	1. मधुकर रघुनाथ पार्टील 2. वसुंधरा सुरेश पार्टील 3. संदीपकुमार सुरेश पार्टील 4. ललीतकुमार सुरेश पार्टील
				46	निजी	कृषि	700	1. ज्ञानदेव किसन पार्टील 2. लोककल्याण अ. को.ओं.के.सो.सि.वरणांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				37	37	निजी	कृषि	900	1. प्रल्हाद देवचंद पाटील 2. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो.
				43	43	निजी	कृषि	1400	1. सदाकांत रामा पाटील 2. गोखान रामा पाटील 3. पुण्याबाई भास्कर डाके 4. इंदुबाई बाळू पाटील 5. सकुबाई रामा पाटील 6. तुळार पुंडलिक पाटील 7. किशोर पुंडलिक पाटील 8. दिलीप पुंडलिक पाटील 9. रेखा गणेश विस्व 10. राताबाई पुंडलिक पाटील
				41	41	निजी	कृषि	700	सुरेश बळीराम पाटील
				40	40	निजी	कृषि	600	1. सुरेश अनंत पाटील 2. मनिषा अनिल झोपे 3. शारदा निलेश पाटील 4. निर्मला अनंत पाटील
				39 / 1.	39 / 1	निजी	कृषि	400	1. रामचंद्र हरी पाटील 2. बंडींग बोजा
				1048	1048	निजी	कृषि	1300	1. सुरेश ज्ञानदेव इंगळे 2. प्रदीप ज्ञानदेव इंगळे
				1049	1049	निजी	कृषि	1600	1. बळवंत पुंडलिक चौधरी 2. उपेंद्र पुंडलिक चौधरी 3. अरुण रमेश चौधरी 4. प्रशांत रमेश चौधरी 5. अनिल वसंत चौधरी 6. राजेंद्र वसंत चौधरी 7. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो.
				1047	1047	निजी	कृषि	1100	1. राजेश निवृत्ति शिंदे 2. विशाल निवृत्ति शिंदे
				1046	1049	निजी	कृषि	1164	1. विजयकुमार सिताराम चौधरी 2. प्रमोद सिताराम चौधरी 3. लक्ष्मण कचरु चौधरी 4. एकनाथ कचरु चौधरी 5. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो.
				1050	1050	निजी	कृषि	3400	1. सदाकांत ज्ञानदेव पाटील 2. ज्ञानदेव कौतिक पाचपडे
				1054	1054	निजी	कृषि	1782	1. निनाळी राजेंद्र पाटील 2. राजश्री संजय पाटील 3. अनंत हरी पाटील
				1037	1037	निजी	कृषि	600	1. अनंत हरी पाटील 2. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो.
				1052	1052	निजी	कृषि	226	1. आनंदा तुकाराम पाटील 2. सोनू तुकाराम पाटील 3. कमलबाई छ तुकाराम पाटील 4. प्रभावती छ शिवराम झोपडे 5. पुण्याबाई छ एकनाथ पाटील
				1055, 1055 पै	1055 1055 पै	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	1134	1. चारुलता सुशिल पाटील 2. भारत सरकार
				1053	1053	निजी	कृषि	300	1. सुशिल प्रेमचंद पाटील 2. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो.
				1029	1029	निजी	कृषि	1084	1. धोंडू कालु झोपे 2. आसिफ बिसमिल्ला बागवान 3. विजय भगवान पाटील 4. सुभाष भगवान पाटील 5. योगेश गंगाधर जोशी 6. राजेश गंगाधर जोशी
				1030	1030	निजी	कृषि	700	1. गोपाळ दोनू पाटील 2. तळवेल दर्यापूर ग्रुप विकास.सो.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1032 / 1, 1032 / 2, 1032 / 3, 1032 / 4	1032 / 1,	निजी	कृषि	900	1. अनिल शंकर पाटील 2. तळवेले दर्यापूर ग्रुप विकास.स.सो.
					1032 / 2	निजी	कृषि	900	1. सुभाष शंकर पाटील 2. तळवेले दर्यापूर ग्रुप विकास.स.सो.
					1032 / 3	निजी	कृषि	1000	1. कृष्णा शंकर पाटील 2. तळवेले दर्यापूर ग्रुप विकास.स.सो.
					1032 / 4	निजी	कृषि	486	1. पंढरीनाथ शंकर पाटील 2. श्रीसाई मंदिर प्रतिष्ठान तळवेले-विश्रामनाथ, तळवेले पंढरीनाथ शंकर पाटील
				1031	1031	निजी	कृषि	1900	1. बाळकृष्ण निन् पाटील 2. सुनिल निन् पाटील
				1038	1038	निजी	कृषि	1489	1. धृष नारायण पाटील 2. तळवेले दर्यापूर ग्रुप विकास.स.सो.
		(5) वरणगांव		519 / 1	519 / 1	निजी	कृषि	6140	1. संदीप राजाराम सरोदे
				520	520	निजी	कृषि	2475	नथु सिताराम पाटील
				521	521	निजी	कृषि	5993	1. निवृत्ति नामदेव बोर्डे 2. वरणगांव विकास.स.सो.
				527	527	निजी	कृषि	1018	1. ज्ञानेश्वर नामदेव बोर्डे 2. वरणगांव विकास.स.सो.
				522	522	निजी	कृषि	1906	1. शांताराम केशव माळी 2. बळीराम केशव माळी 3. तुकाराम केशव माळी 4. लोककल्याण अ.को.ओ.के.सो. वरणगांव 5. न.अ.श. 6. नि.स.प्र.
				523	523	निजी	कृषि	766	1. प्रकाश सुपडू घनगर 2. सुरेश सुपडू घनगर 3. सरस्वताबाई पंडीत पाचपोळ 4. प्रमिला बाप सुपडू घनगर 5. निर्मला विनीत घनकर 6. अनुसयाबाई सुपडू घनगर
				471	471	निजी	कृषि	5028	1. मन्साराम नबा बोर्डे 2. वरणगांव विकास.स.सो.
				475	475	निजी	कृषि	10727	1. किसन रामु पाटील 2. एकनाथ नामदेव पाटील 3. मुरलीधर नामदेव पाटील 4. प्रल्हाद नामदेव पाटील 5. जनार्दन नामदेव पाटील 6. मनोहर नामदेव पाटील 7. सिधू यशवंत पाटील
				474	474	निजी	कृषि	1934	1. गणेश प्रभाकर नाईक 2. मोहिनीराज प्रभाकर नाईक 3. अनंत प्रभाकर नाईक 4. आशा शरद पटवडे 5. छाया सुभाष पंडीत 6. काचन जगदीश दिक्षीत
				478	478	निजी	कृषि	2461	1. बारसु नागो भंगाळे 2. लोककल्याण अ.को.ओ.के.सो. वरणगांव 3. स.मि.श्री चं.ह.बडेसार अ.को.ओ.के.सो. लि. वरणगांव 4. कु.का.क. 84 विरुद्ध बेकायदेशिर कब्जा
				424	424	निजी	कृषि	2158	1. बारसु नागो भंगाळे 2. लोककल्याण अ.को.ओ.के.सो. वरणगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				423	423	निजी	कृषि	11837
								1. काशीनाथ दयाराम पाटील 2. दत्तु गोविंदा माळी 3. नारायण दत्तु माळी 4. राजेंद्र दत्तु माळी 5. बापु दत्तु माळी 6. कैलास दत्तु माळी 7. लोकेश उर्फ अंकित चंदकात जावळे अपाक आई मिलीमा चंदकात जावळे 8. प्रा. कृ. सह. पत. सरथा वरणाग
				421 अ	421 अ	निजी	कृषि	2528
								1. पुंडलिक काळू माळी 2. हरी काळू माळी 3. हिरामण काळू माळी 4. जगन्नाथ रघुनाथ माळी 5. वरणाग विकास सो. 6. न. अ. श. 7. कु. का. कलम 43
				431	431	निजी	कृषि	154
								1. प्रभाकर धोंडू माळी 2. मनोरमा अ. सुधाकर माळी 3. महेंद्र सुधाकर माळी 4. संदीप सुधाकर माळी 5. वर्षा सुधाकर माळी अ. नं. 3 ते 5 चे अपाक आई मनोरमा 6. संजय मधुकर माळी 7. महेंद्र मधुकर माळी 8. रंजना मधुकर माळी 9. विजय देविदास माळी 10. राजेंद्र देविदास माळी 11. कैलास देविदास माळी 12. अर्चना ईश्वर माळी 13. सुमद्राबाई देविदास माळी 14. गोदावरी रामदास गव्हाणकर 15. जयंत रामदास गव्हाणकर 16. प्रदीप रामदास गव्हाणकर 17. अलका चावदस महाजन 18. सुरेखा हेमंत लोंढे 19. वरणाग विकास सो.
				432	432	निजी	कृषि	297
								1. तुकाराम किसन माळी 2. प्रभाकर धोंडू माळी 3. मनोरमा अ. सुधाकर माळी 4. महेंद्र सुधाकर माळी 5. संदीप सुधाकर माळी 6. वर्षा सुधाकर माळी अ. नं. 4 व 8 चे अपाक आई मनोरमा 7. संजय मधुकर माळी 8. महेंद्र मधुकर माळी 9. रंजना मधुकर माळी 10. विजय देविदास माळी 11. राजेंद्र देविदास माळी 12. कैलास देविदास माळी 13. अर्चना ईश्वर माळी 14. सुमद्राबाई देविदास माळी 15. गोदावरी रामदास गव्हाणकर 16. जयंत रामदास गव्हाणकर 17. प्रदीप रामदास गव्हाणकर 18. अलका चावदस महाजन 19. सुरेखा हेमंत लोंढे 20. सुमद्राबाई देविदास माळी 21. सुमद्राबाई नारायण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				433	433	निजी	कृषि	494	1. कमलाबाई तुकाराम माळी 2. कासाबाई दामु माळी 3. तुळसाबाई नारायण चौधरी 4. वरणाबाई विका.स.सो. 5. दगडाबाई कासा माळी 6. शाहू घोडू माळी
				419	419	निजी व सरकारी	कृषि	4558	1. सोपान भिक्कु जावळे 2. निवृत्ती भिक्कु जावळे 3. कडू बळीराम जावळे 4. दिलीप बळीराम जावळे 5. शालीनी भागवत भगाळे 6. सी. मंगल रमेश. बाघोदे 7. मालती गोविंदा चौधरी 8. शांताबाई बळीराम जावळे 9. महाराष्ट्र शासन
				420	420	निजी	कृषि	12240	1. नारायण निवृत्ती पाटील 2. शालीभाम निवृत्ती पाटील 3. मधुकर निवृत्ती पाटील 4. तळवेळ दर्यापूर ग्रुप विका.स.सो.
				412	412	निजी	कृषि	3727	1. गिखर भगवान झोपे 2. विका.स.सो. वरणाबाई
				413	413	निजी	कृषि	2421	1. वासुदेव भगवान झोपे 2. विका.स.सो. वरणाबाई
				414	414 पै	निजी	कृषि	2914	1. रामकृष्ण भगवान झोपे 2. विका.स.सो. वरणाबाई
				20 / 1	20 / 1	निजी	कृषि	8000	प्रभाकर विनायक चौधरी
				20 / 2	20 / 2	निजी	कृषि	7500	अल्का प्रभाकर चौधरी
				185 / 2	185 / 2	निजी	कृषि	6028	1. राहुल जगदीश चौधरी 2. भारतीय स्टेट बँक शाखा ऑ. फॅ. वरणाबाई
				68	68	निजी	कृषि	4000	1. सुनिल प्रल्हाद झोपे 2. अनिल प्रल्हाद झोपे 3. प्रतिभा वैजनाथ चौधरी 4. सुलोचना प्रल्हाद झोपे 5. वरणाबाई विका.स.सो.
				68	69	निजी	कृषि	2875	1. रामकृष्ण शिवराम कोलते 2. गंगाधर सुपडू कोलते 3. सुरेश सुपडू कोलते 4. प्रमोद सुपडू कोलते 5. सजिव सुपडू कोलते 6. लक्ष्मीबाई सुपडू कोलते 7. दिलीप बाबु कोलते 8. सुधाकर बाबु कोलते 9. जनार्दन बाबु कोलते 10. सविता सुभाष कोलते 11. रूपेश सुभाष कोलते 12. शुभम सुभाष कोलते 13. अमृता सुभाष कोलते 14. हेमलता सुभाष कोलते 15. अ.नं. 11 ते 14 चे अपाक सविता सुभाष कोलते
				70	78	निजी	कृषि	2800	1. शिकाबाई त्र्यंबक माळी 2. सुभाष त्र्यंबक माळी 3. सुरेश त्र्यंबक माळी 4. रमेश त्र्यंबक माळी 5. गणेश त्र्यंबक माळी 6. शकुंतला दत्तात्रय पाटील 7. निकीता मुरलीधर माळी
				886	886	निजी	कृषि	1096	रामकृष्ण शिवराम कोलते

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				74	74	निजी	कृषि	4100
								1. नथू मिश्र झोपे 2. सिताबाई भिक् झोपे 3. सचिन विनायक झोपे 4. राहुल विनायक झोपे 5. पौर्णिमा विनायक झोपे 6. शोभा व विनायक झोपे 7. प्रकाश नादू झोपे 8. मधुकर नादू झोपे 9. रमेश नादू झोपे 10. विलास नादू झोपे 11. सुलोचना प्रह्लाद झोपे 12. डॉ. प्रतिभा वैजनाथ चौधरी 13. सुनिल प्रह्लाद झोपे 14. अमिल प्रह्लाद झोपे 15. सुगंधा प्रभाकर पाटील 16. कमल मधुकर मंगळे 17. विमल परशुराम पाटील 18. मालती लिलाधर पाटील 19. गय्याबाई नादू झोपे 20. तुळसाबाई सदाशिव पाटील 21. इंदूबाई आनंदा पाटील 22. केशवबाई रूपचंद भोळे 23. कस्तुराबाई जगन्नाथ बेंडाळे 24. स.पि.श्री चं.ह.बडेसर अ.को.ओ.के.सो लि. वरणगांव
				71	71	निजी	कृषि	2700
								1. रामभाउ बारसू झोपे 2. पुष्पा बारसू झोपे 3. वरणगांव वि.का.स.सो. 4. न.अ.श. नि.स.प्र.
				72	72	निजी	कृषि	200
								1. रामदास तुकाराम शेट 2. गोपाळराव निळकंठराव देशमुख 3. सिताराम तुकाराम
				73	73	निजी	कृषि	4200
								1. विलास नादू झोपे 2. वरणगांव वि.का.स.सो.
				75	75	निजी	कृषि	2857
								1. आशिषकुमार प्रभाकर चौधरी 2. वरणगांव वि.का.स.सो.
				107	107	निजी	कृषि	6800
								1. राहुल जगदीश चौधरी 2. शोभा व जगदीश चौधरी 3. पंकज मनोहर चौधरी 4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ओ. पी. वरणगांव
				103	103	निजी	कृषि	1500
								1. हिरालाल मुलजी पटेल 2. आशा शालीग्राम झोपे 3. वरणगांव वि.का.स.सो.
				102	102	निजी	कृषि	2252
								1. हेमंत प्रतापराव देशमुख 2. धिरेंद्र प्रतापराव देशमुख 3. वरणगांव वि.का.स.सो. 4. न.अ.श.
				104	104	निजी	कृषि	1106
								1. कालू शेनफडू न्हावी 2. संतोष रामदास न्हावी 3. संदिप रामदास न्हावी 4. सुमन रामदास न्हावी 5. पंडीत गणपत न्हावी 6. कमलबाई उमाकांत वारुळकर 7. मालतीबाई राजाराम न्हावी 8. सचिन राजाराम न्हावी 9. कल्पना राजेंद्र मानकरे
				88	88	निजी	कृषि	13800
								1. पंडीत रामराव देशमुख 2. न.अ.श. 3. लिफ्ट ऑफ पेंडन्सी मुसावळ न्यायालय
				87	87	निजी	कृषि	4696
								1. प्रकाश चंद्रसेन चौधरी
(8)				117	117	निजी	कृषि	2523
जाटगांव								1. नारायण राम लोणे 2. वि. का. स.सो. फुलगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				118/1, 118/2, 118/3	118/1, 118/2, 118/3	निजी व सरकारी	कृषि	1668
								1. कलदीदास-दिनकर चौधरी 2. मनुदास-दिनकर चौधरी 3. मदनकिनी-मनोहर कुम्हारे 4. सुनया-अशोक नाते 5. गिरजाबाई-विनकर चौधरी 6. लिलाराम पांडुरंग पाटील 7. वि. का. स.सो. वरणगांव 8. भारत सरकार 9. वरणगांव प्रोजेक्ट फुलगांव कॅनालसाठी संपादन
				114	114	निजी	कृषि	1221
								1. माधवराव यशवंत पाटील 2. विजय यशवंत पाटील
				110	110	निजी	कृषि	1406
								बंदकांत बंडू पाटील
				109/1, 109/2	109/1, 109/2	निजी	कृषि	2141
								1. डॉ. शालीग्राम तुळाराम पाटील 2. सखाराम धोंडू बोदडे 3. वि. का. स.सो. जाडगांव
				108	108	निजी	कृषि	1560
								1. जितेंद्र त्र्यंबक झोपे 2. प्रशांत त्र्यंबक झोपे 3. शकुंतलाबाई त्र्यंबक झोपे
				107	107	निजी	कृषि	1820
								1. त्र्यंबक रूपा मिरुड 2. वासुदेव रूपा मिरुड 3. रविंद्र रूपा मिरुड 4. वसंत रूपा मिरुड 5. मनोज ज्ञानदेव मिरुड 6. उज्ज्वला रविंद्र पाटील 7. शुभांगी खेमराज सारणे 8. लीना गजानन महाप्रजन 9. शालीनी ज्ञानदेव मिरुड 10. सुशिला पदमाकर फिरके 11. वत्सला जगन्नाथ विरमाडे 12. प्रतिमा गजानन चौधरी 13. वि. का. स.सो. फेकरी
				106	106	निजी	कृषि	3322
								1. त्र्यंबक रूपा मिरुड 2. वासुदेव रूपा मिरुड 3. रविंद्र रूपा मिरुड 4. वसंत रूपा मिरुड 5. मनोज ज्ञानदेव मिरुड 6. उज्ज्वला रविंद्र पाटील 7. शुभांगी खेमराज सारणे 8. लीना गजानन महाप्रजन 9. शालीनी ज्ञानदेव मिरुड 10. सुशिला पदमाकर फिरके 11. वत्सला जगन्नाथ विरमाडे 12. प्रतिमा गजानन चौधरी 13. वि. का. स.सो. फेकरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				85	86	निजी	कृषि	2322
								1. सततारम : चावस कोळी 2. सुबराज : चावस कोळी 3. गंगुबाई : चावस कोळी 4. निवा : पुडूबाई कोळी 5. मणवान : पुडूबाई कोळी 6. पार्वताबाई : रमेश कोळी 7. नवाकराई : प्रभाकर कोळी 8. सुमिदा : उधवा कोळी 9. बाबू : बारवा कोळी 10. कल्पना : गुणवंत कोळी 11. अनंदा : सुका कोळी 12. प्रभाकर : सुका कोळी 13. जनार्दन : सुका कोळी 14. गोकुल : सुका कोळी 15. कमलाबाई : मिकारी कोळी 16. विमलबाई : परमुराम कोळी 17. छाया : उधवा कोळी 18. हरज्योतिषिनी : सोहनसिंग आनंद 19. सुरेश : दगडू कोळी 20. चंद्रकांत : दगडू कोळी  21. प्रकाश : दगडू कोळी 22. नारायण : दगडू कोळी 23. आशाबाई : विलास कोळी 24. उषाबाई : गामदेव कोळी 25. द्वापकाबाई : दारा कोळी 26. गिताबाई : पुंडलिक कोळी 27. कदाबाई : लक्ष्मण कोळी 28. मराबाई : अशोक कोळी 29. ताराबाई : अशोक कोळी 30. वि. का. स. सो. जाडगांव 31. न. अ. श.
				85/1 अ, 85/1 ब+2	85/1 अ, 85/1 ब+2	निजी	कृषि	3226
								1. अशोक : गणपत कोळी 2. सुकलाल : गणपत कोळी 3. वंदना : गणपत कोळी 4. एणुक : पांडुरंग जंगलू सोनवणे 5. निर्मला : गोकुल : मिशनकर 6. वसंत : चिंमू : सोनवणे 7. प्रभाकर : चिंमू : सोनवणे 8. कस्तूर : चिंमू : सोनवणे 9. बाबू : चिंमू : सोनवणे 10. सुमनबाई : गोलाराम : तामडे 11. इंदुबाई : किसन कोळी 12. यशोदाबाई : चिंमू : सोनवणे 13. चंबाबाई : लक्ष्मण कोळी 14. सुषमा : नरेंद्र : पाटील 15. सुलोचना : डाकू : महाराज 16. जयदेव : डाकू : महाराज 17. अलका : एकनाथ : पाटील 18. विंद्या : दिगंबर : तामले 19. न. अ. श.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				84	84	निजी	कृषि	3620
								1. विलास वंदू कोळी 2. गोपाळ वंदू कोळी 3. सराबाई वंदू कोळी अपाक आई जाईबाई 4. जाईबाई वंदू कोळी 5. शांताराम चावदस कोळी 6. सुबराज चावदस कोळी 7. गंगूबाई चावदस कोळी 8. निंबा घुडकू कोळी 9. भगवान घुडकू कोळी 10. पार्वताबाई रमेश कोळी 11. नवाबाई प्रभाकर कोळी 12. सुमित्रा लखवई कोळी 13. बाळू बारकू कोळी 14. कल्पना गुणवंत कोळी 15. आनदा सुका कोळी 16. प्रभाकर सुका कोळी 17. जनार्दन सुका कोळी 18. गोखुळ सुका कोळी 19. कमलाबाई भिकारी कोळी 20. विमलबाई परशुराम कोळी 21. छाया सखा कोळी  22. सुरेश दगडू कोळी 23. चंद्रकांत दगडू कोळी 24. प्रकाश दगडू कोळी 25. नारायण दगडू कोळी 26. आशाबाई विलास कोळी 27. उषाबाई नामदेव कोळी 28. हारकाबाई दगडू कोळी 29. चंद्रकांत दगडू सोनवणे 30. वत्सलाबाई मन्वायाम कोळी 31. सुशिलाबाई रामबांद कोळी 32. गिताबाई पुंडलिक कोळी 33. कदाबाई लक्ष्मण कोळी 34. मरुबाई अशोक कोळी 35. ताराबाई अशोक कोळी 36. वि. का. स. सो. जाडगांव 37. न.अ.श.
				81	81	निजी	कृषि	1685
								1. किशोर कोटीलाल पटेल 2. वसंत शिवदासभाई पटेल 3. न.अ.श.
				80	80	निजी	कृषि	1682
				77	77	निजी	कृषि	4505
								भास्कर गंगाराम ओपे 1. ए.कु.क. लक्ष्मीबाई व पंडीत कुरकुरे 2. पुंडलिक श्रावण कुरकुरे 3. यशोदाबाई व पंडीत पाटील 4. मिलाद पंडीत कुरकुरे 5. ज्योती पंडीत कुरकुरे 6. सुनिता पंडीत कुरकुरे 7. बबीता पंडीत कुरकुरे 8. अनिता पंडीत कुरकुरे 9. वि. का. स. सो. फुलगांव
			(7) फुलगांव	8 पै. 9 पै.	9 पै. 9 पै.	सरकारी व गावठाण	कृषि व अकृषिक	5925
				32 पै. 32 पै.	32 पै. 32 पै.	निजी व सरकारी	अकृषिक	1196
						सरकारी	अकृषिक	1782
								1. नथिन गावठाण वाडीकडे सरकार 2. रायजिंगमेन ऑन किन्ही साईड सरकार गावठाणकडे भारत सरकार रेल्वे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				34/3	34/3	अकृषिक	380	सरकार (ग्राम पंचायत फुलगांव)
				68/1.	68/1	निजी	297	1. संजय मनोहर झोपे 2. राहुल मनोहर झोपे
				68/2.	68/2	निजी	585	गणेश जयप्रकाश बलदवा
				68/3	68/3	निजी	585	1. लक्ष्मीबाई पंडीत कुरकुरे 2. मिलींद पंडीत कुरकुरे 3. ज्योती पंडीत कुरकुरे 4. सुनिता पंडीत कुरकुरे 5. बबीता पंडीत कुरकुरे 6. अनिता पंडीत कुरकुरे
				70	70	निजी	765	1. हरीशचंद सखाराम देशमुख 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा ऑ. फॉक्टरी वरणगांव
				73	73	निजी	1147	सै. मुमताज सै. अहमद
				75	75	निजी	1214	1. मिराबाई भ. नारायण बडगे 2. न.अ.श. 3. वेल्हाळे तलाव बोजा
				76	76	निजी	1268	अरुण घनश्याम पाटील एकुक
				77	77	निजी	1350	अरुण घनश्याम पाटील एकुक
				78	78	निजी	1996	अरुण घनश्याम पाटील एकुक
				114	114	निजी	1977	1. सुधीर रमेश सक्सेना 2. सनी सुधीर सक्सेना 3. सोनल सुधीर सक्सेना
				115	115	निजी	1541	1. दिपक सोपान महाजन 2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ऑ.फॉक्टरी वरणगांव
				116 पै.	116 पै.	निजी	3223	1. मुरलीधर किटकूल पाटील 2. रमेश किटकूल पाटील 3. सुरेश किटकूल पाटील 4. रविंद किटकूल पाटील
				176/1.	176/1	निजी	255	1. सुनिता प्रविण महाजन 2. प्रविण नारायण महाजन
				176/2.	176/2	निजी	5334	1. मालतीबाई नेमीचंद अग्रवाल 2. शैलेश सुरेशचंद सुराणा 3. राजेश रमेशचंद्र काकाणी
				176/3	176/3	निजी	324	1. संजय नेमिचंद अग्रवाल 2. अजय नेमिचंद अग्रवाल
				175	175	निजी	1490	1. अशोक भास्कर फंगडे 2. साकरी वि.का.स.सो.
				174	174	निजी	5122	1. प्रभाकर एकनाथ चौधरी 2. मे. हॉटेल रॉयल इन चे भागीदार जगसला शोएब अब्दुल्ला 3. रहिमभाई सक्कीअली मरेडीया 4. करीमभाई नथुभाई प्रासला
				173	173	निजी	637	1. संजय पुरुषोत्तम चौधरी 2. फुलगांव वि.का.स.सो. 3. स्टेट बैंक ऑफ इंडीया शाखा वरणगांव
				172/1	172/1	सरकारी	1444	महाराष्ट्र सरकार
				172/2	172/2	निजी	6318	दिपनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन कडे
				6	6	निजी	5328	1. अर्जुन त्र्यंबक झोपे 2. फुलगांव वि.का.स.सो.
				7/1	7/1	निजी व सरकारी	50	1. पदमाबाई बारसू पाटील 2. इतर 3. सरकार
				7/2	7/2	निजी व सरकारी	362	1. सुनिल विश्वनाथ पाटील 2. इतर 3. सरकार

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
				5	5	निजी	कृषि	168	1. काशिनाथ तुकड़ कुमार 2. एकनाथ तुकड़ कुमार 3. अरुण एकनाथ कुमार
				4	4	निजी	कृषि	733	1. हरज्योतसिंग सोहनसिंग आनंद 2. युनायटेड वेस्टर्न बैंक शाखा भुसावळ
				8/1	8/1	निजी व सरकारी	अकृषिक	7188	1. यशोदाबाई रामचंद्र महाजन 2. विलास रामचंद्र महाजन 3. सुभाष भालचंद्र महाजन 4. रमेश भालचंद्र महाजन 5. चंद्रकांत भालचंद्र महाजन 6. दत्तात्रय भालचंद्र महाजन 7. इतर 8. सरकार (स.रोड-ओपनस्पेस)
				8/2	8/2	निजी व सरकारी	कृषि	5191	1. सुभाष त्रंबक झांबरे 2. उषा जनार्दन भिरुड 3. कमल सुरेश झोपे 4. कुंदा लक्ष्मण चौधरी 5. रजनी वासुदेव जावळे 6. इतर 7. सरकार
				8/3, 8/4	8/3, 8/4	निजी	कृषि	4896	सोहनसिंग फत्तेसिंग आनंद
				72	72	निजी	कृषि	1287	पांडुरंग रमा पाटील
				39/2/2 ब, 39/1 39/2 अ	39/2 ब पै	निजी	कृषि	315	1. सी. कमल चंद्रकांत कुरकुरे 2. फुलगांव विका.स.सो
			(8) पिंपरी सकम	212/2, 212/3/1, 212/1	212/1/1 212/1/2	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	2386	1. चंद्रकांत दगडू सोनवणे 2. कालिदास काशिनाथ पाटील 3. सुरेश विठठल गारे 4. दिलीप विठठल गारे 5. विनोद भास्कर चौधरी 6. रमेशचंद्र उमदेतील अग्रवाल 7. शिवकुमार भगवानदास अग्रवाल 8. सुरेशचंद्र कल्लाराम अग्रवाल 9. सुरेशचंद्र उमदेतील अग्रवाल 10. शामसुंदर उमदेतील अग्रवाल 11. इतर 12. सरकार
					212/2 पै	निजी व सरकारी	अकृषिक	1004	1. मिना संजय अग्रवाल 2. नेहा अजय अग्रवाल 3. इतर 4. सरकार
				213	213	निजी	अकृषिक	2542	1. मे. एस. एफ. अमरेलीवाला अर्न्ड सन्स वी भागीदार शाम फेमरोज अमरेलीवाला 2. कपूरचंद कोटेचा अ.को.ओं. के सो.लि. भुसावळ
				221/1/1 221/3 221/2 221/1/2	221/1/1	निजी	कृषि	665	किशोर रविंद्र झोपे
				214	214	निजी	कृषि	1773	आशातता बाळकृष्ण बन्हाटे
				215	215	निजी	कृषि	1455	1. रमण देविदास घोळे 2. प्रविण देविदास घोळे
				216	216	निजी	कृषि	1910	मो. इदीस मो. मेकन
				217, 217 पै	217	निजी	कृषि व अकृषिक	2879	1. असलम शम्बीर शेख 2. अलताफ शम्बीर शेख

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				223	223	निजी व सरकारी	कृषि	901	1. मुख्य अभियंता (नि.व.सु) म.रा.वि.निक. मर्यादित 1x660 मे.वै. बदली संच दिपनगर, भुसावळ 2. फुलगांव वि.का.स.से.सी
				224	224	निजी	कृषि	826	मुख्य अभियंता (नि.व.सु) म.रा.वि.निक. मर्यादित 1x660 मे.वै. बदली संच दिपनगर, भुसावळ
				225	225	निजी	कृषि	2275	1. मुख्य अभियंता (नि.व.सु) म.रा.वि.निक. मर्यादित 1x660 मे.वै. बदली संच दिपनगर, भुसावळ 2. फेंकरी वि.का.स.से.सी 3. जमीन रिपीटर स्टेशन
				226	226	निजी	कृषि	241	1. मुख्य अभियंता (नि.व.सु) म.रा.वि.निक. मर्यादित 1x660 मे.वै. बदली संच दिपनगर, भुसावळ
			(9) साकरी	85	85	निजी	कृषि	352	1. तुषार मदनकुमार जोशी 2. नामदेव रामदारा मोरे 3. प्रभाकर बाबुराव सोनवणे 4. उज्वला विश्वनाथ कापडे
				84, 84 पै.	84 पै.	निजी	कृषि	2161	1. डॉ. गजानन टिकाराम महाजन 2. रघुनाथ किसन सरोदे
				83	83	निजी	कृषि	6254	1. भागवत बारसु बन्हाटे 2. रमेश बारसु बन्हाटे
				76/1	76/1	निजी	कृषि	1771	कृष्णा घर्मा भिरुड
				76/2	76/2	निजी	कृषि	1925	1. गणेश अविनाश भिरुड 2. अनंत अविनाश भिरुड 3. सध्या घनश्याम नारखेडे 4. अनिता प्रमोद पाटील 5. अनुसयाबाई अविनाश भिरुड
				75/1, 75/2	75/1 75/2	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	4000	1. ए.कु.क. दिलीप बळीराम बन्हाटे 2. सुनिल जगदेव बन्हाटे 3. प्रविण जगदेव बन्हाटे 4. शशिकला सुकदेव झोपे 5. उषा कडू राणे 6. तुळसाबाई जगदेव बन्हाटे 7. पुष्पा नारायण महाजन 8. स.मि.श्री चं.ह. बडेसर अ.को.ऑ. के.सी.लि. वरणगाव शाखा फेंकरी 9. म. रा. वि. निर्माली कंपनी मर्या. दिपनगर
			(10) निर्भारे व.	77/1 प्लॉट नं. 1 व 2	77/1 प्लॉट नं. 1 व 2	निजी	अकृषिक	1487	अरुण घनश्याम पाटील
				78/1 प्लॉट नं. 1, 2, 3	78/1 प्लॉट नं. 1, 2, 3	निजी	अकृषिक	1243	1. भागवत बारसु बन्हाटे 2. संतोषीमाता म. को.ऑ.के.सी. भुसावळ
				79 प्लॉट नं. 1, 26+27.	79 प्लॉट नं. 1, 26+27.	निजी	अकृषिक	546	1. अशोक बाबुराव चव्हाण 2. प्रकाश बाबुराव चव्हाण 3. सुशिलकुमार नाहाट अ.को.ऑ.के.सी. शाखा भुसावळ 4. विठ्ठलकर अधिकारी वर्ग एक जळगाव 5. प्रभाकर बाबुराव सोनवणे
				82	82/1	निजी	कृषि	349	1. राजेशाजी जी. सतिशकुमार जोशी 2. मियाजअली (सिक्केखली) संध्या 3. धर्मो राजाराम महंजान 4. किशोर संधिव जोशी 5. प्रदिप संधिव जोशी 6. रफिकखान संधिव जोशी
					82/2	निजी	अकृषिक	175	महाराष्ट्र राज्य विधुता निर्माली कंपनी मर्या. दिपनगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				84	84	निजी	कृषि	1184
								1. चमेलीबाई बुघो वाघ 2. अमोल बुघो वाघ 3. सिमा नरेंद्र बावस्कर 4. कविता विजय जोहरे 5. माधुरी प्रशान्त निकम 6. आश्रपाती निलेश भालेराव 7. शांताबाई रतन वाघ 8. सुरेश रतन वाघ 9. राहुल रतन वाघ 10. अनिल रतन वाघ 11. सुजाता जैतकुमार निकम 12. शेवंताबाई आसाराम सुरवाडे 13. जिजाबाई सुधाकर सालुंके
				57	57	निजी व सरकारी	कृषि	2188
					57 पै	निजी	अकृषिक	2854
				56 से 59	56/2 से 59	सरकारी	अकृषिक	134
					56/1	सरकारी	अकृषिक	144
				48	48	निजी	कृषि	162
				18	18	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	413
				19	19	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	210
				20	20	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	15
				50	50	निजी	कृषि	801
				53	53	निजी व सरकारी	अकृषिक	654
				55/1	55/1	निजी व सरकारी	अकृषिक	446
				17	17	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	733
								1. नरेशकुमार गुलाबराय नारा 2. दिपचंद काशिराम भिरुड 3. इतर 4. सरकार
								1. किरान विठोबा फेंगडे 2. छगन हरचंद भिरुड 3. नलिनी सिताराम वाणी 4. इतर 5. सरकार
								1. विष्णू भादू भिरुड 2. फेकरी वि. का. स. से. सो. 3. सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				48	48	निजी	कृषि	700	1. यशोदाबाई अवधू निरुड 2. आसाराम अवधू निरुड 3. अशोक अवधू निरुड 4. राधाशरण अवधू निरुड 5. वर्दना किसान डाके
				42	42	निजी व सरकारी	कृषि व महामार्ग	197	1. फ़ैनाचंद बना बन्हाटे 2. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 8
				43	43	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	656	1. दिलीप बळीराम बन्हाटे 2. मुकुंदा बळीराम बन्हाटे 3. अशोक बळीराम बन्हाटे 4. संजय बळीराम बन्हाटे 5. पुष्पा नारायण महाजन 6. सुरेखा रविंद पाचपांडे 7. केशरबाई बळीराम बन्हाटे 8. नारायण विष्णू बन्हाटे 9. सरकार
				44	44	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	357	नारायण विष्णा बन्हाटे 2. सरकार
				45	45	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	698	1. दिलीप पितांबर पाटील 2. सतिष पितांबर पाटील 3. सरकार
			(11) फेकरी	14/1अ, 14/1ब, 14/1क, 14/2ब, 14/3अ, 14/3ब, 14/4	14/1अ	निजी	कृषि	826	बळीराम रेवा कवठे
					14/1ब	निजी	कृषि	350	1. विलास दयाराम कवठे 2. सुरेश दयाराम कवठे
					14/2ब	निजी	कृषि	369	1. मधुकर काशिराम कवठे 2. कडू विष्णू कवठे
					14/3अ	निजी	कृषि	329	1. कमलाकर दोष्टु कवठे 2. फेकरी वि.का.स.सो.
					14/3ब	निजी	कृषि	335	1. अरुण गोपाळ कवठे 2. संजय गोपाळ कवठे 3. राजु गोपाळ कवठे 4. किरण गोविंदा कवठे 5. रमाबाई गोपाळ कवठे
				18/3, 18/4, 18/1ब, 18/2	18/4	निजी	कृषि	1248	बापू फकीरा बन्हाटे
				22/1	22/1	निजी	कृषि	1000	1. विजय हरी निरुड 2. शोभा निवृत्ती पाटील 3. सुनंदा वासुदेव पाटील 4. लक्ष्मीबाई ध. हरी निरुड
				22/2	22/2	निजी	कृषि	259	1. अशोक मोतीराम बोडे 2. फेकरी वि.का.स.सो.
				31/1, 31/2अ, 31/3/ब, 31/3/अ, 31/1/2	31/2	निजी	अकृषिक	180	1. शिवराम पुडलिक बन्हाटे 2. हेमत एकनाथ बन्हाटे अपाक तुळसाबाई एकनाथ बन्हाटे 3. नारायण रामा बन्हाटे एकु 4. नरेश पुडलिक बन्हाटे 5. अशोक निनू बन्हाटे 6. फेकरी वि.का.स.सो.
				29/1, 29/2अ, 29/2ब, 29/2क, 29/3, 29/4, 29/5+6, 29/9, 29/10	29/1 29/2अ	निजी निजी	कृषि कृषि	337 200	1. संजु कोतीक भटकर 1. ग.भा. रमाबाई भास्कर इंगळे 2. प्रमोद भास्कर इंगळे 3. चंद्रकांत भास्कर इंगळे 4. गणेश भास्कर इंगळे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				29/(5+4)	निजी	कृषि	497	1. लक्ष्मण लक्ष्मण नैमाडे 2. पुनिसा निमेषा बरगड 3. निमेषा नमरतल बरगड 4. पुनिसा नैमाडे और इलीया शाखा पुताकड
				29/(5+4)	निजी	कृषि	72	जानकीराम पुंडरीक कट्टे
			37/1 इ. 37/2 ए	37/1 इ	निजी	कृषि	738	देवचंद गिरिधर नैमाडे
				37/2	निजी	कृषि	900	1. लक्ष्मण नंदर कोयले 2. वामन लक्ष्मण चौधरी 3. विजयसिंग आनंदराव शिंदे 4. प्रभाकर एकनाथ चौधरी
		(12) खडके	17	17/2/1 17/2/2	निजी	कृषि	59	नयना जयकिशन टेकवानी
				17/13 प्लॉट नं. 1	निजी	कृषि		1. लक्ष्मण टिकाराम पाटील 2. भागीरथी न किटकुल पाटील 3. शांताबाई बळीराम पाटील 4. देवचंद किटकुल पाटील 5. लक्ष्मण किटकुल पाटील 6. अमृत किटकुल पाटील 7. बाबुदेव किटकुल पाटील 8. शंताबाई लक्ष्मण
				17/13 प्लॉट नं. 3	निजी	कृषि		1. शे. सलीम शे. कासम 2. शेख अब्दुल सत्तार मोहम्मद इदीस 3. आशिक गुलाम दस्तगीर कुरेशी
				17/13 प्लॉट नं. 7	निजी	कृषि		1. असलम लखी इस्माईल 2. अदिल रसी काकिना 3. यासमिन अदिल काकिना 4. अलिमुनिना शे. सलीम 5. दत्तात्रय भगवान माळी 6. शेख अब्दुल शेख रफ 7. गुरुवरणसिंह बलदेवसिंह पट्टा 8. सिकंदरखान इस्माईलखान 9. शे. अस्फाक शे. धिराग
				17/13 प्लॉट नं. 10	निजी	कृषि		अलका अनंत पाटील
				17/13 प्लॉट नं. 12	निजी	कृषि		1. मो. मुबीन मो. निसार कुरेशी 2. मो. अमीन मो. निसार कुरेशी 3. शकील मोहसिनखान 4. दि. अकोला अक्काशसिंह दि. अकोला शाखा नाशिक
				17/13 प्लॉट नं. 13	निजी	कृषि		1. मजिदउल्लाखान सखाउल्लाखान 2. हमीदउल्लाखान सखाउल्लाखान
				17/13 प्लॉट नं. 14	निजी	कृषि		1. डॉ. शालीग्राम दत्तात्रय पाटील 2. मधुबाला शालीग्राम पाटील 3. मो. नासीर अबुबकर 4. गुरुधितसिंग कर्तारसिंग बल 5. सुनिल प्रल्हाद नागराणी 6. मो. इस्लाम गुलामरसूल अन्सारी 7. बलजितसिंग कर्तारसिंग बल
				17/3/4 प्लॉट नं. 1. स रोड+ओपनस्पेस	निजी	कृषि		1. हसिनाबी मर्द शे. अहमद 2. शेख मजिद शेख अहमद 3. शेख हमीद शेख अहमद 4. शेख एजाज शेख हुसैन 5. शेख हमीद शेख अहमद 6. अमीनाबी शेख हुसैन 7. शे. आवेदाबी शे. कासम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				16	16/1 प्लॉट नं. 5	निजी	कृषि व अकृषिक	129
					16/1 प्लॉट नं. 6			
					16/1 प्लॉट नं. 7			
					16/1 प्लॉट नं. 8			
					16/1 प्लॉट नं. 8			
					16/1 प्लॉट नं. 10			
					16/1 प्लॉट नं. ओपनस्पेस+स.रोड			
					16/13/1पै प्लॉट नं. 1			
					16/13/2पै प्लॉट नं. 12+6			
					16/13/2	निजी	कृषि	
								विष्णु भ्र गोविंद नाईक
								सोनम राजेशकुमार झामनानी
								1. राजेशकुमार गोपीचंद झामनानी
								2. सतिशकुमार गोपीचंद झामनानी
								रविशकुमार गोपीचंद झामनानी
								स्नेहल रविशकुमार झामनानी
								कशिश सतिशकुमार झामनानी
								1. किशू तुकाराम नैनाई
								2. हरीराम सुरजमल गोयल
								1. सुशिलाबाई विदीचंद अग्रवाल
								2. मिनाबाई राजेंद्रकुमार अग्रवाल
								3. सोमाबाई नरेंद्रकुमार अग्रवाल
								4. मुनियन बैंक ऑफ इंडीया शाखा भुसावळ
								1. नरेंद्र विरदीचंद अग्रवाल
								2. ममोज शालीग्राम तोतला
								3. मोहम्मद शरीफ शे. उस्मान
								4. आफताब अहमदखान कमर आजमी
								5. मनिष रमेश नागराणी
								6. मोहम्मद उस्मान मोहम्मद इब्राहीम
								7. सुफियान सुलतान मेमन
								8. मुनुसखान मुख्त्याखान
								9. मुनियन बैंक ऑफ इंडीया शाखा भुसावळ
								1. मुजफरखां मजिदखा
								2. इब्राहीम मलीक हाशिम मलिक
								3. नसरिन शेख नईम
								4. राबीयाबी मर्द अ. रज्जाक
								5. सुरैयाबी मर्द शे. सलीम
								6. शे. असलम शरीफ अन्सारी
								7. सी. सकीरखली सी. नजिरखली
								8. सी. आयेशाबी शेख बशीर
								9. गुलाब हुसने शे. कादर
								10. शे. शफीक गुलाब हुसने
								11. शेख जाकीर हुसने
								12. शेख नासीर शे. गुलाम
								13. शाहीना परवीन मो. सलीम कुरेश
								14. खलील रहात मुत्ताफा
								15. सिकंदरखान इस्माईलखान
								16. विठल रघुमाई अ.को.ओ.के.सो.लि. भुसावळ
								17. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडीया शाखा भुसावळ
								18. अ. लतीफ राज महमद
								19. रफिक राज महमद
								20. अ. सतिश राज महमद
								21. अल्लाखल्लखान यासीनखान
								22. प्रकाश सैय्युअल नाईक
								23. शे. मोहम्मद शे. मुनीर
								24. शाहीना परवीन मर्द मोहम्मद
								25. गुलाम बस्तागीर शे. यासीन
								26. शे. शम्सी शे. यासीन
								27. नौशादबी मर्द शे. शमीर
								28. रईसाबी अब्दुलखान
								29. साकेगांव प्रा. किशोरसहस्रति. साकेगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				16/13अ/1	निजी	कृषि		1. सुलेमानशाह सुल्तानशाह 2. म. शक्ति अ. सत्तार 3. खैरुन्निसा शे. रहेमान 4. सैयद अशफाक सैयद शौकत 5. शे. उमर शे. मुतूजा 6. मो. खलील मो. शफी 7. मो. साबीर मो. शफी 8. सैयद अशफाक सै. शौकत 9. सै. इसा सै. मुसा 10. जीमल अब्दुल नबी पटेल 11. निसारअली साहेबअली शाह 12. ताहेर दगडू पटेल 13. कुरेशी नवाबउल्ला हबीबउल्ला 14. सै. आजम सै. युसूफ 15. महमद रहिम गुलाबशाह 16. शबनाबी सिकंदरखान 17. जादीदअब्दुल रज्जाकखान 18. सईदाबी अब्दुल रज्जाक 19. रजियाबी शेख मुबीन 20. नजमाबी हाजी मोहम्मद अहमद अन्सारी  21. शरीफाबी मर्द सै. शौकत 22. सलीमखान मजिदखान 23. मजहरखान कलंदरखान 24. हुसैनबी मर्द शे. रशिद 25. नजमाबी शे. गफार 26. जनकल्याण अ.को.ओं.के.सो.ति. भुसावळ
		(13) साकेगांव	292/1	292/1	सरकारी	अकृषिक	1429	1. सरकार (जवाहर नवोदय विद्यालय)
			290	290	सरकारी	अकृषिक	500	1. सरकार (जवाहर नवोदय विद्यालय)
			287/1 अ./1	287/1/अ/1	निजी	अकृषिक	500	1. पुंडलीक गणपत बन्हाटे. 2. सुमन पुंडलिक बन्हाटे. 3. रजनी विष्णू चौधरी
			284/1	284/1/1 284/1/2	निजी	कृषि	200	1. अरुण शंकर पावपडे 2. भागवत नासायण चौधरी
			239	239	निजी	कृषि	2400	1. आनंदा कौंतीक झांबरे 2. साकेगांव वि.का.स.सो.
			283/1 अ	283/1अ	निजी	कृषि	250	1. उत्तम गोविंदा जंगले 2. सुधाकर गोविंदा जंगले 3. सजय वसंत जंगले 4. सुर्यकांत वसंत जंगले 5. देवेंद्र चंद्रकांत जंगले
			240/अ 1	240/अ 1	निजी	कृषि	300	1. वासुदेव आनंदा इंगळे 2. आशा वासुदेव इंगळे 3. सुशिलकुमार नाहाटा अ.को.ओं.बैंक ति. भुसावळ
			241	241	निजी	कृषि	1200	1. सुधाकर किसन पाटील. 2. भारती सुधाकर पाटील. 3. संतोष रामदास गुजर.
			282/1-अ	282/1 अ	निजी	कृषि	100	1. नरेंद्र काशिनाथ वाघोदे 2. साकेगांव वि.का.स.सो.
			242/1	242/1	निजी	कृषि	1100	1. नंदीनी अशोक वाघोदे 2. पराग अशोक वाघोदे 3. हेमांगी अशोक वाघोदे 4. साकेगांव वि.का.स.सो.
			274/अ	274/अ	निजी	अकृषिक	2460	1. दिवाकर सदाशिव नवगाळे 2. पवन विजय नवगाळे 3. कुपम विजय नवगाळे अपाक आई स्नेहलता विजय नवगाळे
			271/अ.2 पै	271/अ.2 पै	सरकारी	कृषि	4273	1. सरकार (ग्रामपंचायत साकेगांव)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				92/1 92/1 पै.	92/1	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	2436
								1. वासुदेव आनंदा वाघोदे 2. निळकंठ आनंदा वाघोदे 3. मोहन आनंदा वाघोदे 4. प्रकाश व भास्कर आनंदा वाघोदे 5. प्रमिलाबाई प्रेमचंद वाघोदे 6. विवेक प्रेमचंद वाघोदे 7. सुनिल प्रेमचंद वाघोदे 8. अनिल प्रेमचंद वाघोदे 9. सरकार 10. पी. डब्ल्यू. डी. नविन सब्जक नागपूर रोड
				97/1 97/1 पै.	97/1 97/1 प्लॉट नं. 1 व 2 व इतर आणि नैशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सखीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक व महामार्ग	2000
				342/1 342/2	342	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक व महामार्ग	400
								1. रमण देविदास भोळे 2. डॉ. रघुनाथ रामु पाचपांडे 3. भवरलाल हिरालाल जैन 4. सुनिल भवरलाल जैन 5. सजय भवरलाल जैन 6. विजय भवरलाल जैन 7. अजय भवरलाल जैन 8. राजेश भवरलाल जैन 9. पी. डब्ल्यू. डी. सब्जकडे 10. प्रतापसिंग भायडू पाटील
				127 पै. 138	127 पै. 138/1 प्लॉट नं. 4 ते 7 व इतर आणि नैशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सखीस रोड आणि ओपनस्पेस	सरकारी	अकृषिक	2064
			(14) कंठारी			निजी व सरकारी	अकृषिक	1166
								सरकार (ग्राम पंचायत साकेगांव) 1. मधुकर बळीराम भोळे 2. सुनिल जगन्नाथ धांडे 3. दिपक जगन्नाथ धांडे 4. प्रशांत जगन्नाथ धांडे 5. प्रकाश दामु सोनवणे 6. नंदू रामचंद्र कोळी 7. रमेश दत्तात्रय डोलारे 8. रेखा रमेश डोलारे 9. भिमसिंग फुलचंद लोडते 10. खंडूसिंग फुलचंद पवार 11. बाबुलाल फुलचंद लोडते 12. विनोद फुलचंद पवार 13. किरण यशवंत धोलप 14. इतर 15. सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>139</p> <p>139 / 138 प्लॉट नं. 1 ते 4</p> <p>व इतर आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हिस रोड</p> <p>139 / 138+2अ प्लॉट नं. 1 ते 3</p> <p>व इतर आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हिस रोड</p> <p>139 / 2ब प्लॉट नं. 1 ते 8 व इतर आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हिस रोड आणि ओपनस्पेस</p>	निजी	अकृषिक	5577	<p>1. कल्पना महेश फालक</p> <p>2. कल्पना महेश फालक</p> <p>3. सी. किरण महेशदत्त तिबारी</p> <p>4. बन्सीलाल सुबालाल बोरडिया</p> <p>5. ज्ञानदेव रूपा भिरुड</p> <p>6. भरत मेघाजी छेडा</p> <p>7. राजलंदास अट्टमल सोबाई</p> <p>8. जमनाबाई रामचंद्र चौकाण</p> <p>9. यशवंत रामचंद्र चौकाण</p> <p>10. देविदास रामचंद्र चौकाण</p> <p>11. डॉ. गजानन टिकाराम महाजन</p> <p>12. नंदलाल रामचंद्र चौकाण</p> <p>13. हिंदी सेवा मंडळ स्टॉफ को.ओ.के.सी. मय</p> <p>मुसावळ अध्यक्ष</p> <p>14. यशवंत चावदस वारके</p> <p>15. संतोष यशवंत वारके</p> <p>16. रविंद सुभाकर पाटील</p> <p>17. सुरेंद्र सुभाकर पाटील अपाक आई यशोदाबाई सुभाकर पाटील</p> <p>18. सी. राज्ञी वसंतराव कोलते</p> <p>19. यशवंत रामभाऊ कोलते</p> <p>20. सी. अरुणा प्रकाश चौधरी</p> <p>21. शोभादेवी विनोद घुस्का</p> <p>22. विजय सुरेश पाटील</p> <p>23. संजय सुरेश पाटील</p> <p>24. दि. मुसावळ पि. को.ओ. बँक मुसावळ</p> <p>25. इतर</p> <p>26. सरकार</p>
				<p>147</p> <p>147 / 14-2अ प्लॉट नं. 1, 15 व इतर आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हिस रोड</p> <p>147 / 2ब+3अ प्लॉट नं. 1 व इतर आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हिस रोड</p> <p>147 / 3 प्लॉट नं. 1 ते 4 व इतर आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हिस रोड</p> <p>147 / 4ब+5अ+6अ प्लॉट नं. 1, 2, 9 ते 11 व इतर आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हिस रोड</p>	निजी	अकृषिक	5576	<p>1. सी. शकुन राजेश रक्का</p> <p>2. मीनाबाई दगडू चौधे</p> <p>3. लखमा उत्तम गवंदे</p> <p>4. योगेश सुकलाल पाल</p> <p>5. मिराबाई लक्ष्मण सुरवाडे</p> <p>6. संदीप डिगंबर तापडे</p> <p>7. बाकलता बाबू बाळरकर</p> <p>8. सुनिल रघुनाथ सोनवणे</p> <p>9. किर्ती मृत्युंजय उपाध्याय</p> <p>10. गणेश अशोक आंबेकर</p> <p>11. रेखा धुवराज बाळ</p> <p>12. मेघा मिमराव गायकवाड</p> <p>13. सिद्धार्थ घुडामण तापडे</p> <p>14. चेतन मृत्युंजय उपाध्याय</p> <p>15. रंजना अशोक भंगळे</p> <p>16. प्रभाकर भास्करराव हिवाळे</p> <p>17. पंडीत दगडू चौधे</p> <p>18. संगिता जयंत ब-हाटे</p> <p>19. दिपककुमार ककुभल अठवाणी</p> <p>20. निर्मलजितसिंह जसपालसिंह मठास</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								21. मनिंदरसिंह जसपालसिंह मठार 22. संजय गोविंद सोपडे 23. प्रतिभा लक्ष्मण लोखंडे 24. सी.गंगाबाई पुना पाटील 25. अनिल सुयकांत चौधरी 26. अशोक अलवी 27. अशोक अलवी 28. लोककल्याण प्रा.वि.सह.प.मया. वरुणगांव 29. एम.अलवी मोईमोदीन कुटी हाजी 30. पवन काशीनाथ घडगण 31. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा मुसावळ 32. गोविंद मोतीराम पाटीदार 33. कुमारी प्रसाद मधुकर नाईक अपाक आई 34. माधवी व मधुकर नाईक 35. संजया सदाशिव पाटील 36. इतर 37. सरकार	
				136	136/3/1 प्लॉट नं. 1 व 2 व इतर आणि नेशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्हीस रोड आणि ओपनस्पेस 136/3/2 व गोलाणी कॉम्प्लेक्स आणि नेशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्हीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	अकृषिक	3239	1. प्रविण जयप्रकाश अयवाल 2. अनिसाखान अकरखान 3. सुरेश प्रेमचंद पाटील 4. किरण प्रेमचंद पाटील 5. किशोर शंकरलाल गोलानी 6. बँक ऑफ बडोदा शाखा जळगाव 7. अशि. कमिशनर सा. इन्कम टॅक्स सर्कल जळगाव 8. इतर 9. सरकार
				135	135/1 प्लॉट नं. 1 ते 3 व इतर आणि नेशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्हीस रोड आणि ओपनस्पेस 135/2 प्लॉट नं. 1 ते 3 22, 23 व इतर आणि नेशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्हीस रोड आणि ओपनस्पेस 135/3 प्लॉट नं. 21 व इतर आणि नेशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्हीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी	अकृषिक	2546	1. सी.शंकांत सी. ताहेर 2. सी. अल्ताफ सी. शंकांत 3. सी. प्रतीबाला नवलकिशोर मित्तल 4. सभाशान केशव गोसावी 5. सुमन बुडामण तावडे 6. एकनाथ बोमदू पाने 7. सुमनबाई जगन्नाथ बिन्हाडे 8. शशिकांत जगन्नाथ बिन्हाडे 9. राजेश जगन्नाथ बिन्हाडे 10. संजया दिलीप घोडेस्वार 11. शारदा अविनाश देवरे 12. कविता मनिष पांडव 13. सी. मीरा समशेरसिंग रायत, 14. सी. हिरा रामविलास वर्मा, 15. गं.भा. राजारानी रायबहादूर सिंह 16. सत्यनारायण रायबहादूरसिंह 17. सी. लताबाई शरद सोनवणे 18. शिवमोहनसिंग महाशिरसिंग 19. नयना शिवमोहनसिंग 20. सचिन किशोर कितीकर 21. सुशिलकुमार नाहाटा को.ऑ.बँक मुसावळ 22. इतर 23. सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				148	148/1/1+1/2 प्लॉट नं. 1. 18, 12, 14, 16, 18, 20 व इतर ले आउट व इतर प्लॉट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्कीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी	अकृषिक	664	1. राजेश पुखराज राका 2. मुपेशकुमार चंपालाल बडगुजर 3. पुंजो रजपत पाटील 4. प्रतिभा अरुण पाटील 5. शोभाबाई राजाराम सपकाळे 6. श्रीमती अनितादेवी महाराजसिंग जाटव 7. मुरलीधर नथु माळी 8. दिनेशचंद जवाहर वर्मा 9. भगवान नथू माळी 10. चंपालाल भाऊलाल बडगुजर 11. सुमिल कडू भालेराव 12. राजेश रामकृष्ण सुरवाडे 13. महाराजसिंग 14. स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा मुसावळ 15. सौ.कामिनी शाम रणविर 16. सुरेश जीवराज तापडे 17. राजेश पुखराज राका 18. प्रमिला कैलास पाटील 19. शाम सदाशिव बोरीकर 20. सरकार
				134	134/9 आणि 134/10/1+2 प्लॉट नं. 12, 46 ते 52 व इतर ले आउट व इतर प्लॉट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्कीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	अकृषिक	5262	1. सत्यं लिमिटेड अँड रेस्टोरंट्स प्रा. लि. तर्फे विनायक धनराज फालक 2. युको बँक शाखा मुसावळ 3. वामन लक्ष्मण चौधरी 4. रामजीखन कुहराम परदेशी 5. सौ. सरला सुरेश खर्चे 6. गोकुळ मधुकर फालक 7. राजेश मधुकर बेंडाळे 8. मिनानी राजेश बेंडाळे 9. इतर 10. सरकार
				133	133/1 प्लॉट नं. 1. 12 ते 14, 30 ते 33 व इतर ले आउट व इतर प्लॉट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्कीस रोड आणि ओपनस्पेस 133/2 प्लॉट नं 1, 12 ते 14 व इतर ले आउट व इतर प्लॉट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्कीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी	अकृषिक	3329	1. कासूबाई चावदस उमाळे 2. बाळू किसन बावस्कर 3. राजेश पुखराज राका 4. प्रभाकर माधव शिर्के 5. मुरलीधर रामदास मोरे 6. दिलीप धिंभू निंबाळकर 7. सुरेश श्रीधर कापडणे 8. राजेश पुखराज राका 9. सौ. सीमा बांधव 10. बजरंगबली रामकलप तिवारी 11. स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा ऑ. फॅ. वरणागांव 12. मोहित अनिल चौधरी 13. सौ. सुजाता सिध्दार्थ तामखेडकर 14. धोवरचंद धन.शाम चौधरी 15. प्रकाश भानुदास भारवे 16. कर्ताबाई जगदीश अग्रवाल 17. महेश रामचंद नेहेरे 18. अबुल इमोसिन मॅसी 19. प्रकाश सुरेश बनसोडे  20. आनंद सुरेश बनसोडे 21. नितेश कृष्णा जावळे 22. सुमन सुधाकर जैन (पिसाळकर) 23. पप्पू सुधाकर जैन (पिसाळकर) 24. किस्टोफर विल्यम फ्रान्सीस 25. एबल विल्यम फ्रान्सीस 26. इतर 27. सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				158	158/1 प्लॉट नं. 1 ते 3 व इतर प्लॉट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हीस रोड आणि ओपनस्पेस 158/2 158/3 प्लॉट नं. 1 ते 5, 37 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	1806	1. भरत रामकिशन तिवारी 2. चेअरमन सरस्वती को.ऑ.के.सो. लि. मुसावळ 3. मंगल शारदा अ.को.ऑ.के.सो.लि. मुसावळ 4. विलास नारायण सरोदे 5. दोधू हिरामण भंगाळे 6. सुधाकर हिरामण भंगाळे 7. देवराय हिरामण भंगाळे 8. दिनकर हिरामण भंगाळे 9. शालीग्राम रामकृष्ण भंगाळे 10. बिसनचंद डालचंद अग्रवाल 11. गीता सुशील सक्सेना 12. शुभम सुशिल सक्सेना 13. दिपाली सुशिल सक्सेना अपाक आई गिता सक्सेना 14. सह.मि.श्री.व.ह.बडेसर अ.को.ऑ.के.सो. वरणगाव 15. तापी परिसर अ.को.ऑ.के.सो.लि. मुसावळ 16. नानकराम प्रितलाल बजाज 17. गत्तूदास उत्तमचंद छाजेड 18. इतर 19. सरकार
				113	113/1+2 प्लॉट नं. 1 ते 8 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी	अकृषिक	88	1. विजय पदमाकर जोशी 2. भिमराव दयाराम सुरवाडे 3. मिराबाई भगवानचंद चंदन, 4. सदाशिव गणपत माने, 5. मोतीराम श्रीराम जोशी, 6. देवेंद्र सोपान पाटील, 7. दत्तात्रय जगन्नाथ पवार, 8. सोनाली प्रशांत चौधरी, 9. नंदलाल बन्सीलाल मेहेरे 10. दुर्गा श्रीराम साबळे, 11. मिलींद रामचंद्र खंडारे 12. प्रसाद निळकंठ प्रभुदेसाई, 13. डॉ. कमलकांत मोहनलाल शास्त्री 14. संख्या कमलकांत शास्त्री 15. कृष्णा बळीराम पाटील 16. विनोद्वी कृष्णा पाटील 17. इश्वर भगवान पाटील 18. आर आर सी बोजा 19. सोपान धोंडू पाटील,  20. ज्ञानेश्वर धोंडू सोनवणे 21. सुनियम बँक ऑफ इंडिया शाखा मुसावळ 22. राजेश रमेशचंद्र गुप्ता 23. गोविंद राधेश्याम अग्रवाल 24. सी. मीरा हरीष मनचुडीया 25. इतर 26. सरकार
				132	132/1 प्लॉट नं. 1 व 2 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हीस रोड आणि ओपनस्पेस 132/2 प्लॉट नं. 1 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हीस रोड आणि ओपनस्पेस 132/3 प्लॉट नं. 8, 14 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हीस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	अकृषिक	3923	1. भायना मुकेशलाल नागदेव 2. मिना धनःशाम नागदेव 3. प्रमोद मदनलाल राठी 4. सुशिलकुमार नाहाटा अ.को.ऑ.के.सो.लि. मुसावळ 5. जयप्रकाश सुरजभान अग्रवाल 6. प्रकाश माधव महाजन 7. इतर 8. सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				131	131/1 प्लॉट नं. 15 व 16 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हेस रोड आणि ओपनस्पेस 131/2 प्लॉट नं. 1 व 15 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हेस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	अकुषिक	2321	1. पत्रकार खादी साहब अंगारवाला जैन बीयालजी 2. सी.आशादेवी मदनलालजी पाटणी जैन 3. सी. बेला शंखरबाबू जैन 4. निमराज अंबक महाजन 5. गोपाळ अंबक महाजन 6. रमेश अंबक महाजन 7. दत्तू अंबक महाजन 8. प्रभाकर अंबक महाजन 9. उषा लिलाधर महाजन 10. प्रशांत लिलाधर महाजन 11. अश्वी लिलाधर महाजन 12. काजल लिलाधर महाजन अ.नं. 11 ते 12 चे अपाक आई उषा लिलाधर महाजन 13. इंदुबाई भीखर महाजन 14. शोभा विलास सरोदे 15. इतर 16. सरकार
				112	112/1 प्लॉट नं. 1, 2, 64 व 69 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हेस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	अकुषिक	2907	1. सी. मनिषा दिनेश सोनार 2. मालचंद लक्ष्मण घाडे 3. लताबाई सुरेश नवगाळे 4. उमेश सुरेश नवगाळे 5. महेश सुरेश नवगाळे 6. पल्लवी मुकुंदा भार्गव 7. मोफीजुल श्रीराज लस्कर 8. शालीग्राम बंदू नारखेडे 9. दिपक सोपान महाजन 10. स्वामी विवेकानंद अ.को.ओं.के.सी. भुसावळ 11. दिपक सोपान महाजन 12. शंकरलाल हिरालाल पटेल 13. ज्ञानदेव रामभाऊ बाणाईत 14. प्रकाश रामभाऊ बाणाईत 15. छाया तुकाराम बाणाईत 16. कोमल तुकाराम बाणाईत 17. वैभव तुकाराम बाणाईत 18. काजल तुकाराम बाणाईत अ.नं. 16, 18 चे अपाक आई छाया तुकाराम बाणाईत 19. इतर 20. सरकार
				111	111/1 प्लॉट नं. 1 व 2 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हेस रोड आणि ओपनस्पेस 111/3/2	निजी व सरकारी	अकुषिक	1562	1. कुलदिपसिंग प्रेमसिंग घाहेल 2. रविद्रसिंग कुलदिपसिंग घाहेल 3. प्रकाशकौर बग्गासिंग 4. परमजीतसिंग बग्गासिंग 5. बलविरसिंग बग्गासिंग 6. इतर 7. सरकार
				170	170/1अ+1ब+1क+2अ/1 170/1अ+1ब+1क+2अ/2 170/1अ+1ब+1क+2अ/3 170/1अ+1ब+1क+2अ/4 170/1अ+1ब+1क+2अ/5 170/2अ/1 170/2अ/2 170/2अ 170/2अ 170/3/1 170/3/2	निजी	कृषि	819	1. राजेंद्रकौर कुलदिपसिंग घाहेल 2. सारंगधर महादेव वारुळकर (पाटील) 3. सिताराम गुलाबधंद अग्रवाल 4. नरेंद्र विरदीचंद अग्रवाल 5. गुरुदिपसिंग केशरसिंग छाबडा 6. मे. सखाराम जी महाजन अँड कंपनी भुसावळ तर्फे रामदास सखाराम महाजन 7. राधेश्याम विरदीचंद लाहोटी 8. नितीन शांटीलाल सुरणा 9. नरेंद्र विठ्ठलदास लडे 10. वितामण किसन ठाकूर 11. महेश म.अ.को.ओं.के.सी. भुसावळ 12. सार्वजनिक बांधकाम विभाग भुसावळ 13. गोपाळ जेठमल मंठी
				171	171 प्लॉट नं. 9, 10, 55 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नॅशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्व्हेस रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	अकुषिक	459	सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				172	172/1/1+2+3 172/1/2+2/2+3/2 172/2/1+3/1+2/4 172/1/3	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	1153	1. प्रकाश मोरेश्वर फालक 2. मोहन मोरेश्वर फालक 3. सुनिल मोरेश्वर फालक 4. वसुंधरा मोरेश्वर फालक 5. शेखर किसान टेकवानी 6. विनोद किसान टेकवानी 7. बैंक ऑफ बडोदा शाखा भुसावळ 8. आनंदा परशराम मोढे 9. खडके विकास सो. 10. सार्वजनिक बांधकाम खाते भुसावळ 11. सरकार
				177	177/1अ 177/1ब/1 177/1ब/2 177/1क/1अ 177/1क/1ब 177/1क/2 177/2अ 177/2/1/1 177/2/1/2 177/2/2	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	1387	1. सदाशिव किसान भारंबे 2. मावजीभाई रेलजीभाई पटेल 3. वासुदेव मोदूमल मनबाणी 4. इंदुलाल कौडामल बदलानी 5. कौसरीबेगम जफरउददीन खान 6. कायदजोहर अकबरअली 7. शबनमबी नजीर अहमद कुरेशी 8. शम्मा बेगम अली गुर्रुझा कुरेशी 8. मो. अन्सार मो. इमीफ 10. विनायक विश्वनाथ गुंजाळ 11. विजय विश्वनाथ गुंजाळ 12. वासुदेव विश्वनाथ गुंजाळ 13. शकुंतला ध. दिनकर गुंजाळ 14. निलेश दिनकर गुंजाळ 15. विशाल दिनकर गुंजाळ 16. तुषार दिनकर गुंजाळ 17. सारीका ऋषीराज लबदे 18. दत्तात्रय किसान भारंबे 19. हाजी मुन्ना इबाहीम तेल 20. पल्लवी प्रमोद सावकारे 21. प्रमोद मनोहर भंगाळे 22. किरण मनोहर भंगाळे 23. लक्ष्मीबाई किसान भारंबे 24. सार्वजनिक बांधकाम खाते भुसावळ 25. इतर 26. सरकार
				178	178/1/1/1अ 178/1/1/1ब 178/1/1/2 178/1/2 178/2/1 178/2/2	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	349	1. शालीनी पांडुरंग भिरुड 2. विजय पांडुरंग भिरुड 3. दिपक पांडुरंग भिरुड 4. आशिष पांडुरंग भिरुड 5. शुभांगी नरेंद्र पाटील 6. लोककल्याण या.वि.शे.सह.प.म.या. वरगगांव शाखा खडका 7. लिलाबाई देविदास मोढे 8. अरुणा शिवाजीराव पाटील 9. भारती रमण मोढे 10. रजनीकांत छबिलदास शाह 11. महेंद्रकुमार छबिलदास शाह 12. बाळकृष्ण लक्ष्मण भिरुड 13. जगदीश वल्लभभाई पटेल 14. भरत वल्लभभाई पटेल 15. सार्वजनिक बांधकाम खाते भुसावळ
				181	181/2ब प्लॉट नं. 32 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नैशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्वोच्च रोड आणि ओपनस्पेस व शेती	निजी	कृषि व अकृषिक	836	1. दत्तात्रय किसान भारंबे 2. सदाशिव किसान भारंबे 3. प्रकाश भानुदास भारंबे 4. रेवा भानुदास भारंबे
				182	182/1/2 182/2/2 182/3/1 182/1/1/1 182/2/1अ प्लॉट नं. 1 ते 4 व इतर प्लॉट व ले आउट आणि नैशनल हायवेचा 5 मीटर वायडनिंग रोड व सर्वोच्च रोड आणि ओपनस्पेस	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	2175	1. सरबजीतकौर इंदरसिंग घाहेल 2. गुरुमिंदरसिंग इंदरसिंग घाहेल 3. भजनप्रितसिंग इंदरसिंग घाहेल 4. लिलाबाई प्र. कमलाकर लोखंडे 5. पुष्पलता प्र. मनोहर पाटील 6. विमल प्र. नामदेव भारंबे 7. एकुल हरी सुषो बोडे 8. लक्ष्मीबाई घना बोडे 8. न्म्यु घना बोडे 10. वसंत घना बोडे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								11. दत्तू बना बोंडे 12. सार्वजनिक बंधकाम खाते मुसावळ 13. लिलाबाई कमलाकर लोखंडे 14. दि. मुसावळ पिपल्स को.ऑ.बैंक मुसावळ 15. दिनकर कडू भारवे 16. इतर 17. सरकार	
				193	193/4/1अ 193/4/1ब 193/4/1क 193/4/2	निजी व सरकारी	कृषि	656	1. प्रभाकर शेनू महाजन 2. भास्कर शेनू महाजन 3. विजया भास्कर महाजन 4. उमेश भास्कर महाजन 5. मनोहर जनार्दन महाजन 6. एकुल रघुनाथ वसंत महाजन 7. सार्वजनिक बंधकामखाते मुसावळ
		(15) मुसावळ		53	53	निजी व सरकारी	कृषि	166	1. अंजुमन अलफराज टस्ट मुसावळ 2. इतर 3. सरकार
				54	54	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	1057	1. शेख साबीर शेख शेखन 2. इतर 3. सरकार
				55	55 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	317	1. प्रभाकर बाबुराव सोनवणे 2. नामदेव रामदास मोरे 3. इतर 4. सरकार
				58	58 पै.	निजी व सरकारी	अकृषिक	1021	1. सर्व्हिस रोड सरकार 2. इतर
				64	64/2 अ	निजी	अकृषिक	96	1. मिना वसंत चौधरी 2. डॉ. सुरेंद्र हरीभाऊ मिरुड 3. एकुल सोनल विजय मंगाळे 4. सारंग वामन चौधरी
					64/2 ब	निजी	अकृषिक	39	रघुनाथ वामन मुळे
				69	69	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	796	1. सरकार 2. सर्व्हिस रोड 3. इतर
				70	70	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	1220	1. रमण देविदास भोळे 2. प्रविण देविदास भोळे 3. राजेंद्र तिलकराज कपूर 4. मीना सुधीर मरेंद्र 5. शोभा सुनिल मल्होत्रा 6. अनिता रिष्कू चड्ढा 7. इतर 8. सरकार
				129	129 पै.	निजी व सरकारी	अकृषिक	2107	1. सरकार 2. सर्व्हिस रोड
				127	127 पै.	निजी व सरकारी	अकृषिक	1539	1. सरकार 2. सर्व्हिस रोड
				122	122 पै.	निजी व सरकारी	अकृषिक	209	1. सरकार 2. सर्व्हिस रोड
				172	172/2 अ	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	982	1. श्री रामकृष्ण गोरखण संस्था मुसावळ 2. इतर 3. सरकार
				171	171	निजी व सरकारी	अकृषिक	336	1. सरकार 2. सर्व्हिस रोड
				169	169 पै.	निजी	अकृषिक	1132	1. सरकार 2. सर्व्हिस रोड
				195	195 पै.	निजी व सरकारी	कृषि व अकृषिक	665	1. पोपट मंगा बोंडे 2. राजेश पुष्कराज राका 3. इतर 4. सरकार
				198	198 पै.	निजी व सरकारी	अकृषिक	521	1. सरकार 2. सर्व्हिस रोड

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200	200/1 अ	निजी	कृषि	113
					200/1 ब	निजी	कृषि	189
					200/2 अ, प.	निजी	कृषि	68
					200/2 ब	निजी	कृषि	346
								1. सुशाल रामकृष्ण बाक 2. दिनेश पुसालाल कुचेरीया 3. राजेंद्र हिरालाल वेदभूषा 4. जयंतीलाल शांतीलाल सुराणा 5. किरण अशोक सुराणा 6. सिमा धिरज सुराणा
								मुख्याधिकारी नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ औरंगाबाद
								मुख्याधिकारी नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ औरंगाबाद
								1. गोपाळ सोना फालक, 2. प्रभाकर सोना फालक, 3. दामन सोना फालक, 4. गं.भा. पुष्पा डालु फालक, 5. भागवत डालु फालक, 6. सी. उषा महेश पाटील, 7. सी. उषा कैलास येवले

[ फा. सं. भारराप्रा/पीआईयू/एयूआर/एलए/रास-6/2012 ]

माया प्रकाश, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2012

**S.O. 2692(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2562 (E) dated 11<sup>th</sup> November, 2011 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 6 on the stretch of land from Km. 360.000 to Km. 410.750 (Jalgaon -Maharashtra /Gujrat Border Section) in district of Jalgaon in the State of Maharashtra .

And whereas the substance of the said notification has been published in "Marathi New Paper "Lokmat" and in "English News Paper 'Lokmat Times" both dated 23<sup>rd</sup> January , 2012. Under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the proposed right of way of National Highway No. 6 on the stretches of land from Km. 340.000 to Km. 410.750 (Jalgaon -Mahaarashtra / Gujarat Border Section) in Jalgaon District in the State of Maharashtra.

Serial Number	Name of district	Name of taluka	Name of village	Gat No. / Survey No.		Type of land	Nature of land	Area (Square Metres)	Name of the Land Owner / Interested Person
				As Per 3 (A) Gazette Notification	As Per Joint Measurement & 7/12 Utare				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Jalgaon	1) Muktainagar	(I) Chikhli	1	1	Govt	Forest	150	Govt.
				2 2/1/2A 2/1/2B 2/1/2B Peki 2/1/1 2/1/2	2	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1100	1. National Highway No. 6 2. Samadhan Namdeo Kumbhar 3. Group Grampanchayat Chikhli 4. Datta Shama Paradhi 5. Gulabrao Krishna Paradhi 6. Narayan Mahipat Koli 7. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 8. Navin Avibhaya Shart
				4	4	Private	Agriculture	450	1. Vishnu Sukdeo Bavaskar 2. Dipak Nivrutti Kharate 3. Pundalik Kisan Dutte
				8	8	Private	Agriculture	650	1. Gimesh Sonu Koli 2. Navin Avibhaya Shart
				64/1 64/2 64/3	64/1 64/2 64/3	Private	Agriculture	1500	1. Saiyyad Muntaj Saiyyad Ahamad 2. Saiyyad Irfan Saiyyad Ahamad 3. Viththal Dnyandeo Dhangar 4. Samadhan Dnyandeo Dhangar
				58 Peki 58Peki	58	Private	Agriculture	1200	1. Arjun Yadav Khondale 2. Dhanraj Yadav Khondale 3. Ashok Madhav Khondale 4. Prakash Madhav Khondale 5. Shabhabai Ekanath Jumbale 6. State Bank of India Branch Muktainagar 7. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				61	61	Private	Agriculture	700	1. Janu Baksu 2. Shenu Baksu 3. Punjabai D/O Janu 4. Janabai W/D Janu 5. Vilas Mana Wankhede 6. Yuvaraj Mana Wankhede 7. Sunil Mana Wankhede 8. Sitabai Mana Wankhede 9. Navin Avibhaya Shart
				62	62	Private	Agriculture	200	1. A. Ku. K. Tukaram Supadu Wankhede 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Navin Avibhaya Shart
				88 88 Peki	88 88 Peki	Private & Govt.	Agriculture	2500	1. Girabai Bhairavsinha Thakur 2. Sanjay Bhairavsinha Thakur 3. Chakradhar Bhairavsinha Thakur 4. Dhanurdhar Bhairavsinha Thakur 5. Sarita Dipendrasinha Thakur 6. Sudha Santoshsinha Thakur 7. Rekha Abhimanyusinha Thakur 8. Executive Engineer Water Supply Department, Jalgaon
				87/1 87/2	87/1 87/2	Private	Agriculture	159	1. Bhupesh Bhaskarrao Patil 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				89	89	Private	Agriculture	200	1. Vijay Laxman Wankhede 2. Sanjay Laxman Wankhede 3. Bhimrao Shanura Mahale 4. Sunan Narayan Palave 5. Kaushalya Ramdas Palave 6. Sushila Baban Ingale 7. Bebi Bhagawan Mhasane 8. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				90/1 90/2 90/3 90/4	90/1 ●90/2 90/3 90/4	Private	Agriculture	150
								1. Devaji Narayan Patil 2. Shivaji Narayan Patil 3. Gajanan Narayan Patil 4. Sadanand Narayan Patil 5. Madhukar Narayan Patil 6. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. State Bank of India Branch Muktainagar 8. Navin Avibhajya Shart 9. Niyatrit Satta Prakar
				91	91	Private	Agriculture	150
				92	92	Private	Agriculture	132
								1. Tulshiram Onkar Kshirsagar 2. Kashinath Onkar Kshirsagar 3. Vishwanath Onkar Kshirsagar 4. Sumanbat Shrawan Umale
				93	93	Private	Agriculture	178
								1. Narayan Bhagawanddin Pardeshi 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				162	162	Private	Agriculture	750
				160	160	Private	Agriculture	957
								Prakash Damodar Mahale 1. Gurudwara Charankamal Gurugovindsing Sevak Jaththa Chikhali Chairman Harbanssing Sadhusing Babaji 2. Sulochana Ganpat Kandelkar 3. Sumil Pralhad Wagh 4. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				158	158	Private	Agriculture	300
								1. Shevantabai Baburao Bavskar 2. Sevak Jaththa Gurudwara Charankamal Chikhali Chairman Harbanssing Sadhusing 3. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				157	157	Private	Agriculture	176
								1. Gurudwara Charankamal Gurugovindsing Sevak Jaththa Chikhali Chairman Harbanssing Sadhusing Babaji 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				156	156	Private	Agriculture	250
								1. Harbanssing Sadhusing 2. Sarabjitkaur Indarsing Chahel 3. Gurumindarsing Indarsing Chahel 4. Bhajanpritsing Indarsing Chahel
				155/1/1 155/1/2 155/2/1 155/2/2/1 155 1/2/2 155. Peki 155. Peki	155/1/1 155/1/2 155/2/1 155/2/2/1 155/2/2/2 155/2 Peki 155/2 Peki	Private	Agriculture & Nan Agriculture	2019
								1. Suresh Narayan Mandawekar 2. Parvatiben Khetasibhai Patel 3. Vandana Nana Borase 4. Vijaya Prakash Chaudhari 5. Jivatraj Baliram Mahajan 6. The Arban Ko. Op. Bank Ltd. Dharengaon Branch Jalgaon 7. Ashabai Bhagawat Chaudhari 8. Navin Avibhajya Shart 9. Niyatrit Satta Prakar
				15 1/1/1 15 1/1/2 1 4/2	154/1/1 154/1/2 154/2	Private	Agriculture	1365
								1. Sarabjitkaur Indarsing Chahel 2. Sarabjitkaur Indarsing Chahel 3. Gurumindarsing Indarsing Chahel 4. Bhajanpritsing Indarsing Chahel 5. Rajkumarainha Sherbahadursinha 6. Bajrang Bahadursinha 7. Amar Bahadursinha 8. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 9. Navin Avibhajya Shart 10. Niyatrit Satta Prakar
				153/1 153/2	153/1 153/2	Private	Agriculture	700
				159	159	Private	Agriculture	152
				251	251	Private	Agriculture	1600
			(2) Ghodasgaon					1. Shankar Ganapati Ingale 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Navin Avibhajya Shart
				130	130	Private	Agriculture	1250
								1. Mohanlal Kishandas Gujarathi 2. Central Bank of India Branch Muktainagar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				245/1/1 245/1/2 245/1/3 245/1/4/1 245/1/4/2 245/1/5	245/1/1 245/1/2 245/1/3 245/1/4/1 245/1/4/2 245/1/5	Private	Agriculture	2790
								1. Kesharbai Keshav Dutt 2. Rajendra Keshav Dutt 3. Ravindra Shriram Dutt 4. Narendra Shriram Dutt 5. Vinod Shriram Dutt 6. Tulasa Bai Shriram Dutt 7. Central Bank of India Branch Muktainagar 8. The United Western Bank Branch Muktainagar 9. I. D. B. I. Bank Branch Muktainagar 10. State Bank of India Branch Muktainagar 11. Navin Avibhaya Shart 12. Ghodasgaon Vivid Karyakari Sahakari Society
				246/1/1 246/1/2	246/1/1 246/1/2	Private	Agriculture	178
								1. Lada kabai Kashinath Dutt 2. Pandurang Shama Dutt 3. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				244	244	Private	Agriculture	350
				226/1/1/1A 226/1/1/1A/1 226/1/1/1A/2/1 /1/1 226/1/1/1A/2/1 2 226/1/1/1A/2/2 226/1/1/1A/2/1 /1/2 226/1/1/2 226/1/2	226/1/1/1A 226/1/1/1A/1 226/1/1/1A/2/1/1 1 226/1/1/1A/2/1/2 226/1/1/1A/2/2 226/1/1/1A/2/1/1 2 226/1/1/2 226/1/2	Private	Agriculture	3472
								1. Suresh Tukaram Talele 2. Latabai Suresh Khewalkar 3. Ravindra Tukaram Talele 4. Rajendra Tukaram Talele 5. Rupchand Dagadu Patil 6. Ramakant Vasudeo Chaudhari 7. Tukaram Shankar Aage 8. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 9. The United Western Bank Branch Muktainagar 10. I. D. B. I. Bank Branch Muktainagar 11. Mukta Bigar Sheti Saha. P. San. Muktainagar 12. Muktainagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				225/1/1 225/1/2A 225/1/2B 225/1/2C 225/1/3A 225/1/2/3B 225/3/1 225/3/2	225/1/1 225/1/2A 225/1/2B 225/1/2C 225/1/3A 225/1/2/3B 225/3/1 225/3/2	Private	Agriculture	500
								1. Mandakini Ramakant Chaudhari 2. Sanjay Narayan Patil 3. Dinesh Narayan Patil 4. Pundalik Narayan Patil 5. Rajesh Birchand Jain 6. Ramesh Birchand Jain 7. Joshi Nitishkumar Geprada 8. Ramabai Birchand Jain 9. Supadabai Dnyandeo Aage 10. Gitabai Tukaram Aage 11. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 12. State Bank of India Branch Muktainagar 13. Mukta Gramin Bigar Sheti Saha. P. San. Muktainagar
				222/1	222/1	Private	Agriculture	187
								1. Kashinath Rupchand Jaware 2. Navin Avibhaya Shart
				221/1	221/1	Private	Agriculture	4100
								1. Venabai Kisan Dhangar 2. Jaywantabai Santosh Hadape 3. Kaushalyabai Raghunath Borase 4. Latabai Supada Dhangar 5. Sureshbai Keshinath Vanjole 6. Bhasu Jagdeo Lonagare 7. Kamal Laxman Lonagare 8. Gajanan Laxman Lonagare 9. Vanita Sanjay Jumade 10. Gitabai Laxman Lonagare 11. Purushottam Raghunath Fadnis 12. Navin Avibhaya Shart ( Niyatrit Sata Prakar)
				223/1	223/1	Private	Agriculture	100
								1. Laxman Rupchand Jaware 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Navin Avibhaya Shart

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				210/1 210/2	210/1 210/2	Private	Agriculture	1179
								1. Chandrakant Govinda Dutt 2. Kunal Bhagwan Dutt A.P.A. Aai Jyoti Dutt 3. Yogesh Dnyandeo Aagale 4. Rambhau Kashinath Jaware 5. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 6. State Bank of India Branch Muktinagar
				212/1/1/1 212/1/1/2 212/1/2	212/1/1/1 212/1/1/2 212/1/2	Private	Agriculture	2874
								1. Jafarkhan Ismailkhan 2. Sonanda Abhimanyu Patil 3. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. Arunkumar Premchand Bothara 5. Muktinagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				174/1A/1 174/1A/2 174/1B 174/1C 174/2/1A 174/2/1B 174/2/1C 174/2/1D 174/2/2	174/1A/1 174/1A/2 174/1B 174/1C 174/2/1A 174/2/1B 174/2/1C 174/2/1D 174/2/2	Private	Agriculture	3668
								1. Dhenu Narayan Gavhale 2. Namdeo Janardan Bavskar 3. Ekanath Janardan Bavskar 4. Vinod Narayan Dhayade 5. Narayan Baliram Dhayade 6. Karimbai Suresh Dutt 7. Govinda Tukaram Dhayade 8. Lahu Laxman Mahajan 9. Dayaram Tukaram Dhayade 10. Ananda Tukaram Dhayade 11. Supadabai Vasantrao Murhe 12. Vikas Ramdas Bodade 13. Prakash Ramdas Bodade 14. Godasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 15. Varnabai Shankar Koli 16. Sarbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 17. Central Bank of India Branch Muktinagar
				277/1/1/1 277/1/1/2 277/1/2/1 277/1/2/2	277/1/1/1 277/1/1/2 277/1/2/1 277/1/2/2	Private	Agriculture	3452
								1. Prakash Uttam Dhayade 2. Pradip Uttam Dhayade 3. Ashabai Ashok Borakhade 4. Ushabai Jankiram Dhayade 5. Jankiram Fatru Dhayade 6. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. State Bank of India Branch Muktinagar 8. Muktinagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				287/1/2A 287/1/1/A 287/1/1/B 287/1/1/C 287/1/2/B 287/2	287/1/2A 287/1/1/A 287/1/1/B 287/1/1/C 287/1/2/B 287/2	Private	Agriculture	886
								1. Gurnabai Govinda Dhayade 2. Ananda Tukaram Dhayade 3. Kasturabai Dayaram Dhayade 4. Rajesh Dayaram Dhayade 5. Kalpana Suresh Gawande 6. Sadhana Ramesh Patil 7. Ashwini Arun Patil 8. Gopal Tukaram Patil 9. Manisha Baliram Mahajan 10. Ishwar Sadashiv Birari 11. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 12. State Bank of India Branch Muktinagar 13. Arunkumar Premchand Bothara 14. Muktinagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				311	311	Private	Agriculture	2635	1. Shrisant Muktabai Saha, Sakhar Karkhana Ltd. Edalabad 2. State Bank of India C Jalgaon 3. Asst. Incomtax Comm. Jalgaon 4. Central Bank of India Branch Jalgaon 5. J. D. C. C. Bank Jalgaon 6. Bigar Sinchan Panipatti Boja 7. Tahasildar Muktainagar Japti Boja 8. The Maharashtra Rajya Saha. Bank Ltd. Mumbai 9. Tejas Construction
				312 Peki 312 Peki 312 Peki	312 Peki 312 Peki 312 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	255	1. Govt. 2. Executive Engineer Nation Highway Division Jalgaon 3. Shrisant Muktabai Saha, Sakhar Karkhana Ltd. Edalabad 4. Asst. Incomtax Comm. Jalgaon 5. Central Bank of India Branch Jalgaon 6. J. D. C. C. Bank Jalgaon
				310/1	310/1	Private	Agriculture	1400	1. Shrisant Muktabai Saha, Sakhar Karkhana Ltd. Edalabad 2. Asst. Incomtax Comm. Jalgaon 3. Central Bank of India Branch Jalgaon 4. J. D. C. C. Bank Jalgaon 5. Bigar Sinchan Panipatti Boja 6. Tahasildar Muktainagar Japti Boja 7. The Maharashtra Rajya Saha. Bank Ltd. Mumbai 8. Tejas Construction
				309/1	309/1	Private	Agriculture	1150	1. Shrisant Muktabai Saha, Sakhar Karkhana Ltd. Edalabad 2. Asst. Incomtax Comm. Jalgaon 3. Central Bank of India Branch Jalgaon 4. J. D. C. C. Bank Jalgaon 5. Tahasildar Muktainagar Japti Boja 6. The Maharashtra Rajya Saha. Bank Ltd. Mumbai 7. Tejas Construction
				308/1	308/1	Private	Agriculture	2446	1. Shrisant Muktabai Saha, Sakhar Karkhana Ltd. Edalabad 2. Asst. Incomtax Comm. Jalgaon 3. Central Bank of India Branch Jalgaon 4. J. D. C. C. Bank Jalgaon 5. Bigar Sinchan Panipatti Boja 6. Tahasildar Muktainagar Japti Boja 7. The Maharashtra Rajya Saha. Bank Ltd. Mumbai 8. Tejas Construction
				352/1/1/1 352/1/1/3 352/1/1/2 352/1/2/1 352/1/2/2	352/1/1/1 352/1/1/3 352/1/1/2 352/1/2/1 352/1/2/2	Private	Agriculture	2900	1. Subhash Rajaram Narkhede 2. Nalini Subhash Narkhede 3. Tukaram Sakhararam Bavskar 4. Dnyaneshwar Sakhararam Bavskar 5. Muktainagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 6. Vivid Karyakari Seva Sahakari Society Shengole Tal. Junner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				351/1/1Peki 351/1/2 351/1/3	351/1/1Peki 351/1/2 351/1/3	Private	Agriculture & Non Agriculture	988  <

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				356/1 Plot No. 8	356 Plot No. 8	Private	Non Agriculture	80	1. Shaikh Mohammad Javed Shaik Daud 2. K. P. Rajan Narayan Nayar 3. State Bank of India Branch Muktainagar
				356/1 Plot No. 9	356 Plot No. 9	Private	Non Agriculture	96	1. Shaikh Mohammad Javed Shaik Daud 2. State Bank of India Branch Muktainagar
		(3) Pimpri Ankuraut		200	200	Private	Agriculture	756	1. Gangubai Ganpat Mali 2. Punjaram Ganpat Mali 3. Manjirabai Ekanath Tile 4. Mangalabai Yuvaraj Mahajan 5. Jasubai Santosh Mopari 6. Sangitabai Kishor Mahajan 7. Saraswatabai Ravindra Mahajan 8. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 9. Niyantrit Satta Prakar
				201	201	Private	Agriculture	2750	1. Sukhadeo Onkar Bhawar 2. Kadu Dalapat Bhawar 3. Madhukar Dalapat 4. Sudhakar Dalapat 5. Keshubai Tukaram Mhaske 6. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. Niyantrit Satta Prakar 8. Navin Avibhajya Shari
				72 , 72 Peki	72 , 72 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2600	1. Kalpana Sudhir Bhalerno 2. Central Bank of India Branch Muktainagar 3. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				45 , 45 Peki	45 , 45 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	100	1. Keshav Dattatraya Vadhavekar 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				40 , 40 Peki	40 , 40 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	400	1. Jignesh Chandrakant Patil 2. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				44 , 44Peki	44 , 44Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	700	1. Draupadabai Ambadas Dhangar 2. Raghunath Ganapat Dhangar 3. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				42 , 42 Peki	42 , 42 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	350	1. Sarbjitkaur Indarjit 2. Gurumindersing Indarsing Chabel 3. Bhajanpritsing Indarsing Chabel 4. Sarbjitkaur Indarsing Chabel 5. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				41	41	Private	Agriculture	500	1. Gitanbai Baburno Mali 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				46	46	Private	Agriculture	700	1. Panduran Dhanji Khose 2. Padarnabai Vasantnrao Patil 3. Pramila Jivraj Mahajan 4. Shantabai Tukaram Patel 5. Sonambai Dagadu Dhole 6. Soganbai Sardar Aaher 7. Subhash Shiram Khose 8. Ravindra Shiram Khose 9. Prakesh Shiram Khose 10. Kusumbai Santosh Mahajan 11. Mirabai Vitthal Vichave 12. Ushabai Jagannath Lande 13. Urmila Sopan Dutte 14. Anjanabai Shiram Khose 15. Nethuku Stripat Khose
				47	47	Private	Agriculture	700	1. A. Rahiman A. Karim Manyar 2. Saktharam Dalpat Sonawane

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				55 , 55 Peki	55 , 55 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1200	1. Suresh Punjaji Patil 2. Suresh Punjaram Patil 3. Arun Punjaram Patil 4. Vaman Punjaram Patil 5. Induhai Sukalal Patil 6. Anusayabai Punjaram Patil 7. Purushottam Samadhan Patil 8. Mangala Chintaman Patil 9. Kusumbai Samadhan Patil 10. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 11. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				56/1 56/2A 56 Peki	56/1 56/2A 56 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2550	1. Govt. 2. Bhaskar Onkar Mali 3. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				57/1/A 57/1/B 57 Peki	57/1/A 57/1/B 57 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	450	1. Chhaya Digambar Kharche 2. I. D. B. I. Bank Branch Muktainagar 3. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				61/1	61/1	Private	Agriculture	358	1. Chidabai Ramdas 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Navin Avibhajya Shart
				62 , 62 Peki	62 , 62 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1200	1. A. Ku. K. Samadhan Devram Koli 2. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon 3. Navin Avibhajya Shart
				63	63	Private	Agriculture	1086	1. Kadu Fatru Koli 2. Arun Fatru Koli 3. Sarabai Fatru Koli 4. Mirabai Devidas Koli 5. Ashabai Magan Koli 6. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. Central Bank of India Branch Muktainagar 8. Navin Avibhajya Shart
			(4) Muktainagar	429/1	429/1	Private	Agriculture	400	1. A.Ku.K. Indrayani Sopan Patil 2. Muktainagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				431/1	431/1	Private	Agriculture	600	1. Arun Viththal Naik 2. Muktainagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				432/1	432/1	Private	Agriculture	750	1. Arun Viththal Naik 2. Edalabad Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Purnamai Tapi Saha. P. Sans. Muktainagar
				421/1	421/1	Private	Agriculture	650	1. Madhuakar Shankar Patil 2. Viahwanath Shankar Patil 3. Pandurang Shankar Patil 4. Arun Shankar Patil 5. Parvatibai Shankar Patil 6. Nirmalabai Shankar Waghode
				435/1	435/1	Private	Agriculture	246	1. Vasudeo Raghunath Patil 2. Damodar Raghunath Patil 3. Navin Avibhajya Shart
				436/1	436/1	Private	Agriculture	250	1. Pundalik Shankar Patil 2. Edalabad Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Navin Avibhajya Shart
				437/1 438/1	437/1 438/1	Govt. Private	Agriculture Agriculture	250 250	Govt. 1. Vasudeo Raghunath Patil 2. Damodar Raghunath Patil 3. Navin Avibhajya Shart

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				439/1/A 439/1/B	439/1/A 439/1/B	Private	Agriculture	638 1. Anil Pralhad Patil 2. Prafulkumar Shantilal Jain
				440/1	440/1	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1100 1. Vasant-Bapu Wani 2. Radhabai Sudhakar Nishyant 3. Pavan Subhash Sadavarte A. Pa. K. 4. Ashabai Subhash Sadavarte 5. Edalabad Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 6. Ashok Vinod Naik 7. Navin Avinashji Shinde 8. National Highway No. 6
				445/1A 445/2	445/1A 445/2	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2200 1. Bhaskar Govinda Zope 2. Bhagawat Govinda Zope 3. Sunita Tukaram Badhe 4. Sheshikala Ramesh Bharambe 5. Prabhakar Sopan Zope 6. Salbandi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. National Highway No. 6
				446/1	446/1	Private	Agriculture	1000 1. Hari Narayan Zope 2. Avinash Purushottam Supe 3. Multinagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				447/2 447/1/A	447/2 447/1/A	Private	Agriculture	1100 1. Jayprakash Ninu Chaudhari 2. Vikas Ninu Chaudhari 3. Kundabai Arun Mali 4. Multinagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				453	453	Private	Agriculture	2000 1. Balkrishna Kashiram Chaudhari
				450/1/A	450/1/A	Private	Agriculture	100 1. Muralidhar Vishwanath Patil 2. Manohar Vishwanath Patil 3. Edalabad Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. Multinagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				480/1	480/1	Private	Agriculture	800 1. Muralidhar Vishwanath Patil 2. Manohar Vishwanath Patil 3. Ninu Ekanath Patil 4. Prabhakar Ekanath Patil 5. Giradhar Ekanath Patil 6. Hari Vithoba Patil
				483/1	483/1	Private	Agriculture	2750 1. Mandakini Ekanathrao Khadase 2. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				484/1	484/1	Private	Agriculture	2065 1. Ekanathrao Ganapatrao Khadase 2. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				500/1	500/1	Private	Agriculture	2750 1. Purushottam Ramesh Patil 2. Swati Sanjay Rane 3. Asha Arjun Borole 4. Lata Suresh Karande 5. Mandakini Prabhakar Patil 6. Chandrabhaga Ekanath Sarode 7. Lilabu Ninu Sarode 8. Avinash Ramchandra Sarode 9. Sitaram Totaram Sarode A. Ku. K. 10. Prakash Nivrutti Sarode 11. Mohan Nivrutti Sarode 12. Bhushan Nilkanth Sarode 13. Punam Nilkanth Sarode 14. Savita Nilkanth Sarode 15. Multinagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 16. The United Western Bank Branch Multinagar 17. Niyamtri Satta Prakar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				501	501	Private	Agriculture	200	1. Damodar Onkar Mahajan 2. Vasant Namdeo 3. Sadashiv Namdeo 4. Jankibai Namdeo 5. Dnyandeo Mukunda Mahajan 6. Edalabad Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. Muktainagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 8. The United Western Bank Branch Muktainagar
				502	502	Private	Agriculture	250	1. Bhaskar Kashinath Mahajan 2. Balkrishna Kashinath Mahajan 3. Indubai Kashinath 4. Dnyandeo Mukunda Mahajan 5. Vishnu Mukunda Mahajan 6. Kamalbai Mukunda Mahajana 7. Ushabai Narayan Patil 8. Shobha Ashok Chaudhari 9. Lata Pandurang Sarode 10. Edalabad Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 11. Central Bank of India Branch Edalabad
				499/2	499/2	Private	Agriculture	234	1. Ramanlal Ranglal Jain 2. Suganchand Ranglal Jain
				505/1	505/1	Private	Agriculture	708	1. Vasudeo Raghunath Patil 2. Damodar Raghunath Patil 3. Mahesh Vishwanath Ingale 4. Navin Avibhajya Shart 5. Muktai Gramin Bigar Sheti S. P. Maryadit
				544/1	544/1	Private	Agriculture	300	1. Rajendra Ambadas Rane 2. Muktainagar Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				559 Plot No. 1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 12	559 Plot No. 1	Private	Non Agriculture	45	1. Vasudeo Rama Bhangale 2. Radhakrishna Nagari Saha. P. S. M. Malkapur
					559 Plot No. 2	Private	Non Agriculture	45	Tryambak Ananda Patil
					559 Plot No. 3	Private	Non Agriculture	45	Rajesh Virchand Jain
					559 Plot No. 4	Private	Non Agriculture	45	Ravindra Ramchandra Chaudhari
					559 Plot No. 5/1, 5/2	Private	Non Agriculture	45	1. Dasharath Avadhut Kharwadkar 2. Rajari Dasharath Kharwadkar 3. Mukesh Madhukar Mahalle
					559 Plat No. 6	Private	Non Agriculture	45	Ramchandra Kashinath Varade
					559 Plot Na. 7	Private	Non Agriculture	45	1. Shamsundar Dwarakadas Chaudhari 2. Ramesh Virchand Jain
					559 Plot No. 8	Private	Non Agriculture	45	1. Vasudeo Shanakar Kolhe 2. Vasudeo Devaba Narkhede
					559 Plot Na. 9	Private	Non Agriculture	45	Ramechandra Kashinath Varade
				560/1 Plot No. 22, 23, 30, 31	560 Plat No. 30	Private	Non Agriculture	108	Shailesh Kalidas Patil
					560 Plat No. 31	Private	Non Agriculture	100	1. Shailesh Kalidas Patil 2. Supri. Rajya Utpadan Shulka Jalgaon Abakari Department
					560 Plot No. 23	Private	Non Agriculture	108	Shailesh Kalidas Patil

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				560 Plot No. 22	Private	Non Agriculture	75	1. Shailesh Kalidas Patil 2. Nilesh Kalidas Patil
				582/1 Plot No. 84, 85, 86, 87, 88 / 2, 89/2, 88/1, 89/1, 90	Private	Non Agriculture	68	Gopal Tukaram Patil
				582 Plot No. 85	Private	Non Agriculture	68	Kiranbai Ranglal Bagawecha
				582 Plot No. 86	Private	Non Agriculture	68	1. Vasant Bakram Talele 2. Liladhar Bakram Talele
				582 Plot No. 87	Private	Non Agriculture	72	1. Indubai Bhagawan Khachane 2. Yogita Balkrishna Rane
				582 Plot No. 88/1, 88/2	Private	Non Agriculture	68	1. Shaikh Nashir Shaikh Bashir 2. Shaikh Mushir Shaikh Bashir 3. Krishnakumar Prakash Mali 4. Ravindra Prakash Mali 5. Jayashri Santosh Mahajan 6. Maharashtra Gramin Bank Branch Muktainagar
				582 Plot No. 89/1, 89/2	Private	Non Agriculture	89	1. Shobha Vishwanath Khadase 2. Arvind Hari Zope
				582 Plot No. 90	Private	Non Agriculture	68	Vasudeo Raghunath Patil
				588/1 Plot No. 21, 22, 23, 24, 25, 30	Private	Non Agriculture	56	Pratishad Panaji Chaudhari (Nafade)
				588/1 Plot No. 22	Private	Non Agriculture	60	1. Jyoti Chandrabhaskar Badhe 2. Mangala Vasudeo Badhe
				588/1 Plot No. 23	Private	Non Agriculture	60	Ranchhod Narayan Sonar
				588/1 Plot No. 24	Private	Non Agriculture	60	1. Manoj Purushottam Patil 2. Ramesh Purushottam Patil
				588/1 Plot No. 25	Private	Non Agriculture	72	Sandip Ramesh Khachane
				674/1	Private	Agriculture	2650	1. Namdeo Tryambak Badhe 2. Prakash Tryambak Badhe 3. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				675/1 675/2	Private	Agriculture	62	1. Vasudeo Laxman Badhe 2. Dnyandeo Laxman Badhe 3. Usha Rambhau Kolate 4. Asha Dhanraj Talele 5. Sazala Vasudeo Patil 6. Vasudeo Raghunath Patil 7. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 8. Mukta Gramin Co. Op. Society Muktainagar
				673/1	Private	Agriculture	1700	1. Nima Ramkrishna Badhe 2. State Bank of India Branch Muktainagar
				670/1	Private	Agriculture	2450	1. Natimi Vasudeo Badhe 2. Nilkanth Ramchandra Chaudhari 3. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				668/1	668/1	Private	Agriculture	1100	1. Gopal Narayan Khachane 2. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Muktai Gram. Bigarsheti. Saha. P. S. M. Muktainagar
				666/1	666/1	Private	Agriculture	350	1. Nilima Satish Ingale
				665/1	665/1	Private	Agriculture	700	1. Raghunath Vishwanath Khachane 2. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				664	664	Private	Agriculture	1146	1. Madhukar Mahadu Khachane 2. Raghunath Vishwanath Khachane
				663/1	663/1	Private	Agriculture	2000	1. Gajanan Balkrishna Patil 2. Vijaya Jagadish Patil 3. Pradip Barasu Badhe 4. Sandip Barasu Badhe 5. Narendra Vijaychand Jain 6. Hitendra Vijaychand Jain
				662/1 Plot No. 25, 26, 27, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44	662 Plot No. 27	Private	Non Agriculture	45	Rajaram Jayaram Falak
					662 Plot No. 26	Private	Non Agriculture	80	Ravindra Wamanrao Patil
					662 Plot No. 25	Private	Non Agriculture	80	Ravindra Wamanrao Patil
			(S) Salbardi	14	14	Private	Agriculture	18	1. Dhondu Govinda Zope & 5 2. Narayan Totaram Barhate 3. Nivrutti Kisan Barhate 4. Mahadu Totaram Barhate 5. Malati, Sindhu, Indu, Kaveri, Rukhmini A. Pa. K. Tulasabai
				13	13	Private	Gavhan	51	Kautik Narayan
				15/1 15/2	15/1 15/2	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1532	1. Dnyandeo Nivrutti Barhate 2. Subhash Nivrutti Barhate 3. Executive Engineer National Highway Jalgaon
				150/2	150/2	Private	Agriculture	723	1. Pandurang Nivrutti Barhate 2. Vasudeo Nivrutti Barhate 3. Vishesh Vasuli Adhikari Jalgaon
				151	151	Govt.	Agriculture	500	Grampanchayat Salbardi
				153/2	153/2	Private	Agriculture	887	1. Nivrutti Hari Zope 2. Chairman Rajshri Babu More Muktai Magasvargiya Audyogik Utapadak Saha. Santha Muktainagar 3. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				154/1/1	154/1/1	Private	Agriculture	1850	1. Sopan Onkar Badhe 2. Ramchandra Onkar Badhe 3. Prakash Onkar Badhe 4. Subhash Onkar Badhe No. 3 & 4 A. Pa. K. Aai Laxmibai 5. Laxmibai Onkar Badhe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				155/1	155/1	Private	Agriculture	700	1. Tukaram Ramkrishna Badhe 2. Namdeo Tryambak Badhe 3. Shankar Tryambak Badhe 4. Prakash Tryambak Badhe 5. Jitendra Waman Badhe 6. Salharthi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. Mukta Arban Co. Op. Society Edalabad
			(6) Satod	245 Peki 245 Peki	245 245/1 245/2	Private & Govt.	Agriculture & Highway	3500	1. Arthok Pandurang Khose 2. Ghodasgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Executive Engineer National Highway Jalgaon 4. Bhaskar Pandurang Khose 5. Central Bank of India Branch Muktainagar
				242 242 Peki	242 242 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2900	1. Ramanlal Ranglal Jain 2. Jugan Ranglal Jain 3. State Bank of India Branch Muktainagar 4. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon
				236 236 Peki 1	236 236 Peki 1	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2600	1. Rajendra Suresh Thakur 2. Vishnu Tukaram Patil 3. Raju Tukaram Patil 4. Executive Engineer National Highway No. 6 Jalgaon 5. Navin Avibhaya Shari 6. I. D. B. I. Bank
			(7) Kothali	118/1/A	118/1/A	Private	Agriculture	2450	1. Sudhakar Madhukar Jangale 2. Prakash Madhukar Jangale
				117/1/A	117/1/A	Private	Agriculture	1118	1. Vina Chandrashekar Varade 2. Vimal Nivrutti Varade 3. Ganesh Nivrutti Varade 4. Latabai Punjaji Zambare 5. Radha Shrikishna Bonde 6. Vanita Ratnakar Bonde 7. Vimalbai Nivrutti Varade 8. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 9. Mukta Gram. Society Muktainagar
				115/1	115/1	Private	Agriculture	768	1. Nalini Chhabildas Varade
				114/1	114/1	Private	Agriculture	900	1. Nago Shankar Zambare 2. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				113/1	113/1	Private	Agriculture	600	1. Padmakar Nago Zambare 2. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				112/1	112/1	Private	Agriculture	600	1. Sudhakar Nago Zambare 2. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Mukta Gram. B. Sheti. S. P. M. Muktainagar
				111/1	111/1	Private	Agriculture	900	1. A. Ku. K. Nalini Madhukar Zambare 2. Bhaskar Nino Zambare 3. Ramchandra Bhaskar Zambare

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				108/1	108/1	Private	Agriculture	413	1. Manohar Hari Patil 2. Dinkar Hari Patil 3. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. Muktai Gram, B. S. Saha. Society. Edalabad
				107/1	107/1	Private	Agriculture	439	1. Narayan Namdeo Patil 2. Ramchandra Namdeo Patil 3. Laxman Namdeo Patil 4. Damodar Namdeo 5. Shamrao Namdeo Patil 6. Saraswati Namdeo Patil 7. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				109/1	109/1	Private	Agriculture	500	1. Rekha Madhukar Nemade
				110/1	110/1	Private	Agriculture	1768	1. Sangita Sunil Patil 2. Nilima Damodar Varade 3. Anil Narayan Jangale 4. Laxman Namdeo Patil 5. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				94/1	94/1	Private	Agriculture	2500	1. Vasudeo Laxman Nemade 2. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				80/1	80/1	Private	Agriculture	536	1. Ninu Bhiku Chaudhari 2. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				79/1	79/1	Private	Agriculture	2900	1. Bhiku Maruti 2. Ekanath Sitaram 3. Tryambak Sitaram 4. Namdeo Sitaram Chaudhari 5. Kitkul Sakharam Chaudhari 6. Sadu Sakharam Chaudhari 7. Kothali Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 8. Shankar Vishnu Chaudhari 9. Kamalbai Janardan Dhake 10. Punjabai Vijay Rane 11. Bebi Sudhakar Patil
			(8) Hartale	93 Peki	93 Peki	Private	Agriculture	2750	1. Ravindra Ninu Zambare
				493/1 493/2 493/2 Peki	493	Private & Govt.	Agriculture & Highway	3100	1. Swati Prashanti Firake 2. Ravindra Ratanlal Kotecha 3. Hartale Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. National Highway No. 6 5. Navin Avibhajiya Shari
				537 537 Peki	537	Private & Govt.	Agriculture & Highway	100	1. Chamelibai Purushottam Bonde 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. National Highway No. 6
				536/1 536/2 536/1 Peki	536	Private & Govt.	Agriculture & Highway	350	1. Makasud Ali Sikandar Ali 2. Kamaljitkaur Indrajitsing Gill 3. National Highway No. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				534/B	534/B/1	Private & Govt.	Agriculture & Highway	350	1. Asalam Shabbir Shaikh 2. Altaf Shabbir Shaikh 3. Hartale Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. National Highway No. 6 5. Chitra Vikas Chirmade 6. Rubinabi Maksudali Saiyyad 7. Vikas Sopanrao Chirmade
				532/1 532 Peki	532/1 532 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	700	1. Jayantilal Babulal Pardeshi 2. National Highway No. 6
				526 526 Peki	526 526 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	100	1. Shantaram Shenfadu Surwade 2. Baliram Shripat Mali 3. National Highway No. 6
				525 525 Peki	525 525 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	250	1. Shankar Raghunath Dandage 2. Shrawan Raghunath Dandage 3. Dnyaneshwar Raghunath Dandage 4. Sindhubai Tukaram Khondale 5. Mangala Harchand Bajoi 6. Hartale Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. National Highway No. 6
				523/1 523/2 523/1 Peki	523/1 523/2 523/1 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	200	1. Gana Ganpai Damodare 2. Sukdeo Devaji Bavskar 3. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 4. Pimpalgaon Bk. Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 5. National Highway No. 6
				522 522 Peki	522 522 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	150	1. Dagadu Hari Patil 2. Dnyaneshwar Hari Patil 3. Sopan Hari Patil 4. Muktabai Prakash Patil 5. Rahibai Hari Patil 6. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. National Highway No. 6
				608 608 Peki	608 608 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	628	1. Ekanath Motiram Barhate 2. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. National Highway No. 6
				607 607 Peki	607 607 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	579	1. Avinash Ramchandra Barhate 2. National Highway No. 6
				619 619 Peki	619 619 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	263	1. Dinkar Maruti Barhate 2. Nina Maruti Barhate 3. Ashok Madhukar Barhate 4. Arun Madhukar Barhate 5. Vishnu Madhukar Barhate 6. Anusayabai Madhukar Barhate 7. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 8. National Highway No. 6
				606 606 Peki	606 606 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	80	1. Ramesh Namdeo Barhate 2. Haratele Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. National Highway No. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				521/1 521/2 521/2 Peki	521/1 521/2 521/2 Peki	Private & Govt.	Agriculture, Highway & Non Agriculture	2000 1. Anarjising Narendrasing Chabel 2. Ravindrasing Kuldipsing Chabel 3. Pradipsing Baldevsing Chabel 4. Sukhavindarkaur Rasapalsing Chabel 5. Gaganpatilkar Rasapalsing Chabel 6. Asandipsing Rasapalsing Chabel 7. Surjitkar Bhagatsing Chabel No. 5 & 6 A. Pa. K. Asi Sukhavindarkaur Chabel 8. National Highway No. 6
				513/2/1 513/1	513/2/1 513/1	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2450 1. Vilas Lakhichand Bhargale 2. Lakhichand Dinkar Bhargale 3. Kailas Lakhichand Bhargale 4. Pratibha Devidas Jawale 5. National Highway No. 6
				505/1B 505/2/1 505/2/2 505/1A 505/1/A Peki	505/1B 505/2/1 505/2/2 505/1A 505/1/A Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2650 1. Shaikh Shabbir Shaikh Vajir 2. Hamid Shaikh Bashir 3. Shaikh Mahemud Shaikh Hamid 4. Shaikh Maheebud Shaikh Hamid 5. Shaikh Sharif Shaikh Hamid 6. Shaikh Ajij Shaikh Hamid 7. Shaikh Shamir Shaikh Hamid 8. Martale Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 9. I. D. B. I. Bank Branch Multainagar 10. National Highway No. 6
				503 503 Peki	503 503 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	5000 1. Ismail Ibrahim Dhadiwal 2. National Highway No. 6
				502/1 502/2 502/2 Peki	502/1 502/2 502/2 Peki	Private & Govt.	Agriculture, Highway & Non Agriculture	2000 1. Padmakar Sopan Chaudhari 2. Narayan Rajaram Pachpande 3. Hari Rajaram Pachpande 4. Tukaram Rajaram Pachpande 5. Rama Rajaram Pachpande 6. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. National Highway No. 6
				500 500 Peki	500 500 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1800 1. Padmakar Sopan Chaudhari 2. Sunil Pandurang Chaudhari 3. Dipak Subhash Chaudhari 4. Jayesh Ranchhod Chaudhari 5. Jagadish Soma Chaudhari 6. National Highway No. 6
				497/1/1 497/1/2 497/2/1 497/2/2 497/2/1 Peki	497/1/1 497/1/2 497/2/1 497/2/2 497/2/1 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	5850 1. Pratibha Rajan Chopade 2. Jayant Liladhar Chopade 3. Liladhar Nadar Chopade 4. Rajan Liladhar Chopade 5. Satpuda A. Co. Op. Society Ltd. Faizpur 6. National Highway No. 6
				496 496 Peki	496 496 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1500 1. Hari Kisan Patil 2. Sudhakar Kisan Patil 3. Ramchandra Kisan Patil 4. Laxman Kisan Patil 5. Laxmibai Atmaram Sarode 6. Salbardi Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. Muktai A. Co. Op. Cre. Society Edalabad 8. National Highway No. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				442 442 Peki	442 442 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	1000  1. Suresh Dayaram Patil 2. Anil Vishwanath Patil 3. Sunil Vishwanath Patil 4. Dipak Vishwanath Patil 5. Central Bank of India Branch Varangaon 6. National Highway No. 6
				443 443 Peki	443 443 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	645  1. Suresh Dayaram Patil 2. Anil Vishwanath Patil 3. Sunil Vishwanath Patil 4. Dipak Vishwanath Patil 5. Central Bank of India Branch Varangaon 6. National Highway No. 6
				491 /A 491/ B	491 /A 491/ B	Private	Agriculture	3411  1. Suman Vasantao Gurav 2. Pravin Vasantao Gurav 3. Sarika Sunil Shelar 4. Bhavana Nitin Upasane 5. Ashuleta Prabhakar Hartalkar 6. Arun Shankar Gurav 7. Suresh Shankar Gurav 8. Jayashri Shankar Gurav 9. Nilesh Ramesh Badhe 10. Vaishali Nilesh Badhe 11. Hartale Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 12. The United Western Bank Branch Muktanagar 13. I. D. B. I. Bank Branch Muktanagar 14. Navin Avibhaya Shart 15. Sachin Prabhakar Hartalkar 16. Pallavi Prabhakar Hartalkar 17. Vaishali Prabhakar Hartalkar
				487	487	Private	Agriculture	500  1. Vasanti Shama Chandelkar (Dhobi) 2. Prahlad Shama Chandelkar (Dhobi) 3. Mohan Shama Chandelkar (Dhobi) 4. Kusumbai Narayan Khandale 5. Hartale Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 6. Niyantrit Satta Prakar
				486, 486 Peki	486, 486 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2086  1. Pooamchand Sitaram Sepakal 2. Dnyaneshwar Sitaram Sepakal 3. Shrikishna Sitaram Sepakal 4. Hartale Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 5. State Bank of India Branch Muktanagar 6. National Highway Na. 6
				484, 484 Peki	484, 484 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	700  1. Komaljitsing Harjitsing Anand 2. Nishottarsing Bramhasing 3. National Highway No. 6
	2) Bhuzawal	(1) Kahurkhede		118	118	Private	Agriculture	100  1. Tukaram Shrawan Nehete 2. Pramod Sopan Nehete 3. Vinod Sopan Nehete 4. Pushpabai Ravindra Bendale 5. Kesharbai Sopan Nehete
				119	119	Private	Agriculture	100  1. Vasudeo Sukadeo Nehete 2. Feyyumoddin Shaikh Allanddin
				120	120	Private	Agriculture	300  Mushakali Saiyyed Lal
				121	121	Private	Agriculture	1200  1. Prabhakar Ziparu Nehate 2. Rakhmabai Ziparu Nehate 3. Gatabai Barasu Patil 4. Vimalbai Muralidhar Patil 5. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				122/1 122/2	122	Private	Agriculture	262	1. Dnyandeo Kautik Nehate 2. Bhagawat Kautik Nehate 3. Ashok Kautik Nehate 4. Kamalbai Pundalik Nehate 5. Sunandabai Tulshiram Patil 6. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. Tukaram Shravan Nehate
				123	123	Private	Agriculture	729	1. Dnyandeo Kautik Nehate 2. Bhagawat Kautik Nehate 3. Ashok Kautik Nehate 4. Kamalbai Pundalik Nehate 5. Sunandabai Tulshiram Patil 6. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 7. Adarsh Gramin Bigar Sheti P. S. Varangaon
				124	124	Private	Agriculture	300	1. Vasudeo Sukadeo Nehate 2. Bahinabai Sukadeo Nehate
				125	125	Private	Agriculture	300	1. Pralhad Maharu Nehate 2. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				126	126	Private	Agriculture	400	1. Rajendra Janardan Bharambe 2. Pramod Sopan Nehate 3. Vinod Sopan Nehate 4. Pushpabai Ravindra Bendale 5. Kesharbai Sapan Nehate 6. Bhagawan Ramaji Patil Award Boja 7. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				128/1 128/2	128	Private	Agriculture	600	1. Gajamal Sitaram Patil 2. Ismailkhan Majadikhan 3. Ichharam Sitaram Patil 4. Kahurkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 5. Samajsevak Santosh Bhau Chaudhari A. Co. Op. Cre. Society. M. Savada
				129	129	Private	Agriculture	500	1. Samadhan Sonu Patil 2. Shantaram Sanu Patil 3. Madhukar Sonu Patil
				133	133	Private	Agriculture	50	1. Jagtarsing Bikkarsing Bading 2. Butasing Bikkarsing Bading 3. Navin Avibhajya Shart
			(2) Bohardi kh.	103/3/2 103/2/1 103/1(1+2+3) 103/4/3 103/5/4	103/3/2	Private	Agriculture	2900	1. Nirmala Prakash Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
					103/2/1	Private	Agriculture	2700	1. Dattatraya Chango Patil 2. Govt. of India
					103/1 (1+2+3)	Private	Non Agriculture	1300	Dnyandeo Dattatraya Patil
					103/4/3	Private	Agriculture	1100	1. Suresh Sopandeo Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
					103/5/4	Private	Agriculture	9000	1. Bhaskar Chango Patil 2. Sai. Mumtaj Sai. Ahmad 3. Central Bank of India Branch Varangaon
				104	104	Private	Agriculture	100	Sumil Narayan Patil
				121	121	Private	Agriculture	600	Nikhil Ekanathrao Khadase

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				122	122	Private	Agriculture	900	1. Sambhaji Rao Narayanrao Deshmukh 2. Harsha Sanjaykumar Zope 3. Kashra Group Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				125	125	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	3300	1. Pitambar Baliram Patil 2. Shridhar Baliram Patil 3. Girdhar Baliram Patil 4. Dhanraj Baliram Patil 5. Shantabai Divakar Bhole 6. Gokul Digambar Patil 7. Jyoti Anant Patil 8. Sundharbai Digambar Patil 9. Govt.
				96	96	Private	Agriculture	1800	Shantaram Dayawan Patil
				123	123	Private	Agriculture	3100	Sambhaji Rao Narayanrao Deshmukh
				2	2	Govt.	Agriculture	4900	1. Sampach Group Grampanchayat Bahardi Kh. 2. Govt.
				14/1 14/2/2 14/2/1	14/1 14/2/2 14/2/1	Private & Govt.	Agriculture & Highway	5400	1. Executive Engineer National Highway No. 6 2. Govt. 3a. Vinayak Ganpat Male 4a. Ningshwan Male Jagad Kachchhi 5a. Hasmalwan Male Jagad Kachchhi 6a. Manabhai Onkar Patil 7. Kalamkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 8a. Lokeshwar A. Co. Op. Cre. Soc. Vamangane
				15/1/2 15/1	15/1/2 15/1	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	6000	1. Ningshwan Male Jagad Kachchhi 2. Hasmalwan Male Jagad Kachchhi 3a. Santabai Prabhakar Vanshi 4a. Chitambar Prabhakar Vanshi 5a. Santabai Prabhakar Vanshi 6a. Anil Dadasa Kapse 7. Santabai Prabhakar Vanshi 8a. Kalamkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 9. Jyoti Anant Patil 10. Kamalabai Prabhakar Vanshi 11. Vilas Jagannath Sonar Patil 12. Kiran Jagannath Sonar Patil 13a. Lokeshwar A. Co. Op. Cre. Society Vamangane 14a. S. M. S. C. H. Badhar A. Co. Op. Cre. Society Vamangane 15a. Executive Engineer National Highway No. 6
				13/1 13/2/1	13	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	4200	1. Executive Engineer National Highway No. 12 2. Rekha Vilas Patil 3. Sulabha Kiran Patil
				16/1 16/2	16/1 16/2	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	2595	1. Executive Engineer National Highway No. 12 2. Mohan Jagannath Sonar 3. Chandulal Jagannath Sonar 4. Anil Jagannath Sonar 5. Vilas Jagannath Sonar 6. Sham Jagannath Sonar 7. Sukha Jagannath Sonar 8. Santabai Jagannath Sonar 9. Kalamkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				18/1/1 18/2 18/2/2	18	Private & Govt.	Agriculture & Highway	4400	1. Executive Engineer National Highway No. 12 2. Hari Bhagawan Chaudhari 3. Sakharan Bhagawan Chaudhari 4. Jaibai Manohar Patil 5. Rahibai Damu Patil 6. Kahaarkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				28	28	Private	Agriculture	1472	Saundarsing Gurashansing
				27	27	Private	Agriculture	3735	1. Ravindrasing Kuldipsing Chahel 2. Amarjitsing Narendrasing Chahel 3. Pradipsing Baldevsing Chahel 4. Amardipsing Resapalsing Chahel 5. Gaganpritsing Rasapalsing Chahel 6. Sukhavindarkaur Resapalsing Chahel 7. Surjitkaur Bhagatsing Chahel 8. No. 4 & 5 A. Pa. K. Sukhavindarkaur 9. Lokkalyan A. Co. Op. Cre. Soc. Varangaon Branch Fekari
				26/1 26/2	26/1A 26/1B 26/2	Private	Agriculture	2772	1. Rajendra Janardan Bherambe 2. Shital Manoj Patel 3. Suresh Ramaji Patel
				23	23	Private	Agriculture	100	1. Parashram Santosh Patil 2. Kahaarkhede Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
			(3) Bohardi Bk.	168/1	168/1	Private	Agriculture	1000	Jaypal Garunamal Nagarani
				168/5	168/5	Private	Agriculture	700	Amit Ashok Nagarani
				173	173	Private	Agriculture	1400	1. Indrasing Gulabsing Patil 2. Pra. Krishi Saha. Patsanstha M. Kahaarkhede
				169	169	Private	Agriculture	900	1. Indrasing Gulabsing Patil 2. Pra. Krishi Saha. Patsanstha M. Kahaarkhede 3. Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd. Jalgaon
				107	107	Private	Agriculture	1877	1. Govt 2. Prabhakar Shankar Patil 3. Sudhakar Shankar Patil 4. Vasant Shankar Patil 5. Krishna Shankar Patil 6. Vinod Shankar Patil 7. Mandakini Shankar Patil 8. Mangala Vishnu Narkhede 9. Pratibha Prabhakar Patil 10. Suman Prabhakar Chaudhari 11. Vimal Jagannath Narkhede 12. Sarala Ramesh Nemade 13. Vijay Bhaskar Patil 14. Anil Bhaskar Patil 15. Archana Prabhakar Gajare 16. Nalini Bhaskar Patil 17. Talwel Daryapur Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				109	109	Private & Govt.	Agriculture	2100	1. Ziparu Shenu Rane 2. Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				163/1 163/2	163/1 163/2	Private	Agriculture	50	1. Pandurang Bhaskar Patil 2. Ashok Bhaskar Patil 3. Talwel Daryapur Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				141	141	Private & Govt.	Agriculture	1200	1. Govt 2. Sudhakar Dagadu Zope 3. Kusum Vasudeo Zope
				162/1	162/1	Private	Agriculture	100	1. Bhaskar Janardan Zope
				142	142	Private	Agriculture	800	1. A.Ku.K. Ashok Ekamath Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				159/1 159/2	159/1 159/2	Private	Agriculture	100	1. Bhaskar Janardan Zope 2. Dhansing Ramsing Patil
				143	143	Private	Agriculture	1292	1. Vishwanath Bhagawat Patil 2. Suresh Bhagawat Patil 3. Chandrabhaga Bhagawat Patil 4. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				158	158	Govt.	Agriculture	94	Govt. of India
				157	157	Private	Agriculture	66	1. Narendra Uttamrao Ahire 2. Central Bank of India Branch
				144	144	Private & Govt.	Agriculture	1000	1. Govt. of India 2. Vasudeo Rajaram Wayakole 3. Vijaya Madhukar Rane 4. Mahesh Dnyandeo Wayakole 5. Sadhana Santosh Chaudhari 6. Manisha Gokul Barhate 7. Sebhadrabai Dnyandeo Wayakole 8. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari 9. Navin Avibhaja Shast 10. Niyantrit Satta Prakar
				145	145	Private	Agriculture	588	1. Janardan Punjo Daivadnya 2. Mahesh Dnyandeo Wayakole
				146/1 146/2	146/1 146/2	Private	Agriculture	400	1. Dnyandeo Vithoba Fegade 2. Ramkrishna Vithoba Fegade 3. Mahesh Dnyandeo Wayakole 4. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				147	147	Private	Agriculture	600	1. Shuvaram Khandu Fegade 2. Rama Khandu Fegade
			(4) Talwel	151	151	Govt.	Agriculture	345	Govt. of India
				152	152 152 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	4152	1. Dagadu Devachand Patil 2. Dilip Devachand Patil 3. Vishwanath Devachand Patil 4. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari 5. Executive Engineer National Highway

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				148	148 148 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	317	1. Balkrishna Shivaram Rane 2. Ashok Shivaram Rane 3. Vilas Shivaram Rane 4. Shaligram Shivaram Rane 5. Pramod Shaivaram Rane 6. Kisan Jayaram Rane 7. Rama Jayaram Rane 8. Subhash Jayaram Rane 9. Gajanan Jayaram Rane 10. Madhuri Kisan Zope 11. Shanatabai Shivaram Rane 12. Executive Engineer National Highway
				158	158	Private	Agriculture	346	1. Lilabai Urf Sunanda Dnyandeo Fegade 2. Mohini Suhas Patil
				157	157	Govt.	Agriculture	225	Govt.
				153	153/1 153/2 153 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	2062	1. Annapurna Raghunath Rane 2. Bhalchandra Purushottam Rane 3. Indrayani Purushottam Rane 4. Chandrakani Laxman Rane 5. Dilip Laxman Rane 6. Sunil Raghunath Rane 7. Milind Ramesh Rane 8. Anil Ramesh Rane 9. Parikshit Ramesh Rane A. Pa. K. Aai Kusum 10. Kusum Ramesh Rane 11. Padamabai Purushottam Rane 12. Pratibha Dilip Khadase 13. Nala Sharad Mahajan 14. Sushama Ravi Medhe 15. Executive Engineer National Highway 16. Sulochana Laxman Rane
				160	160	Govt.	Agriculture	381	Govt. of India
				156	156	Govt.	Agriculture	309	Govt. of India
				154	154 154 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	1206	1. Dnyandeo Pandhari Rane 2. Prakash Pandhari Rane 3. Shobha Prabhakar Rane 4. Ashishkumar Prabhakar Rane 5. Shubhangi Milind Fegade 6. Talwel Daryapur Pri. Krishi Gramin P. Sanstha Marya. 7. Executive Engineer National Highway
				155 Peki	155	Govt.	Agriculture	388	Govt. of India
				118	118 Peki	Private	Agriculture	2177	1. Dhanraj Kashinath Wayakole 2. Bharati Rajendra Wayakole 3. Satish Rajendra Wayakole 4. Vinod Rajendra Wayakole 5. Prakash Baburao Wayakole 6. Yashawanti Baburao Wayakole 7. Baburao Totaram Wayakole 8. Central Bank of India Branch Varangan 9. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				117	117	Govt.	Agriculture	800	Govt. of India

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				115 115 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Highway	100	1. Digambar Baliram Pawar 2. Prakash Baliram Pawar 3. Muralidhar Baliram Pawar 4. Rajendra Baliram Pawar 5. Anita Shivaji Marathe 6. Lalita Yashawant Mahadik 7. Executive Engineer National Highway
				109/1	109/1	Private	Agriculture	900 1. Gopal Kashiram Ladhe
				108	108	Private	Agriculture	900 1. Arun Tukaram Patil 2. Mahatma Jyotiba Fule A. Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Varangaon
				103	103	Govt.	Agriculture	700 Govt. of India
				102	102	Govt.	Agriculture	572 Govt. of India
				105	105	Private	Agriculture	100 1. A. Ku. K. Rajaram Sitaram Patil 2. Jagannath Laxman Patil 3. A. Ku. K. Hari Shankar Patil 4. Vijaya Dnyandeo Patil 5. Ganesh Dnyandeo Patil A. Pa. K. Vijaya
				104	104	Private	Agriculture	1600 1. Ramadas Naththu Patil 2. Akshay Bhagawat Wayakole 3. Niraj Bhagawat Wayakole 4. Ratnamala Bhagawat Wayakole No. 2 & 3 A. Pa. K. Aai Ratnamala 5. Chamelibai Govinda Wayakole 6. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				101/1	101/1	Private	Agriculture	2782 1. Vijaya Dnyandeo Potil 2. Ganesh Dnyandeo Patil A. Pa. K. Aai Vijaya
				101/2	181/2	Private	Agriculture	2111 Hari Shankar Patil
				56	56	Private	Agriculture	100 1. Dnyandeo Ankat Patil 2. Vasant Ankat Patil 3. Ravindra Ankat Patil 4. Pramod Shashikant Patil
				44	44	Private	Agriculture	100 1. Ramkrishna Narayan Patil 2. Rama Narayan Patil 3. Pundalik Narayan Patil 4. Draupadabai Barasu Bhargale 5. Saraswatibai Namdeo Patil 6. Anusayabai Ichharan Patil 7. Dwarakabai Anarda Patil 8. Bhaskar Onkar Patil 9. Vatsalabai Namdeo Patil 10. Pushpabai Sudhakar Patil
				55	55	Private	Agriculture	3384 1. Govinda Ramu Patil 2. Upendra Ramu Patil 3. Bhaskar Ramu Patil 4. Suresh Ramu Patil 5. Malatabai Pralhad Barhate 6. Gitabai Shankar Patil 7. Sushilabai Narayan Kolate 8. Jayawantabai Shanakar Patil 9. Madbukar Ramu Patil 10. Ramesh Damu Patil 11. Prakash Damu Patil 12. Indubai Shantaram Nemade 13. Mangalabai Dnyandeo Dhake 14. Rambhabai Popat Chaudhari

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				54/1 54/2 54/3 54/4	54/1 54/2 54/3 54/4	Private	Agriculture	2800 1. Sudhakar Onkar Barhate 2. Anil Onkar Barhate 3. Bhanudas Onkar Barhate 4. Khemchandra Gopal Barhate 5. Rupesh Ravindra Barhate 6. Pravin Ravindra Barhate 7. Piyush Suhas Barhate 8. Bhagawat Barasu Barhate 9. Ramesh Barasu Barhate 10. Hemraj Sitaram Barhate
				53	53	Private	Agriculture	3200 1. Sudhakar Kashinath Surwade 2. Pandharinath Shankar Patil
				47	47	Private	Agriculture	800 Nivrutti Chango Patil
				48	48	Private	Agriculture	1900 1. Madhukar Raghunath Patil 2. Vasundhara Suresh Patil 3. Sandipkumar Suresh Patil 4. Lalitkumar Suresh Patil
				46	46	Private	Agriculture	700 1. Dnyandeo Kisan Patil 2. Lokkalyan A, Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Varangaon
				37	37	Private	Agriculture	900 1. Pralhad Devachan Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				43	43	Private	Agriculture	1400 1. Chandrakant Rama Patil 2. Goradhan Rama Patil 3. Pushpabai Bhaskar Dhake 4. Indubai Balu Patil 5. Sakubai Rama Patil 6. Suhas Pundalik Patil 7. Kishor Pundalik Patil 8. Dilip Pundalik Patil 9. Rekha Ganesh Bhirud 10. Shantabai Pundalik Patil
				41	41	Private	Agriculture	700 Suresh Baliram Paul
				40	40	Private	Agriculture	600 1. Sudhir Anant Patil 2. Manisha Anil Zope 3. Sharada Nilesh Patil 4. Nirmala Anant Patil
				39/1	39/1	Private	Agriculture	400 1. Ramchandra Hari Patil 2. Banding Boja
				1048	1048	Private	Agriculture	1300 1. Sudhir Dnyandeo Ingale 2. Pradip Dnyandeo Ingale
				1049	1049	Private	Agriculture	1600 1. Balwant Pundalik Chaudhari 2. Upendra Pundalik Chaudhari 3. Arun Ramesh Chaudhari 4. Prashant Ramesh Chaudhari 5. Anil Vasant Chaudhari 6. Rajendra Vasant Chaudhari 7. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				1047	1047	Private	Agriculture	1100 1. Rajesh Nivrutti Shinde 2. Vishal Nivrutti Shinde
				1046	1046	Private	Agriculture	1164 1. Vijaykumar Sitaram Chaudhari 2. Pramod Sitaram Chaudhari 3. Laxman Kacharu Chaudhari 4. Ekanath Kacharu Chaudhari 5. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1050	1050	Private	Agriculture	3400	1. Chandrakant Dnyandeo Patil 2. Dnyandeo Kautik Pachpande
				1054	1054	Private	Agriculture	1782	1. Minakshi Rajendra Patil 2. Rajashri Sanjay Patil 3. Anant Hari Patil
				1037	1037	Private	Agriculture	600	1. Anant Hari Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				1052	1052	Private	Agriculture	226	1. Ananda Tukaram Patil 2. Sonu Tukaram Patil 3. Kamalbai Tukaram Patil 4. Prabhavati Shivaram Chopade 5. Pushapabai Ekanath Patil
				1055 1055 Peki	1055 1055 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	1134	1. Charulata Sushil Patil 2. Govt. of India
				1053	1053	Private	Agriculture	300	1. Sushil Premchand Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				1029	1029	Private	Agriculture	1084	1. Dhondu Kalu Zope 2. Asif Bismilla Bagawan 3. Vijay Bhagawan Patil 4. Subhash Bagawan Patil 5. Yogesh Gangadhar Joshi 6. Rajesh Gangadhar Joshi
				1030	1030	Private	Agriculture	700	1. Gopal Dodhu Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				1032/1	1032/1	Private	Agriculture	900	1. Anil Shankar Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				1032/2	1032/2	Private	Agriculture	900	1. Subhash Shankar Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				1032/3	1032/3	Private	Agriculture	1000	1. Krishna Shankar Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				1032/4	1032/4	Private	Agriculture	486	1. Pandharinath Shankar Patil 2. Shri Sai Mandir Pratishthan Talwel Vidyaman Chairman Pandharinath Shankar Patil
				1031	1031	Private	Agriculture	1900	1. Balkrishna Ninu Patil 2. Sunil Ninu Patil
				1038	1038	Private	Agriculture	1489	1. Dhruv Narayan Patil 2. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
			(5) Varangam	519/1	519/1	Private	Agriculture	6140	1. Sandip Rajaram Sarode
				520	520	Private	Agriculture	2475	Naththu Sitaram Patil
				521	521	Private	Agriculture	5993	1. Nivrutti Namdeo Bunde 2. Varangam Vivid Karyakari Seva Sahakari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				527	527	Private	Agriculture	1018	1. Dnyandeo Namdeo Bonde 2. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				522	522	Private	Agriculture	1906	1. Shantaram Keshav Mali 2. Baliram Keshav Mali 3. Tukaram Keshav Mali 4. Lokkalyan A. Co. Op. Cre. Soc. Varangaon 5. Navin Avibhajya Shart 6. Niyatrit Satta Prakar
				523	523	Private	Agriculture	766	1. Prakash Supadu Dhangar 2. Suresh Supadu Dhangar 3. Saraswatabai Pandit Pachpol 4. Pramila Supadu Dhangar 5. Nirmala Vinod Dhanake 6. Anusayabai Supadu Dhangar
				471	471	Private	Agriculture	5028	1. Mansaram Naba Bhoi 2. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				475	475	Private	Agriculture	10727	1. Kisan Ramu Patil 2. Ekanath Namdeo Patil 3. Muralidhar Namdeo Patil 4. Pralhad Namdeo Patil 5. Janardan Namdeo Patil 6. Manohar Namdeo Patil 7. Sindhu Yashawant Patil
				474	474	Private	Agriculture	1934	1. Ganesh Prabhakar Naik 2. Mohiniraj Prabhakar Naik 3. Anant Prabhakar Naik 4. Asha Sharad Patave 5. Chhaya Subhash Pandit 6. Kanchan Jagadish Dixit
				478	478	Private	Agriculture	2461	1. Barasu Nago Bhangale 2. Lokkalyan A. Co. Op. Cre. Soc. Varangaon 3. S. M. S. C. H. Badhesir A. Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Varangaon 4. Ku. Ka. K. 64 Virudha Bekeyadeshir Kabja
				424	424	Private	Agriculture	2158	1. Barasu Nago Bhangale 2. Lokkalyan A. Co. Op. Cre. Soc. Varangaon
				423	423	Private	Agriculture	11837	1. Kashinath Dayaram Patil 2. Dattu Govinda Mali 3. Narayan Dattu Mali 4. Rajendra Dattu Mali 5. Bapu Dattu Mali 6. Kailas Dattu Mali 7. Lokesh Urif Ankit chandrakant Jawale A Pa.K. Aai Nilima Chandrakant Jawale 8. Prun. Krishi. Saha. P. S. Varangaon
				421 A	421 A	Private	Agriculture	2528	1. Pundalik Kalu Mali 2. Hari Kalu Mali 3. Hiraman Kalu Mali 4. Jagannath Raghunath Mali 5. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari 6. Navin Avibhajya Shart 7. Ku. Ka. K. 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				431	431	Private	Agriculture	154
								1. Prabhakar Dhondur Mali 2. Manorama Sudhakar Mali 3. Mahendra Sudhakar Mali 4. Sandip Sudhakar Mali 5. Varsha Sudhakar Mali No. 3 to 5 A. Pa. K. Aai Manorama 6. Sanjay Madhukar Mali 7. Mahendra Madhukar Mali 8. Rajana Madhukar Mali 9. Vijay Devidas Mali 10. Rajendra Devidas Mali 11. Kailas Devidas Mali 12. Archana Ishwar Mali 13. Subhadra Devidas Mali 14. Godawari Ramadas Gavhankar 15. Jayant Ramadas Gavhankar 16. Pradip Ramadas Gavhankar 17. Alka Chavadas Mahajan 18. Surekha Hemant Londhe 19. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				432	432	Private	Agriculture	297
								1. Tukaram Kisan Mali 2. Prabhakar Dhondur Mali 3. Manorama Sudhakar Mali 4. Mahendra Sudhakar Mali 5. Sandip Sudhakar Mali 6. Varsha Sudhakar Mali No. 3 to 5 A. Pa. K. Aai Manorama 7. Sanjay Madhukar Mali 8. Mahendra Madhukar Mali 9. Rajana Madhukar Mali 10. Vijay Devidas Mali 11. Rajendra Devidas Mali 12. Kailas Devidas Mali 13. Archana Ishwar Mali 14. Subhadra Devidas Mali 15. Godawari Ramadas Gavhankar 16. Jayant Ramadas Gavhankar 17. Pradip Ramadas Gavhankar 18. Alka Chavadas Mahajan 19. Surekha Hemant Londhe 20. Kasaba Damu 21. Tulasabai Narayan
				433	433	Private	Agriculture	494
								1. Kannalban Tukaram Mali 2. Kasaba Damu Mali 3. Tulasabai Narayan Chaudhari 4. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari 5. Dagadabai Kasa Mali 6. Shahu Dhondur Mali
				419	419	Private & Govt.	Agriculture	4558
								1. Sepan Bhiku Jawale 2. Nivrutti Bhiku Jawale 3. Kadu Balram Jawale 4. Dilip Balram Jawale 5. Shriam Bhagawan Bhargave 6. Mahesh Ramesh Waghode 7. Anant Govinda Chaudhari 8. Shantaram Balram Jawale 9. Govt. of Maharashtra
				420	420	Private	Agriculture	12240
								1. Narayan Nivrutti Padi 2. Shaligram Nivrutti Padi 3. Madhukar Nivrutti Padi 4. Talwel Daryapur Group Vivid Karyakari Seva Sahakari
				412	412	Private	Agriculture	3727
								1. Giradhar Bhagawan Zope 2. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				413	413	Private	Agriculture	2421
								1. Vasudeo Bhagawan Zope 2. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				414	414	Private	Agriculture	2914	1. Ramkrishna Bhagawan Zope 2. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				20/1	20/1	Private	Agriculture	8000	Prabhakar Vinayak Chaudhari
				20/2	20/2	Private	Agriculture	7500	Alka Prabhakar Chaudhari
				185/2	185/2	Private	Agriculture	6028	1. Rahul Jagadish Chaudhari 2. State Bank of India Branch O. F. Varangaon
				68	68	Private	Agriculture	4000	1. Sunil Pralhad Zope 2. Anil Pralhad Zope 3. Pratibha Vajjanath Chaudhari 4. Sulochana Pralhad Zope 5. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				69	69	Private	Agriculture	2875	1. Ramkrishna Shivaram Kolate 2. Gangadhar Supadu Kolate 3. Suresh Supadu Kolate 4. Pramod Supadu Kolate 5. Sanjiv Supadu Kolate 6. Laxmibai Supadu Kolate 7. Dilip Babu Kolate 8. Sudhakar Babu Kolate 9. Janardhan Babu Kolate 10. Sangita Subhash Kolate 11. Rupesh Subhash Kolate 12. Shubham Subhash Kolate 13. Amruta Subhash Kolate 14. Hemalata Subhas Kolate 15. No. 11 to 14 A: Pa. K: Sangita Subhash Kolate
				70	70	Private	Agriculture	2800	1. Bhikabai Tryambak Mali 2. Subhash Tryambak Mali 3. Suresh Tryambak Mali 4. Ramesh Tryambak Mali 5. Ganesh Tryambak Mali 6. Shakuntala Dattatraya Patil 7. Nikita Muralidhar Mali
				886	886	Private	Agriculture	1096	Ramkrishna Shivaram Kolate
				74	74	Private	Agriculture	4100	1. Naththu Bhiku Zope 2. Sitabai Bhiku Zope 3. Sachin Vinayak Zope 4. Rahul Vinayak Zope 5. Paumima Vinayak Zope 6. Shobha Vinayak Zope 7. Prakash Natu Zope 8. Madhukar Natu Zope 9. Ramesh Natu Zope 10. Vilas Natu Zope 11. Sulochana Pralhad Zope 12. Pratibha Vajjanath Chaudhari 13. Sunil Pralhad Zope 14. Anil Pralhad Zope 15. Sugandha Prabhakar Patil 16. Kamal Madhukar Bhaogale 17. Vimal Parashuram Patil 18. Malati Liladhar Patil 19. Gayabai Natu Zope 20. Tulasabai Sadashiv Patil 21. Induhai Ananda Patil 22. Kesharbai Rupchand Ohole 23. Kasturabai Jagannath Bendale 24. S.M.S.C.H. Badhesir A. Co. Op. Cre. Soc. Varangaon
				71	71	Private	Agriculture	2700	1. Rambhau Barasu Zope 2. Pushpa Barasu Zope 3. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari 4. Navin Avihajya Shant Nivanta Natu Prakar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				72	72	Private	Agriculture	200	1. Ramadas Tukaram Shet 2. Gopalrao Nilkanthrao Deshmukh 3. Sitaram Tukaram
				73	73	Private	Agriculture	4200	1. Vilas Natu Zope 2. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				75	75	Private	Agriculture	2857	1. Ashishkumar Prabhakar Chaudhari 2. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				107	107	Private	Agriculture	6800	1. Rahul Jagadish Chaudhari 2. Shobha Jagadish Chaudhari 3. Pankaj Manohar Chaudhari 4. State Bank of India Branch O. F. Varangaon
				103	103	Private	Agriculture	1500	1. Haralal Mulaji Patel 2. Asha Shaligram Zope 3. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				102	102	Private	Agriculture	2252	1. Hemant Prataprao Deshmukh 2. Girendra Prataprao Deshmukh 3. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari 4. Navin Avibhaya Shari
				104	104	Private	Agriculture	1106	1. Kalu Shenfadu Nhavi 2. Santosh Ramadas Nhavi 3. Sandip Ramadas Nhavi 4. Suman Ramadas Nhavi 5. Pandit Ganapat Nhavi 6. Kamalbai Umakant Warulkar 7. Malatibai Rajaram Nhavi 8. Sachin Rajaram Nhavi 9. Kalpana Rajendra Manekare
				98	98	Private	Agriculture	13800	1. Pandit Ramrao Deshmukh 2. Navin Avibhaya Shari 3. Lis of Pendensi Bhusawal Court
				97	97	Private	Agriculture	4696	Prakash Chandrasen Chaudhari
		(6) Jalgaon		117	117	Private	Agriculture	2523	1. Narayan Ramu Lone 2. Fulgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				116.1 116.2 116.3	116.1 116.2 116.3	Private & Govt.	Agriculture	1668	1. Kalidas Dinkar Chaudhari 2. Bhanudas Dinkar Chaudhari 3. Mandakim Manohar Kurkure 4. Sunanda Ashok Nale 5. Girajabai Dinkar Chaudhari 6. Madhar Pandurang Patil 7. Varangaon Vivid Karyakari Seva Sahakari 8. Govt. of India 9. Varangaon Project Fulgaon Canol
				114	114	Private	Agriculture	1221	1. Madhavrao Yashawant Patil 2. Vijay Yashawant Patil
				110	110	Private	Agriculture	1406	Chandrakant Bandu Patil
				109.1 109.2	109.1 109.2	Private	Agriculture	2141	1. Dr. Shaligram Tukaram Patil 2. Sakharan Dandu Bodade 3. Jalgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari
				108	108	Private	Agriculture	1560	1. Jitendra Tryambak Zope 2. Prashant Tryambak Zope 3. Shikantala Tryambak Zope

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				107	107	Private	Agriculture	1820
								1. Tryambak Rupa Bhirud 2. Vasudeo Rupa Bhirud 3. Ravindra Rupa Bhirud 4. Vasant Rupa Bhirud 5. Manoj Dnyandeo Bhirud 6. Ujwala Ravindra Patil 7. Shubhangi Kheiraj Rane 8. Lina Gajanan Mahajan 9. Shalini Dnyandeo Bhirud 10. Sushila Padamakar Firake 11. Vatsala Jagannath Chirmade 12. Pratibha Gajanan Chaudhari 13. Fekari Vivid Karyakari Seva Sahakari
				106	106	Private	Agriculture	3322
								1. Tryambak Rupa Bhirud 2. Vasudeo Rupa Bhirud 3. Ravindra Rupa Bhirud 4. Vasant Rupa Bhirud 5. Manoj Dnyandeo Bhirud 6. Ujwala Ravindra Patil 7. Shubhangi Kheiraj Rane 8. Lina Gajanan Mahajan 9. Shalini Dnyandeo Bhirud 10. Sushila Padamakar Firake 11. Vatsala Jagannath Chirmade 12. Pratibha Gajanan Chaudhari 13. Fekari Vivid Karyakari Seva Sahakari
				86	86	Private	Agriculture	2322
								1. Shantaram Chavadas Koli 2. Yuvaraj Chavadas Koli 3. Gangubai Chavadas Koli 4. Nimba Dhudaku Koli 5. Bhagawan Dhudaku Koli 6. Parvatabai Ramesh Koli 7. Nababai Prabhakar Koli 8. Sumitra Ukhadu Koli 9. Balu Baraku Koli 10. Kalpana Gunawani Koli 11. Ananda Suka Koli 12. Prabhakar Suka Koli 13. Janardan Suka Koli 14. Gokul Suka Koli 15. Kamalabai Bhikari Koli 16. Vimalabai Parashuram Koli 17. Chhaya Ukha Koli 18. Harjyotsing Sohanasing Anand 19. Suresh Dagadu Koli 20. Chandrakant Dagadu Koli 21. Prakash Dagadu Koli 22. Narayan Dagadu Koli 23. Ashabai Vilas Koli 24. Usha Nandoo Koli 25. Dwarakabai Dagadu Koli  26. Gitabai Pundalik Koli 27. Kadrabai Laxman Koli 28. Marabai Ashok Koli 29. Tarabai Ashok Koli 30. Jadgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari 31. Navin Avibhajya Shurt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				85/1 A 85/1 B+2	85/1 A - 85/1 B+2	Private	Agriculture	3226	1. Ashok Ganapat Koli 2. Sukalal Ganapat Koli 3. Vandana Ganapat Koli 4. A. Ku. K. Pandurang Jangalu Sonawane 5. Nirmala Gokul Nishankar 6. Vasant Chindhu Sonawane 7. Prabhakar Chindhu Sonawane 8. Kadu Chindhu Sonawane 9. Balu Chindhu Sonawane 10. Sumanbai Shantaram Tayade 11. Indubai Kisan Koli 12. Yashodabai Chindhu Sonawane 13. Chewabai Laxman Koli 14. Sushama Narendra Patil 15. Sulochana Dalu Mahajan 16. Jayant Dalu Mahajan 17. Afaka Ekanath Mahajan 18. Vidya Digambar Talele 19. Navin Avibhajya Shart
				84	84	Private	Agriculture	3620	1. Chinaman Bandu Koli 2. Gopal Bandu Koli 3. Sarabai Bandu Koli A. Pa. K. Aai Jaibai 4. Jaibai Bandu Koli 5. Shantaram Chavadas Koli 6. Yuvraj Chavadas Koli 7. Gangubai Chavadas Koli 8. Nimba Dhudaku Koli 9. Bhagawan Dhudaku Koli 10. Parvatibai Ramesh Koli 11. Nababai Prabhakar Koli 12. Sumitra Ukhadu Koli 13. Balu Baraku Koli 14. Kalpana Gunawant Koli 15. Ananda Suka Koli 16. Prabhakar Suka Koli 17. Janardan Suka Koli 18. Gokul Suka Koli 19. Kamalabai Bhikari Koli 20. Vinayabai Parashuram Koli  21. Chhaya Ukha Koli 22. Suresh Dagadu Koli 23. Chandrakant Dagadu Koli 24. Prakash Dagadu Koli 25. Narayan Dagadu Koli 26. Ashabai Vilas Koli 27. Ushabai Namdeo Koli 28. Dwarakabai Dagadu Koli 29. Chandrakant Dagadu Koli 30. Vatsalabai Mansaram Koli 31. Sushilabai Ramchandra Koli 32. Gitabai Pundalik Koli 33. Kadrabai Laxman Koli 34. Marabai Ashok Koli 35. Tarabai Ashok Koli 36. Jaggon Vivid: Karyakari Seva Sahakari 37. Navin Avibhajya Shart
				81	81	Private	Agriculture	1685	1. Kishor Kotilal Patel 2. Vasant Shivadasbhai Patel 3. Navin Avibhajya Shart
				80	80	Private	Agriculture	1682	Bhaskar Gangaram Zope

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				77	Private	Agriculture	4505	1. A. Ku K. Laxminbai Pandit Kurkure 2. Pundalik Shrawan Kurkure 3. Yashodabai Pandit Patil 4. Atulind Pandit Kurkure 5. Jyoti Pandit Kurkure 6. Sumita Pandit Kurkure 7. Babita Pandit Kurkure 8. Anita Pandit Kurkure 9. Fulgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari	
			(7) Fulgaon	9 Peki 9 Peki	9 Peki 9 Peki	Govt.	Agriculture & Non Agriculture	5925	1. Navin Gavthan Vadhikade Govt. 2. Ravjingsmen on Kithi Side Govt.
				32 Peki 32 Peki	32 Peki	Private & Govt.	Non Agriculture	1196	Gavthan
					32 Peki	Govt.	Non Agriculture	1782	Govt. of India Railway
				34/3	34/3	Govt.	Non Agriculture	380	Govt. Grampanchayat Fulgaon
				68/1	68/1	Private	Agriculture	297	1. Sanjay Manohar Zope 2. Rahul Manohar Zope
				68/2	68/2	Private	Agriculture	585	Ganesh Jayprakash Baidawa
				68/3	68/3	Private	Agriculture	585	1. Laxminbai Pandit Kurkure 2. Milind Pandit Kurkure 3. Jyoti Pandit Kurkure 4. Sumita Pandit Kurkure 5. Babita Pandit Kurkure 6. Anita Pandit Kurkure
				70	70	Private	Agriculture	765	1. Harishchandra Sakharan Deshmukh 2. State Bank of India Branch O. F. Varangaon
				73	73	Private	Agriculture	1147	Sai. Muntaj Sai. Ahamad
				75	75	Private	Agriculture	1214	1. Mirabai Narayan Badage 2. Navin Avibhajya Shari 3. Velhale Talav Boja
				76	76	Private	Agriculture	1268	Arun Ghanashyam Patil A. Ku K.
				77	77	Private	Agriculture	1350	Arun Ghanashyam Patil A. Ku K.
				78	78	Private	Agriculture	1996	Arun Ghanashyam Patil A. Ku K.
				114	114	Private	Agriculture	1977	1. Sudhir Ramesh Saxena 2. Sani Sudhir Saxena 3. Sonal Sudhir Saxena
				115	115	Private	Agriculture	1541	1. Dipak Sopan Mahajan 2. State Bank of India Branch O. F. Varangaon
				116 Peki	116 Peki	Private	Agriculture	3223	1. Muralidhar Kitkul Patil 2. Ramesh Kitkul Patil 3. Suresh Kitkul Patil 4. Ravindra Kitkul Patil
				176/1	176/1	Private	Agriculture	255	1. Sunita Pravin Mahajan 2. Pravin Narayan Mahajan
				176/2	176/2	Private	Agriculture	5334	1. Malatibai Nemichand Agrawal 2. Shailesh Sureshchandra Surana 3. Rajesh Rameshchandra Kakani
				176/3	176/3	Private	Agriculture	324	1. Sanjay Nemichand Agrawal 2. Ajay Nemichand Agrawal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				175	175	Private	Agriculture	1490	1. Ashok Bhaskar Fegade 2. Sakari Vivid Karyakari Seva Sahakari
				174	174	Private	Agriculture	5122	1. Prabhakar Ekanath Chaudhari 2. M. Hotel Royalin Jagarala Shueb Abdulla 3. Rahimbhai Sabjiali Marediya 4. Karimbhai Nathhubhai Prasala
				173	173	Private	Agriculture	637	1. Sanjay Purushottam Chaudhan 2. Fulgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari 3. Central Bank of India Branch Varangaon
				172/1	172/1	Govt.	Non Agriculture	1444	Govt. of Maharashtra
				172/2	172/2	Private	Non Agriculture	6318	Deepnagar Zopadpatikade
				6	6	Private	Agriculture	5328	1. Arjun Tryambak Zope 2. Fulgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				7/1.	7/1.	Private	Non Agriculture	50	1. Padamabai Barasu Patil 2. Others 3. Govt.
				7/2.	7/2	Private	Non Agriculture	362	1. Sumil Vishwanath Patil 2. Others 3. Govt.
				5	5	Private	Agriculture	168	1. Kashinath Tukadu Kumbhar 2. Ekanath Tukadu Kumbhar 3. Arun Ekanath Kumbhar
				4	4	Private	Agriculture	733	1. Harajyotsing Sohansing Anand 2. United Western Bank Branch Dhusawal
				8/1.	8/1.	Private	Non Agriculture	7188	1. Yashodabai Ramchandra Mahajan 2. Vilas Ramchandra Mahajan 3. Subhash Bhalchandra Mahajan 4. Ramesh Bhalchandra Mahajan 5. Chandrakant Bhalchandra Mahajan 6. Dattatraya Bhalchandra Mahajan 7. Govt. (Service Road + Open Space) 8. Others
				8/2.	8/2.	Private	Agriculture	5191	1. Subhash Tryambak Zambare 2. Usha Janardan Bhirud 3. Kamal Suresh Zope 4. Kunda Laxman Chaudhari 5. Rajani Vasudeo Jawale 6. Others 7. Govt.
				8/3. 8/4	8/3 8/4	Private	Agriculture	4896	Sohansing Fattasing Anand
				72	72	Private	Agriculture	1287	Pandurang Rambha Patil
				39/2/2 B 39/1 39/2 A	39/2 B Peki	Private	Agriculture	315	1. Kamal Chandrakant Kurkure 2. Fulgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
		(8) Pimpri Sekam		212/2 212/3/1 212/1	212/1/1 212/1/2	Private	Agriculture & Non Agriculture	2386	1. Chandrakant Dagadu Sonawane 2. Kalidas Kashinath Patil 3. Suresh Vitthal Gare 4. Dilip Vitthal Gare 5. Vinod Bhaskar Chaudhar 6. Rameshchandra Umedilal Agrawal 7. Shivkumar Bhagawandas Agrawal 8. Sureshchandra Kallaram Agrawal 9. Sureshchandra Umedilal Agrawal 10. Shamsunder Umedilal Agrawal 11. Others 12. Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				212/2 Peki	Private	Non Agriculture	1004	1. Mina Sanjay Agrawal 2. Neha Ajay Agrawal 3. Others 4. Govt.
				213	213	Private	Non Agriculture	2542 1. M. S. F. Amreliwala & Sons Sham Femroj Amreliwala 2. Kapurchand Kotech A. Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Bhusawal
				221/1/1 221/3 221/2 221/1/2	221/1/1	Private	Agriculture	665 Kishor Ravindra Zope
				214	214	Private	Agriculture	1773 Ashalata Balkrishna Barhate
				215	215	Private	Agriculture	1455 1. Raman Devidas Bhole 2. Pravin Devidas Bhole
				216	216	Private	Agriculture	1910 Md. Idns Md. Mekan
				217 217 Peki	217	Private	Agriculture & Non Agriculture	2879 1. Asalam Shabbir Shaikh 2. Altaf Shabbir Shaikh
				223	223	Private & Govt.	Agriculture	901 1. Chief Executive Engineer (N.V.S.) M.S.E.N. Com. 1 x 660 M.W. Badali Sanch Deepnagar, Bhusawal 2. Fulgaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				224	224	Private	Agriculture	826 Chief Executive Engineer (N.V.S.) M.S.E.N. Com. 1 x 660 M.W. Badali Sanch Deepnagar, Bhusawal
				225	225	Private	Agriculture	2275 1. Chief Executive Engineer (N.V.S.) M.S.E.N. Com. 1 x 660 M.W. Badali Sanch Deepnagar, Bhusawal 2. Fekari Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Jamin Ripitar Station
				226	226	Private	Agriculture	241 Chief Executive Engineer (N.V.S.) M.S.E.N. Com. 1 x 660 M.W. Badali Sanch Deepnagar, Bhusawal
			(9) Sakari	85	85	Private	Agriculture	352 1. Tushar Madankumar Joshi 2. Namdeo Ramadas Marc 3. Prabhakar Baburao Sonawane 4. Ujjwala vishwanath Kapade
				84 84 Peki	84 Peki	Private	Agriculture	2161 1. Dr. Gajanan Tikaram Mahajan 2. Raghunath Kisan Sarode
				83	83	Private	Agriculture	6254 1. Bhagawat Barasu Barhate 2. Ramesh Barasu Barhate
				76/1	76/1	Private	Agriculture	1771 Krishna Dharma Bhirud
				76/2	76/2	Private	Agriculture	1925 1. Ganesh Avinash Bhirud 2. Anant Avinash Bhirud 3. Sandhya Ghanashyam Narkhede 4. Anita Pramod Patil 5. Anusayabai Avinash Bhirud
				75/1 75/2	75/1 75/2	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	4000 1. A. Ku.K. Dilip Baliram Barhate 2. Sunil Jagadeo Barhate 3. Pravin Jagadeo Barhate 4. Shashikala Sukadea Zope 5. Usha Kadu Rane 6. Tulasabai Jagadeo Barhate 7. Pushpa Narayan Mahajan 8. S. M. S. C. H. Badhesir A. Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Varangan Branch Fekari 9. M. S. E. Nirmiti company Mar. Deepnagar
			(10) Nimbhore Bk.	77/1 Plot No. 1, 2	77/1 Plot No. 1 & 2	Private	Non Agriculture	1487 Arun Ghanashyam Patil
				78/1 Plot No. 1,2,3	78/1 Plot No. 1,2,3	Private	Non Agriculture	1243 1. Bhagawat Rama Barhate 2. Sanioshimata M. Co. Op. Crr. Soc. Bhusawal
				79 Plot No. 1, 26+27	79 Plot No. 1, 26+27	Private	Non Agriculture	546 1. Ashok Baburao Chavhan 2. Prakash Baburao Chavhan 3. Sushilkumar Nahata A. Co Op. Bank Branch Bhusawal 4. Sale Tax Inspector Class I C Jalgaon 5. Prabhakar Baburao Sonawane

4266 GI/12-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				82	82/1	Private	Agriculture	349	1. Rajiyabi Jo. Shirinali Jafari 2. Niyajali Sikandarali Saiyyed 3. Dharma Rajaram Mahajan 4. Kishor Ravindra Zope 5. Pradip Ravindra Zope 6. Rafikkha Hasankha Pathan
					82/2	Private	Non Agriculture	175	Maharashtra Rajya Vidyut Nirmiti Company Mar. Deepnagar
				84	84	Private	Agriculture	1184	1. Chamelibai Budho Wagh 2. Amol Budho Wagh 3. Seema Narendra Bavskar 4. Kavita Vijay Johare 5. Madhuri Prashant Nikam 6. Amrapali Nilesh Bhalerao 7. Shantabai Ratan Wagh 8. Suresh Ratan Wagh 9. Rahul Ratan Wagh 10. Anil Ratan Wagh 11. Sujata Jeikumar Nikam 12. Shevantabai Asaram Surwade 13. Jijabai Sudhakar Salunke
				57	57	Private & Govt.	Agriculture	2188	1. Navin Gavhankade 2. Govt.
					57 Peki	Private	Non Agriculture	2854	Maharashtra Rajya Vidyut Nirmiti Company Mar. Deepnagar
				56 to 59	56/2 to 59	Govt.	Non Agriculture	134	Govt. Navin Gavhankade
					56/1	Govt.	Non Agriculture	144	1. Maharashtra Rajya Vidyut Nirmiti Company Mar. Deepnagar 2. Govt.
				48	48	Private	Agriculture	162	1. Satish Pitambar Patil 2. Dilip Pitambar Patil
				18	18	Private & Govt.	Agriculture & Highway	413	1. Muralidhar Soma Fegade 2. Subhash Soma Fegade 3. Chandrakant Soma Fegade 4. Executive Engineer National Highway
				19	19	Private & Govt.	Agriculture & Highway	210	1. Vishnu Jagannath Fegade 2. Executive Engineer National Highway
				20	20	Private & Govt.	Agriculture & Highway	15	1. Kishor Naideo Patil 2. Supriya Kishor Patil 3. Vikas Naideo Patil 4. Jayashri Vikas Patil 5. Sakari Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 6. Executive Engineer National Highway
				50	50	Private	Agriculture	801	Nareshkumar Gulabray Nara
				53	53	Private & Govt.	Non Agriculture	654	1. Dipchand Kashiram Bhirud 2. Others 3. Govt.
				55/1	55/1	Private & Govt.	Non Agriculture	446	1. Kisan Vithoba Fegade 2. Chhagan Harchand Bhirud 3. Nalini Siraram Wani 4. Others 5. Govt.
				17	17	Private & Govt.	Agriculture & Highway	733	1. Vishnu Bhadu Bhirud 2. Fekari Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 3. Govt.
				46	46	Private	Agriculture	700	1. Yashodabai Avasu Bhirud 2. Asaram Avasu Bhirud 3. Ashok Avasu Bhirud 4. Vandana Kisan Dhake
				42	42	Private & Govt.	Agriculture & Highway	197	1. Premchand Dhana Barhate 2. National High No. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				43	43	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	656	1. Dilip Balram Barhate 2. Mukunda Balram Barhate 3. Sanjay Balram Barhate 4. Pashpa Narayan Mahajan 5. Surekha Ravindra Pachpande 6. Kesharbai Balram Barhate 7. Narayan Vishnu Barhate 8. Govt.
				44	44	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	357	1. Narayan Vishnu Barhate 2. Govt.
				45	45	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	698	1. Dilip Pansubar Patil 2. Satish Pansubar Patil 3. Govt.
			(11) Fekari	14/1A 14/1B 14/1C 14/2B 14/3A 14/3B 14/4	14/1A 14/1B 14/2B 14/3A 14/3B	Private	Agriculture	826 350 569 329 338	Balram Reva Kavathe 1. Vilas Dayaram Kavathe 2. Suresh Dayaram Kavathe 1. Madhukar Kashiram Kavathe 2. Kandu Vishnu Kavathe 1. Kamalakar Dethu Kavath 2. Fekari Vivid Karyakari Seva Sahakari Society 1. Arun Gopal Kavathe 2. Sanjay Gopal Kavathe 3. Raju Gopal Kavathe 4. Khan Govinda Kavathe 5. Rambhabei Gopal Kavathe
				18/1 18/4 18/1B 18/2	18/4	Private	Agriculture	1248	Bapu Takara Barhate
				22/1	22/1	Private	Agriculture	1000	1. Vijay Hari Bhurud 2. Shobha Nimruti Patil 3. Sunanda Vasudeo Patil 4. Laxmibai Hari Bhurud
				22/2	22/2	Private	Agriculture	259	1. Ashak Motiram Honda 2. Fekari Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				31/1 31/2A 31/3B 31/3A 31/1/2	31/2	Private	Non Agriculture	180	1. Shivram Pundalik Barhate 2. Hemant Ekanath Barhate A Po K. Tulashree Ekanath Barhate 3. Narayan Rama Barhate A. Ku. K. 4. Narendra Pundalik Barhate 5. Ashok Ninu Barhate 6. Fekari Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				29/1 29/2A 29/2B 29/2C 29/3 29/4 29/5+6 29/9 29/10	29/1 29/2A 29/3+4 29/5+6	Private Private	Agriculture Agriculture	337 200	Sanju Kautik Bhaskar 1. Rambhabei Bhaskar Ingale 2. Pramod Bhaskar Ingale 3. Chandrakant Bhaskar Ingale 4. Ganesh Bhaskar Ingale
				29/3 29/4 29/5+6 29/9 29/10	29/3+4	Private	Agriculture	497	1. Krishna Laxman Nemade 2. Sunita Nilesh Dargad 3. Nilesh Bhavarlal Dargad 4. Union Bank of India Branch Dhusawal
				29/5+6	29/5+6	Private	Agriculture	72	Jankiran Pundalik Barhate
				37/1 E 37/2 Peki	37/1 E 37/2	Private Private	Agriculture Agriculture	738 900	Devchand Girdhar Nemade 1. Liladhar Nadar Chopade 2. Varnan Laxman Chaudhari 3. Vijaysing Anandrao Shinde 4. Prabhakar Ekanath Chaudhari
			(12) Khedke	17	17/2/1 17/2/2	Private	Agriculture	59	Nayana Jaykisan Takewani

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17/1 A Plot No. 1	Private	Agriculture		1. Laxman Tikaram Patil 2. Bhagirathi Kitkul Patil 3. Shantabai Baliram Patil 4. Devchand Kitkul Patil 5. Laxman Kitkul Patil 6. Amrut Kitkul Patil 7. Vasudeo Kitkul Patil 8. Shantaram Hari Neve
				17/1 A Plot No. 3	Private	Agriculture		1. Shaikh Salim Shaikh Kasam 2. Shaikha Abdul Sabir Mohammad Idris 3. Ashik Gulam Dastgir Kureshi
				17/1 A Plot No. 7	Private	Agriculture		1. Aslam Haji Ismail 2. Adil Rusi Kavina 3. Yasmin Adil Kavina 4. Alimunnisa Shaikh Salim 5. Dattatraya Bhagawan Mali 6. Shaikh Abdulla Shaikh Rauf 7. Gurucharansinha Baldevsinha Palha 8. Sikandarkhan Ismailkhan 9. Shaikh Ashafak Shaikh Chirag
				17/1 A Plot No. 10	Private	Agriculture		Ajaka Anant Patil
				17/1 A Plot No. 12	Private	Agriculture		1. Md. Zubin Md. Nisar Kureshi 2. Md. Amin Md. Nisar Kureshi 3. Shakil Mohasinkhan 4. The Akola A. Co. Op. Bank Ltd. Akola Branch Nashik
				17/1 A Plot No. 13	Private	Agriculture		1. Ajidullakhan Sakhaullakhan 2. Hamidullakhan Sakhaullakhan
				17/1 A Plot No. 14	Private	Agriculture		1. Dr. Shaligram Dattatray Patil 2. Madhubala Shaligram Patil 3. Md. Nasir Abubakar 4. Guruprising Kartarsing Bal 5. Sunil Pralhad Nagarani 6. Md. Islam Gularasul Ansari 7. baljitsing Kartarsing Bal
				17/3/4 Plot No. 1, Service Road+Open Space	Private	Agriculture		1. Hasinabi Shaikh Ahmad 2. Shaikh Majid Shaikh Ahmad 3. Shaikh Hamid shaikh Ahmad 4. Shaikh Ajaj Shaikh Husen 5. Shaikh Hamid Shaikh Ahmad 6. Aminebi Shaikh Husen 7. Shaikh Abedabi Shaikh Kasam
			16	16/1 Plot No. 5	Private	Agriculture & Non Agriculture	129	Vina Govind Naik
				16/1 Plot No. 6				Sonam Rajeshkumar Zamanani
				16/1 Plot No. 7				1. Rajeshkumar Gopichand Zamanani 2. Satishkumar Gopichand Zamanani
				16/1 Plot No. 8				Ravikumar Gopichand Zamanani
				16/1 Plot No. 9				Sachal Ravikumar Zamanani
				16/1 Plot No. 10				Kashish Satishkumar Zamanani
				16/1 Plot No. Openspace+Service Road				1. Chindhu Tukaram Nemade 2. Hariram Surajmal Goyal
				16/1A/1 Peki Plot No. 1				1. Sushilabar Bridichand Agrawal 2. Minabai Rajendrakumar Agrawal 3. Shobhabai Narendrakumar Agrawal 4. Union Bank of India Branch Bhusawal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				16/1A/2 Peki Plot No. 12+5				1. Narendra Birdichand Agrawal 2. Manoj Shaligram Totala 3. Mohammad Sharif Shaikh Usman 4. Aftab Ahemadkhan Kamar Ajani 5. Manish Ramesh Nagarani 6. Mohammad Usman Mohammad Ibrahim 7. Sufiyan Sultan Memon 8. Yunus Khan Mukhtyakhan 9. Union Bank of India Branch Bhusawal
				16/1A/2	Private	Agriculture		1. Mujafarkha Majidkha 2. Ibrahim Malik Hashim Malik 3. Nasar Ali Shaikh Naim 4. Rabiya A. Rajjak 5. Suraiyabi Shaikh Salim 6. Shaikh Aslam Sherif Ansari 7. Sai. Sakrali Sai. Najirali 8. Sai. Ayesha Shaikh Bashir 9. Gulab Husen Shaikh Kadar 10. Shaikh Shani Gulab Husen 11. Shaikh Jakir Husen 12. Shaikh Nasir Shaikh Gulam 13. Shahina Parvin Md. Salim Kureshi 14. Khalid Rahat Mustafa 15. Sikandarkhan Ismailkhan 16. Vithal Rakhumai A. Co. Op. Crc. Soc. Ltd. Bhusawal 17. Central Bank of India Branch Bhusawal 18. A. Latif Rajmahammad 19. Rafik Rajmahammad  20. A. Rashid Rajmahammad 21. Annullakhan Yasin Khan 22. Prakash Santul Naik 23. Shaikh Mohammad Shaikh Muir 24. Shahina Parvin Mohammad 25. Gulam Dastagir Shaikh Yasin 26. Shaikh Shabbir Shaikh Yasin 27. Naushadbi Shaikh Shabbir 28. Raisabi Ayyubkhan 29. Sakegnon Gram. B. Sheti S. Ltd Sakegnon
				16/1A/1	Private	Agriculture		1. Sulemanshaha Sunbaushaha 2. A. Shakil A. Sattar 3. Khairunnisa Shaikh Raheman 4. Sayed Ashfaq Sayed Shaukat 5. Shaikh Umar Shaikh Murtuja 6. Md. Khalid Md. Shafi 7. Md. Sabir Md. Shafi 8. Sayed Ashfaq Sayed Shaukat 9. Smt. Isa Sai. Musa 10. Jamil Abdul Nabi Patel 11. Nisara - Sahabati Shah 12. Taher Dagadu Patel 13. Kureshi Nababulla Habibulla 14. Smt. Ajam Smt. Yusuf 15. Mahammad Rabi Gulabshah 16. Shabbirbi Sikandarkhan 17. Javid Abdul Razaqkhan 18. Sandabi Abdul Raza 19. Ranyabi Shaikh Mubin 20. Najamabi Haji Mohammad Alimad Ansari  21. Sharfabi Sai. Shaukat 22. Sabunkhan Majidkhan 23. Majidkhan Kalandarkhan 24. Hissabi Shaikh Rashid 25. Najamabi Shaikh Gaffar 26. Jankalvan A. Co. Op. Crc. Soc. Ltd. Bhusawal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(13) Sakegaon	292/1	292/1	Private Govt.	Non Agriculture	1429	1. Govt.(Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sakegaon)
				290	290	Private Govt.	Non Agriculture	500	1. Govt.(Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sakegaon)
				287/1A1	287/1A1	Private	Non Agriculture	500	1. Pundalik Ganapoti Barhate 2. Suman Pundalik Barhate 3. Rajani Vishnu Chaudhari
				284/1	284/1/1 284/1/2	Private	Agriculture	200	1. Arun Shankar Pachpande 2. Bhagawat Narayan Chaudhari
				239	239	Private	Agriculture	2400	1. Ananda Kautik Zambare 2. Sakegaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				283/1 A	283/1A	Private	Agriculture	250	1. Uttam Govinda Jangale 2. Sudhakar Govinda Jangale 3. Sanjay vasant Jangale 4. Suryakant Vasant Jangale 5. Devendra Chandrakant Jangale
				240/A 1	240/A 1	Private	Agriculture	300	1. Vasudeo Ananda Ingale 2. Asha Vasudeo Ingale 3. Sushilkumar Nahata A. Co. Op. Bank Ltd. Bhusawal
				241	241	Private	Agriculture	1200	1. Sudhakar Kisan Patil 2. Bharati Sudhakar Patil 3. Santosh Rindas Gujar
				282/1 A	282/1 A	Private	Agriculture	100	1. Narendra Kashinath Waghode 2. Sakegaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				242/1	242/1	Private	Agriculture	1100	1. Nandini Ashok Waghode 2. Parag Ashok Waghode 3. Hemangi Ashok Waghode 4. Sakegaon Vivid Karyakari Seva Sahakari Society
				274/A	274/A	Private	Non Agriculture	2460	1. Divakar Sadashiv Navgale 2. Pavan Vijay Navgale 3. Shubham Vijay Navgale A Pa. K. An Snehalata Vijay Navgale
				271/A2 Peki	271/A2 Peki	Govt.	Agriculture	4273	Govt.(Grampanchayat Sakegaon)
				92/1 92/1 Peki	92/1	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	2436	1. Vasudeo Ananda Waghode 2. Nilkanth Ananda Waghode 3. Mohan Ananda Waghode 4. Prakash & Bhaskar Ananda Waghode 5. Pramod Pratinchand Waghode 6. Vivek Pratinchand Waghode 7. Sunil Pratinchand Waghode 8. Anil Pratinchand Waghode 9. P. W. D. New Road Nagpur Road 10. Govt
				97/1 97/1Peki	97/1 Plot No. 1 & 2 & Other & National Highway S.M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Agriculture, Non Agriculture & Highway	2000	1. Kishorkumar Pramod Jayaswal 2. Anandkumar Pramod Jayaswal 3. Pramod Pratinchand Chaudhari 4. Shajit Abanind Mid. Musa Patel 5. P. W. D. Road 6. Sunil Dattatraya Patil 7. Satish Rameshwar Agrawal 8. Govt.
				342/1 342/2	342	Private & Govt.	Agriculture, Non Agriculture & Highway	400	1. Raman Devidas Bhole 2. Dr. Raghunath Ramu Pachpande 3. Bhavarlal Hiralal Jain 4. Sunil Bhavarlal Jain 5. Sanjay Bhavarlal Jain 6. Vijay Bhavarlal Jain 7. Ajay Bhavarlal Jain 8. Ramesh Bhavarlal Jain 9. P. W. D. Road 10. Pratinchand Bhavarlal Patil
				127 Peki	127 Peki	Govt.	Non Agriculture	2014	Govt. (Grampanchayat Sakegaon)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(14) Kandari	138	138/1 Plot No. 4 to 7 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	1166	1. Madhukar Devram Bhole 2. Sunil Jagannath Dhande 3. Dipak jagannath Dhande 4. Prashant Jagannath Dhande 5. Prakash Damu Sonawane 6. Nandu Ramchandra Koli 7. Ramesh Danatraya Dolare 8. Rekha Remsh Dolare 9. Bhimsing Fulchand Lodate 10. Khandusing Fulchand Pawar 11. Babulal Fulchand Lodate 12. Vinod Fulchand Pawar 13- Kiran Yashawant Ghalap 14 Other 15 Govt.
				139	139/1A Plot No. 1 to 4 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 139/1B+2A Plot No. 1 to 3 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 139/2B Plot No. 1 to 6 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	5577	1. Kalpana Mahesh Falak 2. Kiran Maheshdutt Tiwan 3. Bansital Suvalat Chardiya 4. Dnyandeve Rupa Bhinud 5. Bharat Meghaji Chheda 6. Rajaldas Athumal Sodhai 7. Jamanabai Ramchandra Chauvhan 8. Yashawant Ramchandra Chauvhan 9. Devidas Ramchandra Chauvhan 10. Dr. Gajanan Tikaram Mahajan 11. Nandlal Ramchandra Chauvhan 12. Hindi Seva Mandal Staff Co. Op. Cre. Sec. Mar. Bhusawal Chairman 13. Yashawant Chavadas Warake 14. Santosh Yashawant Warake 15. Ravindra Sudhakar Patil 16. Surendra Sudhakar Patil A.Pa.K. Aai Yashodabai Sudhakar Patil  17. Jayashri Vasantrao Kolate 18. Yashawant Ramohau Kolate 19. Aruna Prakash chaudhari 20. Shobhadevi Vinod Ghuraka 21. Vijay Suresh Patil 22. Sanjay Suresh Patil 23. The Bhusawal Peoples Co. Op Bank Bhusawal 24. Other 25. Govt.
				147	147/1+2A Plot No. 1, 15 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 147/2B+3A Plot No. 1 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 147/3 Plot No. 1 to 4 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 147/4B+5A+5B Plot No. 1, 2, 9 to 11 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private	Non Agriculture	5576	1. Shakun Rajesh Raka 2. Mirabai Degadu Chauthe 3. Rukhama Uttam Gawande 4. Yogesh Sukalal Pal 5. Mirabai Laxman Surwade 6. Sandip Digambar Tayade 7. Cherulata Barasu Bauskar 8. Sunil Raghunath Sonawane 9. Kirti Mrununjay Upadhyay 10. Ganesh Ashok Ambekar 11. Rekha Druvaraj Bai 12. Megha Bhimrao Gayakwad 13. Sidhdarth chandanan Tayade 14. Chetan Mrununjay Upadhyay 15. Ranjank Ashok Bhangale 16. Prabhakar Bhaskarrao Hivale 17. Pandit Degadu Bhole 18. Sangita Jayant Barhate 19. Dipakkumar Kakumal Athawani 20. Nirmaljisinha Jasapalainha Matharu 21. Manindarsinha Jasapalainha Matharu 22. Sanjay Govinda Chopade

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								23. Pratibha Laxman Lokhande 24. Gangubai Puna Patil 25. Anil Suryakant chaudhari 26. Ashraf Alvi 27. Ashapak Alvi 28. Lokkalyan Gramin B. She. S. P. S. Varangaon 29. M. Alvi Moiyoddin Kuti Haji 30. Pavan Kashinath Chavhan 31. Central Bank of India Branch Bhusawal 32. Govinda Motiram Patidar 33. Kumari Prasad Madhukar Naik A. Pa. K. Madhavi Madhukar Naik 34. Madhavi Madhukar Naik 35. Sandhya Sadashiv Patil 36. Others 37. Govt.	
				136	136/3/1 Plot No. 1 & 2 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 136/2/3 & Golani Complex & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	3239	1. Pravin Jayprakash Agrawal 2. Anisakhan Akabarkhan 3. Suresh Preinchand Patil 4. Kiran Preinchand Patil 5. Kishor Shankarlal Golani 6. Bank of Dadoda Branch Jalgaon 7. Asst. Comm. Incom Tax Circle Jalgaon 8. Others 9. Govt.
				135	135/1 Plot No. 1 to 3 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 135/2 Plot No. 1 to 3, 22, 23 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 135/3 Plot No. 21 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	2546	1. Sai. Shaukat Sai. Taher 2. Sai. Altaf Sai. Shaukat 3. Pritibala Navalkishor Mittal 4. Samadhan Keshav Gosavi 5. Suman Chudaman Tayade 6. Ekanath Bomatu Pane 7. Sumanbai Jagannath Bihade 8. Shashikant Jagannath Bihade 9. Rajesh Jagannath Bihade 10. Sandhya Dilip Ghodeswar 11. Sharada Avinash Bevaré 12. Kavita Manish Pandav 13. Mira Samsersing Ravat 14. Hira Ramvilas Vanna 15. Rajarani Raybahadursinha 16. Satyanarayan Raybahadursinha 17. Latabai Sharad Sonawane 18. Shiv Mohansing Mahavirsing 19. Nayan Shivnohansing 20. Sachin Kishor Kirtikar 21. Shushilkumar Nahata A. Co. Op. Bank Bhusawal 22. Others 23. Govt. *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				148	148//1/1+1/2 Plot No. 1,10,12,14,16, 18,20 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	664	1. Rajesh Pukharaj Raka 2. Bhupeshkumar Champatal Badnjar 3. Punjo Dalpat Patil 4. Pratibha Arun Patil 5. Shobhabai Rajaram Sapakale 6. Annadevi Maharajsing Jaras 7. Muralidhar Nahu Mali 8. Dureshchandra Jawahar Varma 9. Bhagawan Nahu Mali 10. Champatal Bhaatal Badnjar 11. Sunil Kado Bhatarao 12. Rajesh Ramekrishna Surwade 13. Maharajsing 14. State Bank of India Branch Bhosawal 15. Kamini Shan Borikar 16. Suresh Jivaram Tayade 17. Pramila Kailas Patil 18. Shan Sadashiv Borikar 19. others 20. Govt
				134	134/9& 10/1+2 Plot No. 12, 46 to 52 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	5262	1. Samarth Lizars & Restaurant Pra. Ltd. Vinayak Dhanraj Falak 2. Uko Bank Branch Bhosawal 3. Vaman Laxman Chaudhari 4. Ramjokhan Budharan Pardeshi 5. Sarala Suresh Kharche 6. Gokul Madhukar Falak 7. Rajesh Madhukar Bendale 8. Minakshi Rajesh Bendale 9. Others 10. Govt.
				133	133/1 Plot No. 1, 12 to 14, 30 to 33 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 133/2 Plot No. 1, 12 to 14 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	3329	1. Kasubai Chavadas Umale 2. Balu Kisan Baviskar 3. Rajesh Pukharaj Raka 4. Prabhakar Madhav Shirke 5. Muralidhar Ramdas More 6. Dilip Chindhu Nimbalkar 7. Suresh Shripat Kapadane 8. Rajesh Pukharaj Raka 9. Seema Botham 10. Bajarangbali Rankatap Tiwari 11. State Bank of India Branch O. F. Varangaon 12. Mohit Anil Chaudhari 13. Sujata Sidhdarth Taskhedakar 14. Ghevarechand Ghanasham Chaudhari 15. Prakash Bhanudas Bharambe 16. Kantabai Jagadish Agrawal 17. Mahesh Ramchandra Nehere 18. Atul Inodist Massi 19. Prakash Suresh Bansode 20. Anand Suresh Bansode 21. Nilesh Krishna Jawale 22. Suman Sudhakar Jain (Pisalkar) 23. Pappu Sudhakar Jain (Pisalkar) 24. Khristophar William Fransis

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				158	158/1 Plot No. 1 to 3 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 158/2 158/3 Plot No. 1 to 5, 37 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	1806	1. Bharat Ramkisan Tiwari 2. Chairman Saraswati Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Bhusawal 3. Mangal Sharada A. Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Bhusawal 4. Vilas Narayan Sarode 5. Dodhu Hiranman Bhargale 6. Sudhakar Hiranman Bhargale 7. Devram Hiranman Bhargale 8. Dinkar Hiranman Bhargale 9. Shaligram Ramkrishna Bhargale 10. Bisanchand Dalechand Agrawal 11. Gita Sushil Saxena 12. Shubham Sushil Saxena 13. Dipali Sushil Saxena A.Pa.K. Ani Gita Saxena 14. S. M.S. C.H. Badhesir A. Co. Op. cre. Soc. Varangaon 15. Tapi Patisar A. Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Bhusawal 16. Nanakram Prilal Bajaj 17. Galludas Uttamchand Chhajeda 18. Others 19. Govt.
				113	113/1+2 Plot No. 1 to 8 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	88	1. Vijay Padmakar Joshi 2. Bhimrao Dayaram Surwade 3. Mirabai Bhagawanchand Chaudan 4. Sadashiv Ganapat Mane 5. Motiram Shriram Jashi 6. Devendra Sopan Patil 7. Dattatraya Jagannath Pawar 8. Sonali Prashant Chaudhari 9. Nandlal Bansilal Mehre 10. Durga Shriram Sabale 11. Milind Ramchandra khandarc 12. Prasad Nilkanth Prabhudesai 13. Dr. Kamalkant Mohanlal Shastri 14. Sandhya Kamalkant Shastri 15. Krishna Baliram Patil 16. Minakshi Krishna Patil 17. Ishwar Bhagawan Patil 18. R. R. C. Boja 19. Sopan Dhondu Patil 20. Dnyaneshwar Dhondu Sonawane 21. Union Bank of India Branch Bhusawal 22. Rajesh Rameshchandra Gupta 23. Govind Radheshyam Agrawal 24. Meera Harish Manchudiya 25. Others
				132	132/1 Plot No. 1 & 2 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 132/2 Plot No. 1 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 132/3 Plot No. 6, 14 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	3923	1. Bhavana Mukeshlal Nagdev 2. Meena Ghansham Nagdev 3. Pramod Madanlal Rathi 4. Sushilkumar Nahata A. Co. Op. Cre. Soc. Ltd. Bhusawal 5. Jayprakash Surajbhan Agrawal 6. Prakash Madhav Mahajan 7. Others 8. Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				131	131-1 Plot No. 15 & 16 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 131-2 Plot No. 1 & 15 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	2321	1. Patrakar Khadi Sahab Angarwala Jain Stripalaji 2. Ashadevi Madanlalji Patani Jain 3. Beta Shekharbahu Jain 4. Bhimraj Trymbak Mahajan 5. Gopal Trymbak Mahajan 6. Ramesh Trymbak Mahajan 7. Dattu Trymbak Mahajan 8. Prabhakar Trymbak Mahajan 9. Usha Liladhar Mahajan 10. Prashanti Liladhar Mahajan 11. Shradha Liladhar Mahajan 12. Kajal Liladhar Mahajan No. 11 & 12 A Pa. K. Aai Usha Liladhar Mahajan 13. Induhai Shridhar Mahajan 14. Shobha Vilas Sarode 15. Others 16. Govt.
				112	112-1 Plot No. 1, 2, 54 to 60 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Non Agriculture	2907	1. Manisha Dinesh Sonar 2. Bhalchandra Laxman Dhande 3. Latahai Suresh Navgale 4. Umesh Suresh Navgale 5. Mahesh Suresh Navgale 6. Pallavi Mukunda Bhargav 7. Mofijul Shriraj Laskar 8. Shaligram Bandu Narkhede 9. Dipak Sopan Mahajan 10. Swami Vivekanand A. Cu. Cre. Soc. Ltd. Bhusawal 11. Dipak Sopan Mahajan 12. Shankarlal Hirafal Patel 13. Dnyandeo Rambhau Banait 14. Prakash Rambhau Banait 15. Chhaya Tukaram Banait 16. Komal Tukaram Banait 17. Vaibhav Tukaram Banait 18. Kajal Tukaram Banait No. 16 & 18 A Pa K. Aai Chhaya Tukaram Banait 19. Others 20. Govt.
				111 111	111-1 Plot No. 1 & 2 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space 111/3/2	Private & Govt.	Non Agriculture	1562	1. Kuldipsing Premising Chahel 2. Ravindrasing Kuldipsing Chahel 3. Prakashkaur Baggasing 4. Paramjising Baggasing 5. Balbirsing Baggasing 6. Others 7. Govt.
				170	170/1A+1B+1C+2 A/1 170/1A+1B+1C+2 A/2 170/1A+1B+1C+2 A/3 170/1A+1B+1C+2 A/4 170/1A+1B+1C+2 A/5 170/2B/1 170/2B/2 170/2C 170/2D 170/3/1 170/3/2	Private	Non Agriculture	819	1. Rajendrakaur Kuldipsing Chahel 2. Sarangdhar Mahadev Warulkar (Patil) 3. Sitaram Gulabchand Agrawal 4. Narendra Biradichand Agrawal 5. Gurudipsing Kesharsing Chhabarda 6. M. Sakharani Ji Mahajan & Co. Bhusawal Ramdas Sakharani Mahajan 7. Radheshyam Biradichand Lahoti 8. Nitin Shantilal Surana 9. Narendra Vilithaldas Ladhe 10. Chintaman Kisan Thakur 11. Mahesh M. Co. Op. Cre. Soc. Bhusawal 12. P. W. D. Bhusawal 13. Gopal Jetmal Mantri
				171	171 Plot No. 9, 10, 55 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Govt.	Non Agriculture	459	Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				172	172/1/1+2+3 172/1/2+2/2+3/2 172/1+3/1+2/4 172/1/3	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	1153	1. Prakash Moreswar Falak 2. Mohan Moreswar Falak 3. Sunil Moreswar Falak 4. Vasundhara Moreswar Falak 5. Shekhar Kisan Tekawani 6. Vinod Kiran Tekawani 7. Bank of Badoda Branch Bhusawal 8. Ananda Parasharam Bhole 9. Khadake vivid Karyakari Seva Sahakari Society 10. P. W. D. Bhusawal 11. Govt.
				177	177/1A 177/1B/1 177/1B/2 177/1C/1A 177/1C/1B 177/1C/2 177/2A 177/2/1/1 177/2/1/2 177/2/2	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	1387	1. Sadashiv Kisan Bharambe 2. Mavajibhai Velajibhai Patel 3. Vasudeo Motumal Manawani 4. Indralal Kaudamal Badlani 5. Kausaribegam Jafaruddin Khan 6. Kayadjoher Akabarali 7. Shabanambi Najir Ahmad Kureshi 8. Shamabegam Ali Murtuza Kureshi 9. Md. Ansar Md. Hanif 10. Vinayak Vishwanath Gunjal 11. Vijay Vishwanath Gunjal 12. Vasudeo Vishwanath Gunjal 13. Shakuntala Dinkar Gunjal 14. Nilesh Dinkar Gunjal 15. Vishal Dinkar Gunjal 16. Tushar Dinkar Gunjal 17. Sarika Rushiraj Labade 18. Dattatraya Kisan Bharambe 19. Haji Munna Ibrahim Teli 20. Pallavi Pramod Savakare 21. Pramod Manohar Bhagale 22. Kiran Manohar Bhagale 23. Laxmibai Kisan Bharambe 24. P. W. D. Bhusawal 25. Others 26. Govt.
				178	178/1/1/1A 178/1/1/1B 178/1/1/2 178/1/2 178/2/1 178/2/2	Private & Govt.	Agriculture Non Agriculture	349	1. Shalini Pandurang Bhirud 2. Vijay Pandurang Bhirud 3. Dipak Pandurang Bhirud 4. Ashish Pandurang Bhirud 5. Shubhangi Narendra Patil 6. Lokkalyan Gra. B. She. P. Mar. Varangaon Branch Khadaka 7. Lilabai Devidas Bhole 8. Aruna Shivajirao Patil 9. Bharati Raman Bhole 10. Rajanikant Chhabildas Shah 11. Mahendrakumar Chhabildas Shah 12. Balakrishna Laxman Bhirud 13. Jagadish Vallabhbbhai Patil 14. Bharat Vallabhbbhai Patil 15. P. W. D. Bhusawal
				191	191/2B Plot No. 32 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private	Agriculture & Non Agriculture	836	1. Dattatraya Kisan Bharambe 2. Sadashiv Kisan Bharambe 3. Prakash Bhanudas Bharambe 4. Reva Bhanudas Bharambe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				192	192/1/2 192/2/2 192/3/1 192/1/1/1 192/1A Plot No. 1 to 4 & Other & National Highway 5 M. Widening Road & Service Road & Open Space	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	2175	1. Sarabjitkar Indarsing Chahal 2. Gurumindarsing Indarsing Chahal 3. Bhajanpritsing Indarsing Chahal 4. Vimalbai Kamalakar Lokhande 5. Pushpalata Manohar Patil 6. Vimal Namdeo Bharambe 7. A. Ku.K. Hari Budho Bonde 8. Laxmibai Vana Bonde 9. Nathu Vana Bonde 10. Vasant Vana Bonde 11. Dattu Vana Bonde 12. P. W. D. Bhusawal 13. Lilabai Kamalakar Lokhande 14. The Bhusawal Peoples Co. Op. Bank Bhusawal 15. Dinkar Kadu Bharambe 16. Others 17. Govt.
				193	193/4/1A 193/4/1B 193/4/1C 193/4/2	Private & Govt.	<del>Non</del> Agriculture	656	1. Prabhakar Shenu Mahajan 2. Bhaskar shenu Mahajan 3. Vijaya Bhaskar Mahajan 4. Umesh Bhaskar mahajan 5. Manohar Janardan Mahajan 6. A. Ku.K. Raghunath Vasant Mahajan 7. P. W. D. Bhusawal
			(15) Bhusawal	53	53	Private & Govt.	Agriculture	166	1. Anjuman Alafaraj Trust Bhusawal 2. Others 3. Govt.
				54	54	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	1057	1. Shaikh Sahir Shaikh Roshan 2. Others 3. Govt.
				55	55 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	317	1. Prabhakar Baburao Sonawane 2. Namdeo Ramadas More 3. Others 4. Govt.
				58	58 Peki	Private & Govt.	Non Agriculture	1021	1. Service Road Govt. 2. Others
				64	64/2 A	Private	Non Agriculture	96	1. Mina Vasant Chaudhari 2. Dr. Surendra Haribhau Bhirud 3. A. Ku.K. Sonal Vijay Bhargale 4. Sarang Vaman Chaudhari
					64/2 B	Private	Non Agriculture	39	Raghunath Vaman Mule
				69	69	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	796	1. Govt. 2. Service Road 3. Others
				70	70	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	1220	1. Raman Devidas Bhole 2. Pravin Devidas Bhole 3. Rajendra Tilakraj Kapur 4. Mina Sudhir Marendra 5. Shobha Sunil Malhotra 6. Anita Rippu Chadda 7. Others 8. Govt.
				129	129 Peki	Private & Govt.	Non Agriculture	2107	1. Govt. 2. Service Road
				127	127 Peki	Private & Govt.	Non Agriculture	1539	1. Govt. 2. Service Road
				122	122 Peki	Private & Govt.	<del>Non</del> Agriculture	209	1. Govt. 2. Service Road
				172	172/2 A	Private  Govt	Non Agriculture  Agriculture	982	1. Shri Ramkrishna Gorakshan Sanstha Bhusawal 2. Others 3. Govt.
				171	171	Private & Govt.	Non Agriculture	336	1. Govt. 2. Service Road

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				169	169 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	1132 1. Govt. 2. Service Road
				195	195 Peki	Private & Govt.	Agriculture & Non Agriculture	665 1. Popat Manga Bonde 2. Rajesh Pukharaj Raka 3. Others 4. Govt.
				198	198 Peki	Private & Govt.	Non Agriculture	521 1. Govt. 2. Service Road
				200	200/1 A	Private	Agriculture	113 1. Khushal Ramkrishna Dhake 2. Dinesh Puslal Kucheriya 3. Rajendra Hiralal Vedmutha 4. Jayantilal Shantilal Surana 5. Kiran Ashok Surana 6. Sima Dhiraaj Surana
					200/1 B	Private	Agriculture	189 Chief Officer Nashik Gruhanirman & Kshetravikas Mandal Aurangabad
					200/2 A Peki	Private	Agriculture	68 Chief Officer Nashik Gruhanirman & Kshetravikas Mandal Aurangabad
					200/2 B	Private	Agriculture	346 1. Gopal Sona Falak 2. Prabhakar Sona Falak 3. Vaman Sona Falak 4. Pushpa Dalu Falak 5. Bhagawat Dalu Falak 6. Usha Mahesh Patil 7. Usha Kailas Yevale

[F. No. NHA/PIU/AUR/LA/NH-6/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.